

अपूर्वने पहचान लिया कि वह उन्हींकी नई पड़ोसिनकी लड़की मृण्मयी है। पहले इनलोगोंका घर यहाँसे बहुत दूर बड़ी नदीके किनारेपर था। दो-तीन वर्ष हुए, नदीकी वाढ़के कारण उन्हें गांव छोड़कर यहाँ चला आना पड़ा है।

इस लड़कीके बारेमें बहुत निन्दा सुननेमें आती है। गांवके पुरुष तो इसे स्लेहके मारे 'पगली' कहा करते हैं; किन्तु गृहिणियाँ इसके उच्छृङ्खल स्वभावसे सर्वदा भयभीत चिन्तित और शङ्कित रहा करती हैं। गांवके लड़कों ही के साथ उसका खेल होता है, वरावरकी लड़कियोंके प्रति उसकी अवज्ञाकी हृद नहीं। बच्चोंके राज्यमें यह लड़की एक तरहसे शत्रुपक्षकी फौजके उपद्रवके समान जान पड़ती है।

बापकी लाडली लड़की ठहरी, और इसीलिए वह इतनी निःड़ है। यद्यपि इस विषयमें मृण्मयीकी भा अपनी सखी-सहेलियोंके आगे हरबळ अपने पत्रिके खिलाफ फरियाद किया ही करती हैं, मगर फिर भी यह सोचकर कि वाप लड़कीको लाड़ करते हैं और जब वे घर रहते हैं तो मृण्मयीकी आँखोंके आंसू उनके हृदयमें बहुत ही व्यथा पहुँचाते हैं, वे प्रवासी पतिकी याद करके लड़कीको किसी भी तरह रुला नहीं सकतीं।

मृण्मयी देखनेमें सौबली है। छोटे-छोटे धुँधराले बाल पीठ तक विखरे रहते हैं। चेहरेपर विलकुल बालकका-सा भाव है। बड़ी-बड़ी काली आँखोंमें न तो शरम है, न डर, और न हाव-भावका कोई लेश। शरीर लम्बा परिषुष्ट स्वस्थ और सवल है। उसकी उम्र ज्यादा है या कम, यह प्रश्न किसीके मनमें उठता ही नहीं। अगर उठता तो लोग इस बातपर मान्वापकी निन्दा करते कि 'अभी तक वह कुँवारी ही फिर रही है।' जब कभी गांवके विदेशी जमोदारकी नाव आकर घाटपर लगती है तो उस दिन गांवके लोग उनकी आव-भगत करनेकी तैयारीमें घबरा-से जाते हैं, घरकी स्त्रियोंकी मुख-रंगभूमि पर अकस्मात् नाकके नीचे तक यत्निका पड़ जाती है, किन्तु मृण्मयी न-जाने कहाँसे किसीके नंग-धड़ग बच्चेको गोदमें लिये-हुए धुँधराले बाल पीठपर बखरे आ खड़ी होती है। जिस देशमें कोई शिकारी नहीं, कोई विपत्ति नहीं, उस

देशके हरिणके बच्चेकी तरह वह निर्भीक खड़ी-हुई कुल्हालसे टकटकी लगाये देखा करती, और अन्तमें अपने बालक-संगियोंके पास जाकर इस नये-आये-हुए प्राणीके आचार-व्यवहारके विषयमें विस्तारके साथ वर्णन करती।

हमारे अपूर्वकुमारने छुट्टीके दिनोंमें घर आकर इससे पहले और भी दो-चार बार इस बन्धन-हीन वालिकाको देखा है, और फुरसतके बज्जे, यहाँ तक कि बामके बज्जे भी देखा है, इसके विषयमें विचार किया है। पृथ्वीपर बहुतसे चेहरे देखनेमें आते हैं, किन्तु कोई-कोई चेहरा ऐसा होता है कि न कुछ कहना, न सुनना, चटसे मनके भीतर जाकर ऐसा पैठ जाता है कि उसे निकालना मुश्किल हो जाता है। सिर्फ सौन्दर्यके कारण ही ऐसा होता हो सो बात नहीं, वह तो कुछ और ही गुण है,— और शायद वह है सच्चिता। अधिकांश चेहरोंपर मनुष्य-प्रकृति पूरी तौरसे अपना प्रकाश नहीं ढाल पाती, और जिस चेहरेपर इद्यके एक कोनेमें वैठा-हुआ वह रहस्यमय व्यक्ति विना वाधाके बाहर निकलकर दिखाई देता है वह चेहरा हजारोंमें हिपता नहीं, पल-भरमें मानस-पटपर अङ्गित हो जाता है।) इस वालिकाके चेहरेपर आँखोंपर एक चबल और ढीठ नारी-प्रकृति हमेशा उन्मुक्त और जङ्गलके दौड़ते-हुए सुरक्षा तरह दिखाई देती रहती है, और वह खेलती-फिरती है, और इसीलिए ऐसे सजीव चबल चेहरेको एक बार देख लेनेपर फिर सहजमें वह भुलाये नहीं भूलता।

पाठकोंको यह बतानेकी जहरत नहीं कि मृण्मयीकी सकौतुक हास्यघनि चाहे कितनी ही मीठी क्यों न हो, किन्तु अमाने अपूर्वके लिए वह जरा-कुछ तकलीफदे ही सावित हुई। मारे शर्मके चेहरा उसका सुर्ख हो डठ ; और हाथका वैग चटसे मलाहके हाथमें साँपकर वह तेजीसे अपने घरकी तरफ चल दिया।

प्रकृतिकी तैयारियाँ भी बहुत सुन्दर थीं। नदीका किनारा, पेड़ोंकी ढाया, चिड़ियोंका मधु-गान, प्रभातकी मीठी-मीठी धूप, उसपर बीस सालकी उमर। अवश्य हो इंद्रोंका देर ऐसा-कुछ खास उल्लेख-चोग्य नहीं, किन्तु उसपर जो मानव-सन्तान वैठी थी उसने उस हखे-सूखे कठोर आसनपर भी एक तरहका

खास मनोरम सौन्दर्यका भाव कैला रखा था । हाय हाय, ऐसे मनोरम दृश्यमें पहला कदम रखते ही जिसका साराका सारा कवित्व प्रहसनमें परिणत हो जाय उसके भाग्यकी इससे बढ़कर निष्ठुरता और व्या हो सकती है !

## २

इंटोंके ढेरके ऊपरसे वहती-हुई हँसीकी लहर सुनते-सुनते पेड़ोंकी छायाके नीचेसे कीचसे-सना दुपट्टा और वैग लिये-हुए श्रीयुत अपूर्वकुमार किसी कदर अपने घर जा पहुँचे ।

अचानक वेटेके आ जानेसे विधवा मा मारे खुशीके फूली न समाइ । उसी वक्त खोआ - दही - दूध और मछलीकी खोजमें दूर-नजदीक सब जगह आदमी दौड़ाये गये, थौर पास-पड़ोसमें भी एक तरहकी हलचल पैदा हो गई ।

खा-पी चुकनेके बाद माने वेटेके आगे व्याहका प्रस्ताव छेड़ा । अपूर्व इसके लिए तैयार था । कारण, प्रस्ताव वहुत पहलेसे ही पेश था, सिर्फ वेटा जरा-कुछ नई रोशनीके चक्करमें आकर जिद कर वैठा था कि ‘वी० ए० पास वगैर किये मैं व्याह हरगिज नहीं कर सकता’ इत्यादि । अब तक जननी उस ‘पास’की ही प्रतीक्षामें थीं, लिहाजा अब किसी तरहकी आपत्ति करनेके मानी ही हैं भूठी वहानेवाजी ।

अपूर्वने कहा, “पहले लड़की तो देखो, फिर देखा जायगा ।”

माने कहा, “लड़की देखी जा चुकी है,— उसके लिए तुम्हे फिक्र करनेकी जरूरत नहीं ।”

किन्तु अपूर्व उसके लिए खुद ही फिक्र करनेको तैयार हो गया ; और बोला, “लड़की विना देखे तो मैं व्याह नहीं कर सकता ।”

मा सोचने लगीं, ‘ऐसी अनोखी वात तो आज तक नहीं सुनी !’ किन्तु फर भी राजी हो गई ।

रातको, अपूर्व दिवा वुस्काकर विस्तरपर जा पड़ा । और पड़नेके साथ ही वर्षा - निशीथकी सारी-की-सारी आवाज और सम्पूर्ण निस्तव्धताके उस पारसे

उसकी विनिद्र शब्दग्रापर एक उच्छृङ्खसित उच्च मधुर कण्ठकी हास्य-खनि आ-आकर लगातार उसके कानोंमें बजने लगी। उसका मन अपनेको बार-बार लगातार यह कह-कहकर पीड़ा देने लग गया कि सबेरे वह जो पैर फिसलकर गिर पड़ा था उसका किसी-न-किसी तरकीबसे उसे सुधार कर ही देना चाहिए। उस लड़कीको यह मालूम ही नहीं कि 'मैं अपूर्वकुमार हूँ, अचानक फिसलनपर पांव पड़ जानेसे कीचमें गिर जानेपर भी मैं कोई उपहास्य या उपेक्षणीय गावका युवक नहीं।'

दूसरे दिन अपूर्वको लड़की देखने जाना था। ज्यादा दूर नहीं, मुहल्लेमें ही लड़कीबालोंका घर है। उसने जरा-कुछ जतनके साथ ही कपड़े पहने। धोती और दुपट्टा छोड़कर रेशमी अचकन, माथेपर अमीरी ढंगकी गोल पगड़ी और पांवोंमें वार्निशदार चमकते-हुए जूते पहनकर, रेशमी कपड़ेकी बढ़िया छतरी हाथमें लटकाये बह सबेरे ही चल दिया।

होनेवाली सुसरालमें पदार्पण करते ही वहाँ समारोह-समादरकी धूम मच गई। अन्तमें यथासमय कम्पित-हृदय लड़कीको काड़-पौछकर, रंग-रंगकर, जूँझेमें गोटा बगैरह लगाकर और एक पतली रंगीन साड़ीमें लपेटकर उसे भावी बरके सामने लाया गया। लड़की एक कोनोंमें लगभग घुटनों तक माथा मुकाये चुपचाप जड़वस्तु-सी बैठी रही, और उसके पांछे हिमंत बैशाये रखनेके लिए खड़ी रही एक अवेद उभरकी दासी। लड़कीका एक भाई, जो कि अभी चच्चा ही था, अपने परिवारमें अनधिकार प्रवेश करनेवाले इस नये आदमीकी पगड़ी, घड़ीकी चेन और उठी-हुई मूँछोंकी तरफ बड़े ध्यानसे टकटकी बधिये देखने लगा।

अपूर्वने कुछ देर मूँछोंपर हाथ फेरनेके बाद अन्तमें गम्भीरताके साथ पूछा,  
“तुम पढ़ती क्या हो?”

गहनों-कपड़ोंसे लदी-हुई लजाकी नटरामेंसे उसे अपने सवालका कोदे भी जवाब नहीं मिला। दो-चार बार पूछ जाने और पुरानी दासी-द्वारा पाठपर बार-बार उत्साहप्रद थपकिया पड़नेके बाद लड़कीने बहुत ही धीर्घी आवाजमें

जल्दी-जल्दी एक ही सांसमें कइकर छुट्टी पा ली, “कन्या-बोधिनी दूसरा भाग, व्याकरण-सार, भूगोल, अंक-गणित, भारतवर्षका इतिहास !”

इतनेमें, बाहर किसीकी तेज चालकी ‘धम-धम’ आवाज सुनाई दी ; और दूसरे ही क्षण दौड़ती-हाँफती और पीठपरके बालोंको हिलाती-हुई मृण्मयी वहाँ आ धमकी । उसने अपूर्वकी तरफ आँख उठाकर देखा तक नहों, सीधी, उस होनेवाली दुलहिनके छोटे भाई राखालके पास पहुंची और उसका हाथ पकड़कर खीचना शुरू कर दिया । राखाल उस समय भावी दूल्हा-दुलहिनको देखनेमें गरक था,— वहाँसे वह किसी भी तरह टससे मस न हुआ । नौकरानी अपने संयत कण्ठकी कोमलताकी भरसक रक्षा करती-हुई यथासाध्य तीव्रताके साथ मृण्मयीको फटकारने लगी । और अपूर्व अपनी सारी-की-सारी गम्भीरता और गौरवको इकट्ठा करके पगड़ी-शुदा माथेको ऊँचा करके बैठा रहा और ऐटके पास लटकती-हुई अपनी घड़ीकी चेनको हिलाने लगा ।

आखिरकार, मृण्मयीने जब देखा कि उसका साथी किसी भी तरह विचलित नहीं हो रहा, तब उसने उसकी पीठपर एक जोरका मुक्का जमा दिया ; और लगे- हाथ भावी दुलहिनके माथेका धूँधट उघाड़कर वह आधीकी तरह जिस रफ्तारसे आई थी उसी रफ्तारसे भाग खड़ी हुई । नौकरानी जी मसोसकर रह गई ; और भीतर-ही-भीतर घुमड़-घुमड़के गरजने लगी । और राखाल अचानक वहनका धूँधट खुल जानेसे एकाएक खिलखिलाकर हँस पड़ा । इस आनन्दमें अपनी पीठपर पढ़े-हुए मुक्केको भी उसने बेजा नहीं समझा । कारण ऐसा देन-लेन उनमें अकसर हुआ ही करता है,— कोई खास बात नहीं थी । इसके लिए एक दृष्टान्त काफी है । एक दिनकी बात है, मृण्मयीके बाल तब पीठ तक बढ़े-हुए थे, राखालने अचानक पीछेसे आकर कैंचीसे उसके बाल कतर दिये,— इसपर मृण्मयीको बहुत जोरका गुस्सा आया और उसने चटसे राखालके हाथसे कैंची छीनकर अपने बाकी बचे-हुए बाल भी बड़ी निर्दयतासे कतर-कतरकर उसके सुँहपर दे मारे । मृण्मयीके धुँधराले बालोंके गुच्छे डालीसे गिरे - हुए काले अंगूरके गुच्छोंकी तरह जमीनपर बिखर गये । इन दोनोंमें शुरूसे ही इस तरहकी शासन-प्रणाली प्रचलित थी ।

इसके बाद फिर वह नीरव परीक्षा-सभा ज्यादा देर तक न टिक सकी। गठरी-सी बनी लड़की बड़ी मुश्किलसे अपनेको लम्बी बनाकर दासीके साथ घरके भीतर चली गई। अपूर्व परम गम्भीरताके साथ अपनी उठती-हुई मूँछोंपर लां हाथ फेरता - हुआ उठ खड़ा हुआ। दरवाजेके पास जाकर देखा कि उसके बानिशदार नये जूते बहासे गायब हैं। बहुत कोशिश करनेपर भी इस बातका लङ्घ कर्तव्य पता न चला कि जूते कौन ले गया, कहाँ गये।

घरबाले सभी-कोई बड़े परेशान हुए, और अपराधीके नामपर लगातार निन्दा और गालियोंकी वर्षा होने लगी। बहुत ढूँढ़नेपर भी जब जूतोंका कुछ पता न लगा, तो अन्नमें मजबूर होकर घर-मालिककी फटी-पुरानी ढीर्डी चट्ठी पहनकर पतलून चपकन पगड़ी आदिसे सुसज्जित अपूर्व गांवके कीचड़-भरे रास्तेसे अत्यन्त सावधानीके साथ घरकी ओर चल दिया।

तालाबके किनारे उनसान रास्तेपर पहुंचते ही सहसा फिर उसे वही जोरकी हँसी सुनाई दी। नानो पेड़-पत्तोंकी ओटमेंसे कौतुकप्रिया बन्देही अपूर्वकी उन बेमेल जूतियोंको देखकर एकाएक हँस पड़ी हो।

अपूर्व अत्यन्त लजित होकर ठिक गया, और इधर-उधर निगाह ढौँड़ा कर देखने लगा। इतनेमें सधन बनमेंसे निकलकर किसी निर्लज अपराधिनीने उसके सामने नये जूते रख दिये, और जैसे हो वह चट्टे भाग जानेको तैयार हुई कि अपूर्वने जल्दीसे उसके दोनों हाथ पकड़कर उसे कैद कर लिया।

मृण्यने यथासाध्य टेढ़ी-सीधी-तिरछी होकर, जोर लगाकर हाथ ढुँड़ाकर भागनेकी बहुत कोशिश की, लेकिन व्यर्थ। धुँधराले बालोंसे घिरे-हुए उसके भरे-हुए गोल-मटोल मुसकराते - हुए चबल चेहरेपर सूरजकी किरणें पेड़की डालियों और पत्तोंमेंसे छन-छनकर पड़ने लगीं। कुत्तहली पथिक जिस तरह सूर्य-किरणोंसे चमकती-हुई निर्मल चबल निर्मरणीकी ओर झुककर टकटकी लगाये उसकी तलीको देखता रहता है, ठीक उसी तरह अपूर्वने उन्नर्थके ऊपर उठे-हुए चेहरेपर झुककर, उसकी बिजली-सी चम्ल आंखोंके भंतर गहरी निगाह गड़ाकर देखा, और फिर बहुत ही आहिस्तेसे सुन्नी ढीकी करके नानो व्यपने कर्तव्यको अवूरा छोड़कर बनिनीको मुक्त कर दिया। अपूर्व-

अगर गुस्सेमें आकर मृण्यीको पकड़कर मारता, तो उसे जरा भी आश्चर्य न होता, किन्तु इस प्रकार मुनसान रास्तेमें इस अद्वृत नीरव दण्डका वह कुछ अर्थ ही न समझ सकी।

. नाचती - हुई प्रकृतिके नूपुरोंकी झनकारके समान फिर वही चब्बल हास्य-वनि समर्पण आकाशमें व्याप्त होकर गूँज उठी, और चिन्ता-निमग्न अपूर्व चहुत धीरे-धीरे पैर रखता-हुआ घरकी ओर चल दिया।

## ३

अपूर्व उस दिन तरह-तरहके वहाने बनाकर न तो घरके भीतर गया, और न मासे मिला। किसीके यहाँ निमन्त्रण था, वहीं खा आया। अपूर्व सरीखा पढ़ा-लिखा और गम्भीर भावुक युवक एक मामूली विना-पढ़ी-लिखी लड़कीके मुकाबले अपना छुत गौरव उद्धार करने और उसे अपनी आन्तरिक नहत्ताका पूर्ण परिचय देनेके लिए क्यों इतना उत्कण्ठित हो उठा, यह समझना कठिन है। एक गँवड़े-गाँवकी चब्बल लड़कीने उसे मामूली आदमी समझ ही लिया तो क्या हो गया? और उसने क्षण-मरके लिए अपूर्वको हास्यास्पद बनाकर और फिर उसके अस्तित्वको भूलकर राखाल नामके किसी निवैध लड़केके साथ खेलनेके लिए दिलचस्पी जाहिर की, तो इसमें अपूर्वका विगड़ ही क्या गया? इन बच्चोंके सामने उसे यह सावित करनेकी जहरत ही क्या है कि वह 'विद्वदीप' नामक मासिकपत्रमें किताबोंकी समालोचना किया करता है, और उसके बक्सके अन्दर एसेन्स, जूते, रुविनीके कैम्फर, चिट्ठी लिखनेके रंगीन कागज और 'हारनोनियम-शिक्षा' किताबके साथ एक पूरी लिखी-हुई प्रेस-कापी, निदोथके गर्भमें भावी ऊपाकी तरह, प्रकाशित होनेकी प्रतीक्षा कर रही है?

किन्तु भनको समझाना कठिन है, कम-से-कम इस देहाती चब्बल लड़कीके सामने श्री अपूर्वकुमार राय बी०ए० पराजय स्वीकार करनेको किसी भी तरह तैयार नहीं।

शामको अपूर्व जब घरके भीतर पहुंचा तो उसकी माने पूछा, “क्यों रे, लड़की देख आया ? कैसी है, पसन्द है न ?”

अपूर्वने कुछ मौपते-हुए कहा, “हाँ, देख आया, मा,- उनमें से एक लड़की मुझे पसन्द है ।”

माने जरा कुछ आश्चर्यके साथ कहा, “तैने कितनो लड़कियाँ देखी थीं वहाँ ?”

अन्तमें दो-चार प्रश्नोत्तरके बाद नाको नालूम हुआ कि उनके लड़केने पड़ोसिन शारदाकी लड़की नृष्णयीको पसन्द किया है । इतना पड़-लिखकर भी लड़केकी ऐसी पसन्द ।

पहले तो अपूर्व कुछ शरमाता रहा, फिर अन्तमें ना जब उसकी पसन्दका विरोध करने लगीं तो उसकी वह शर्म जाती रही । यहाँ तक कि जिद्दमें आकर वह कह बैठा, “सृष्टयोके सिवा मैं और - किसीसे व्याह कहेंगा ही नहीं ।” और ज्यों-ज्यों वह उसके सामने पहले लाइ-नाइ उस जड़-पुतली जैसी लड़कीकी कल्पना करने लगा त्यों-त्यों व्याहके बारेमें उसकी अरुचि बढ़ती ही गई ।

दो-तीन दिन तक मा और वेटेमें नाराजीका भाव रहा, माने खाना-पीना सोना तक बन्द कर दिया, किन्तु अन्तमें अपूर्वकी ही जीत हुई । माने अपने मनको समझाया कि नृष्णयी अभी बच्ची ही है, और उसकी ना उसे पढ़ानेमें असमर्थ है, व्याहके बाद अपने घर आ जानेपर वे उसे ठीक कर लेंगे । और धीरे-धीरे उन्हें इस बातपर भी मरोसा होने लगा कि उसका चेहरा सुन्दर है । किन्तु उसी समय उसके भड़े बालोंकी कल्पना करते ही उनका मन निराशामें भर गया, फिर भी उन्होंने आशा की कि ठीकसे जूँड़ा बांधते रहने और यह तेल ढालते रहनेसे यह त्रुटि भी कुछ दिनोंमें जाती रहेगी ।

उहल्लेके सभी लोग अपूर्वकी इस पसन्दको ‘अपूर्व - पसन्द’ कहने लगे । पगली नृष्णयीको प्यार तो यहुतसे लोग करते हैं,- किन्तु इसका मतलब यह नहीं कि उसे वे अपने लड़केके साथ व्याहनेचोर्य समझते हों ।

मृण्मयीके बाप ईशानचन्द्र मजुमदारको यथासमय खबर दे दी गई। वे किसी स्टीमर-कम्पनीकी तरफसे बतौर वल्कर्के नदीके किनारे एक घोटेसे स्टेशनपर टीनसे छैंहुई छोटी-सी झोपड़ीमें माल उतरवाने-लदवाने और टिकट बेचनेका काम करते थे। देशसे अपनी लड़को मृण्मयीके सम्बन्ध थौर व्याहका समाचार पाकर उनकी दोनों आँखोंसे आँसू गिरने लगे। उनमें कितना दुःख और कितना आनन्द था, इस बातका अनदाजा लगाना कठिन है।

अपनी लड़कीके व्याहमें जानेके लिए ईशानचन्द्रने हेडआफिसके साहबको छुट्टीके लिए दरखास्त दी। साहबने उसे बहुत ही तुच्छ काम समझकर छुट्टी नामंजूर कर दी। तब उन्होंने घरको लिख दिया कि दशहरेके मौकेपर एक हफ्तेकी छुट्टी मिलेगी, तब तकके लिए व्याह स्थगित रखा जाय। पर अपूर्वकी माने लिखा कि 'इस महीनेका मुहूर्त बहुत ही अच्छा है, अब आगे दिन नहीं हटाया जा सकता।'

दोनों जगहसे प्रार्थना नामंजूर हो जानेपर व्यथित-हृदय बापने फिर कोई आपत्ति नहीं की, पहलेकी तरह ही वह माल वजन करने और टिकट बेचनेके काममें लग गया।

इसके बाद, मृण्मयीकी मा और गाँवके जितने भी बड़े-बूढ़े थे सब-कोई मिलकर मृण्मयीको उसके भावी कर्तव्यके विषयमें दिन-रात उपदेश देने लगे। खेल-कूद, भाग-दौड़, जल्दी-जल्दी चलना, जोर-जोरसे हँसना, लड़कोंके साथ हिलना-मिलना, फालतू बातें करना और भूख लगते ही खानेको माँग वैठना इत्यादि विषयोंपर मनाहीकी सलाह दे-देकर सबोंने व्याहको उसके सामने एक भूत बनाकर खड़ा कर दिया।

उत्कण्ठित और शङ्खित-हृदय मृण्मयीने समझा कि उसे जिन्दगी - भरके लिए कैद और उसके बाद फाँसीकी सजा दी जा रही है।

नतीजा यह हुआ कि कमबख्त अडियल टट्टूकी तरह गरदन टेढ़ी करके पीछेको हटकर कह वैठी, "मैं व्याह नहीं कहूँगी, जाओ!"

४

किन्तु फिर भी उसे व्याह करना ही पड़ा ।

उसके बाद शिक्षा शुरू हुई । अपूर्वकी भाके घर आकर एक ही रातमें नृष्मयीकी अपनी सारी दुनिया कैदमें घिर गई ।

सासने वहूका सुधार करना शुरू कर दिया । उन्होंने बहुत ही कठोर मुह बनाकर वहूसे कहा, “देखो वहू, तुम अब नन्ही बच्ची नहीं रहों, -हमारे घरमें ऐसी वेहयाइं नहीं चलेगी ।”

सासने यह बात जिस भावसे कही, नृष्मयी उसे ठीक उसी रूपमें न ले सकी । उसने सोचा कि इस घरमें अगर न चले तो शायद दूसरो जगह कहाँ जाना पड़ेगा ।

दोपहरको वहू घरमें नहीं दिखाइ दी । ‘कहा गई, कहा गई’ - हुँड़ेरा पड़ गया । अन्तमें विश्वासघातक राखालने उसके शुत स्थानका पता दताकर उसे पकड़वा दिया । वह बड़के नीचे श्रीराधाकान्तर्जन्मके दूटे रथमें जाकर छिप गई थी ।

सासने, माने और पास-पड़ोसकी सब-को-सब हितेपिण्योंने उसे किनना डाया-फटकारा और लजित किया, इसकी कल्पना तुद पाठक-पाठिकाएं ही कर लें तो अच्छा हो ।

रातको खूब बादल घिर आये, और रिमझिम-रिमझिम मेह वरसने लगा ।

अपूर्वने धीरे-धीरे नृष्मयीके पास पलंगपर जाकर उसके कानमें धीरेसे कहा, “नृष्मयी, तुम मुझे प्यार नहीं करतीं ?”

नृष्मयी घकायक कड़ककर बोल टूटी, “नहीं । मैं तुम्हें हरगिज नहीं प्यार कहूँगी ।” नानो उसने अपना चारा गुस्ता और सबके कसूरका सारा दण्ड सबको इकट्ठा करके एकसाथ विजलीकी तरह अपूर्वके भायेपर ढंगारा ।

अपूर्वने दुःखी होकर कहा, “क्यों, मैंने तुम्हारा क्या कसूर किया है ?”

इस कसूरकी सन्तोप्तनक कंफियत देना मुश्किल है । अपूर्वने भन-हीनन कहा, “इस विद्रोही मनको जैसे भी दते बद्दलें करना ही देंगा ।”

दूसरे दिन सासने मृण्मयीमें विद्रोही-भावके सब लक्षण देखकर उसे कोठेमें बन्द कर दिया । पिंजडेमें फँसी-हुई नई चिड़ियाकी तरह पहले तो वह बहुत देर तक कोठेके अन्दर फड़फड़ाती रही, फिर वादमें जब कहीं भी भागनेका कोई रास्ता न मिला तो निष्फल क्रोधसे उसने विछैनेकी चादरको दाँतोंसे चीथ-चीथकर उसके मन्ने उड़ा दिये, और जमीनपर आँधी पड़कर मन-ही-मन वापकी याद कर-करके रोने लगी ।

ठीक इसी समय धीरेसे कोई उसके पास आकर वैठ गया और वडे स्नेहसे उसके धूलमें लोटते-हुए वालोंको गालोंपरसे एक तरफ हटा देनेकी कोशिश करने लगा । मृण्मयीने वडे जोड़से अपना सिर हिलाकर उसका हाथ हटा दिया ।

अपूर्वने उसके कानोंके पास अपना मुँह ले जाकर बहुत ही कोमल स्वरमें कहा, “मैंने चुपकेसे दरवाजा खोल दिया है । चलो, अपन पीछेके वरीचेमें भाग जायें ।”

मृण्मयीने जोरसे सिर हिलाकर रोते-हुए कहा, “नहीं ।”

अपूर्वने ठोड़ी पकड़कर उसका मुँह ऊपरको उठाना चाहा, और कहा, “एक बार देखो तो सही, कौन आया है ।”

राखाल जमीनपर पड़ी-हुई मृण्मयीकी ओर देखता-हुआ हतवुद्धिकी तरह दरवाजेके पास खड़ा था । मृण्मयीने विना मुँह उठाये ही अपूर्वका हाथ मटक कर अलग कर दिया ।

अपूर्वने कहा, “देखो, राखाल तुम्हारे साथ खेलने आया है,— खेलने नहीं जाओगी ?”

मृण्मयीने गुस्से-भरे स्वरमें कहा, “नहीं ।”

राखालने भी देखा कि मामला गड़वड़ है । वह किसी तरह घरसे बाहर निकलकर जान बचाकर भाग गया । अपूर्व चुपचाप बैठा रहा । जब मृण्मयी रोते-रोते थकके सो गई तब वह चुपकेसे उठा और बाहरसे दरवाजेकी सौकल चढ़ाकर दबे-पांव वहाँसे चल दिया ।

इसके दूसरे ही दिन मृण्मयीको पिताकी एक चिट्ठी मिली । उसमें उन्होंने

अपनी प्राणोंसे प्यारी बेटी मृण्ययीके व्याहसें न आ सकनेके कारण विलाप करके अन्तमें नव-दम्पतिको आन्तरिक आशीर्वाद दिया था ।

मृण्ययीने सासके पास जाकर कहा, “मैं वापूजीके पास जाऊँगी ।”

सासने अक्षसात् वहूँकी इस असम्भव प्रार्थनाको सुनकर उसे डाट दिया, “वापका कहाँ कुछ ठीक-ठिकाना भी है कि ऐसे ही वापूजीके पास जायेगी । तेरा तो दुनियासे एक न्यारा ही स्वांग है । ऐसा लाड़ मुझे नहीं अच्छा लगता ।”

वहूँने कुछ जवाब नहीं दिया । अपने कमरेमें जाकर उसने भीतरसे किंवाड़ बन्द कर लिये, और दिलचुल हताश आदमी जिस तरह देवतासे प्रार्थना करता है उसी तरह वह कहने लगी, “वापूजी, मुझे तुम ले जाओ यहाँसे । यहाँ मेरा कोई नहीं है । यहाँ मैं नहीं बचूँगी ।”

वहुत रात बीत जानेपर जब उसके पति सो गये तब वह ऊपकेरे द्रवाजा खोलकर बाहर चल दी । यद्यपि बीच-बीचनें बादल घिर-घिर आते थे, फिर भी चाँदनी रातमें रास्ता दिखाइ देने लायक उजाला काफी था । ‘वापूजी’के पास जानेके लिए किस रास्तेसे जाना चाहिए, मृण्ययीको कुछ भी पता न था । उसे तो सिर्फ इतना ही भरोसा था कि जिस रास्तेसे डाक ले जानेवाले टाक्किया लोग जाया करते हैं उसी रास्तेसे दुनियाके किसी भी टिक्कानेपर पहुंचा जा सकता है । मृण्ययी उसी डाककी सड़कसे चलती चली गई । जंगलमें, जब कि दो-एक पक्की पंख फड़कड़ाकर अनिदित स्वरमें बोलना चाहते थे और साथ ही समयका निस्सन्देह निर्णय न कर सकनेके कारण दुधियामें ऊप रह जाते थे, उस समय मृण्ययी सड़कके छोरमें नदीके किनारे एक वाजार-चुराले स्थानपर जा पहुंची । इसके बाद वह सोच ही रही थी कि अब किस ओर जाना चाहिए, इतनेमें उसे परिचिन ‘क्षममम्’ शब्द भुनाइ दिया । थोड़ा देरमें कंधेपर चिट्ठियोंका दैला लटकाये हाँफतानुआ डाकका ‘रनर’ बा पहुंचा ।

मृण्ययी जल्दीसे उसके पास जाकर कहने और धक्के-हुए स्वरमें धोरी, “मैं अपने वापूके पास जाऊँगी कुर्जिंज, तुम सुन्ने साथ ले चलो न ।”

उसने कहा, “कुर्जिंज कहाँ हैं, सुन्ने नहीं भाज्जन ।” इननेसा जबाब

देकर वह घाटपर पहुंचा, और घाटपर बँधी-हुई डाककी नावमें बैठकर मलाहको जगाकर उसने नाव खुलवा दी। उस समय उसे किसीपर दया दिखाने या पूछताछ करनेकी फुरसत नहीं थी।

देखते-देखते घाट और बाजार सजग हो उठे। मृण्मयीने घाटपर जाकर एक मलाहसे कहा, “मुझे कुशीगंज ले जाओगे ?”

मलाहके उत्तर देनेके पहले ही बगलकी नावपरसे कोई बोल उठा, “अरे, कौन है ? मीनू बेटी, तू यहाँ कैसे आई ?”

मृण्मयी अत्यन्त व्यग्रताके साथ बोल उठी, “बनमाली, मैं वापूजोके पास कुशीगंज जाऊँगी, तू अपनी नावपर मुझे ले चल ।”

बनमाली उसके गाँवका ही मलाह था, वह इस उच्छृङ्खल-प्रकृति बालिकाको अच्छी तरह पहचानता था। उसने कहा, “वापूके पास जायगी ? बड़ी अच्छी बात है ! चल, मैं तुझे पहुंचा दूँ ।”

मृण्मयी नावपर जा बैठी।

मलाहने नाव छोड़ दी। बादल घिर आये और मूसलधार वर्षा होने लगी। साबन-भादोंकी तरह भरपूर चड़ी-हुई नदी फूल-फूलकर नावको जोरेसे हिलाने लगी। मृण्मयीका सारा शरीर धकावट और नींदके मारे टूटने-सा लगा, आँखोंमें नोंद भर आई, वह आँचल विछाकर पड़ रही। और पड़तेके साथ ही, वह चब्बल अशान्त बालिका नदीके इस हिंडोलेमें प्रकृतिके स्नेहसे पले-हुए शान्त शिशुकी तरह बेखटके सो गई।

आँख खुली तो देखा कि वह अपनी समुरालमें खाटपर पड़ी सो रही है। उसे जगाते देखकर महरी बड़बड़ाने लगी। महरीकी आवाज सुनकर सास भी आ पहुंचो, और कड़ी-कड़ी बातें सुनाने लगीं। मृण्मयी आँखें फाड़-फाड़कर ऊपचाप उनके मुँहकी ओर देखती रही। अन्तमें सासने जब उसके वापूकी ‘शिक्षा’पर कटाक्ष करना शुरू किया, तब मृण्मयीने जल्दीसे उठकर बगलकी कोठरीमें घुसकर भीतरसे साँकल लगा ली।

अपूर्वने हया-शरमको ताकपर रखकर मासे आकर कहा, “मा, बहूको दो-चार दिनके लिए एक बार मायके भेज देनेमें कोई हर्ज है ?”

माने अपूर्वको ऐसा फटकारा कि जो 'न भूतो न मविष्यति' । दुनियामें इतनी लड़कियोंके होते-हुए न-जाने कहाँसे छाट-छाटके ऐसी हाड़ जलानेवाली डाकू लड़कीको घरमें लानेको बैहृदगीपर अपूर्वको काकी खरी-खोटी सुननी पड़ी ।

५

उस दिन दिन-भर घरके बाहर आधी-भेह और भीतर आसुओंकी चर्पी होती रही ।

दूसरे दिन आधी रातको अपूर्वने मृण्योंको धीरेसे जाकर कहा, "मृण्यो, तुम अपने बापूजीके पास जाओगी ?"

मृण्योने चौंककर जल्दीसे अपूर्वका हाथ नस्ककर कृतज्ञ-बग्गुसे कहा, "जाऊँगी ।"

अपूर्वने चुपकेसे कहा, "तो चलो, हम दोनों चुपचाप भाग चलें । मैंने घाटपर एक नाव ठीक कर रखी है ।"

मृण्योने अत्यन्त कृतज्ञ-हथिसे एक बार पतिके मुँहकी ओर देखा : और उसके बाद झटपट उठकर कपड़े बदलकर चलनेके लिए तैयार हो गई । अपूर्वने माको किसी तरहकी चिन्ता न हो इसलिए एक पत्र लिखकर रख दिया, और दोनों निकल पड़े ।

मृण्योने उस अंधेरी रातमें गाँवके उस जनशून्य सुनसान निर्जन रास्तेमें यह पहली ही बार, अपने मनसे, सारे हृदय-मनसे, पूरे विश्वास और निर्भरताके साथ अपने पतिका हाथ पकड़ा, और उसके अपने हृदयका आनन्द-उद्गोग उस चुकोमल सर्शसे उसके पतिकी नसोंमें भी संचासित होने लगा ।

नाव उसी रातको चल दी । अशान्त हर्योंचूनासके होते-हुए भी मृण्योंको बहुत ही जल्दी नींद आ गई ।

दूसरे दिन कैसी मुक्ति थी, कैसा आनन्द था ! दोनों बोर कितने बाजार, कितने खेत और ज़म्मल दिखाई दे रहे हैं, इधर-उधर कितनी नवें जा-ज्ञा रही हैं ! मृण्यों छोटो-छोटी बातपर पतिसे हजारों दार सवाल करने लगी ।

‘उस नावपर क्या हैं’, ‘ये लोग कहाँसे आ रहे हैं’, ‘इस जगहका नाम क्या हैं’, ऐसे-ऐसे सवाल कि जिनके समाधान आज तक उसे कभी किसी कालेजकी किताबमें नहीं मिले और जो उसके कलकत्तेके अनुभवके बाहर थे ।

अपूर्वकी मित्रमंडली यह सुनकर जहर लजित होगी कि अपूर्वने इन सब प्रश्नोंका अलग-अलग उत्तर दिया था, और उसके अधिकांश उत्तर ऐसे थे कि जिनका सत्यके साथ कोई मेल ही नहीं था । मसलन, तिलकी नावको तीसीकी नाव, पाँचवेड़ाको रायनगर और मुनिसफकी अदालतको जर्मांदारकी कचहरी बतानेमें उसे जरा भी सङ्केत नहीं हुआ । और सबसे बड़ी मजेकी बात यह कि इन सब अभ्यर्थी उत्तरोंसे विश्वस्त-हृदय प्रश्नकारिणीके सन्तोषमें तिल-भर भी बाधा न आई ।

दूसरे दिन शामको नाव कुशीगढ़ पहुँची ।

टीनके भोंपड़ेमें एक मैली-कुचैली कौचकी भद्री लालटेन जलाकर छोटेसे ढेक्सपर एक चमड़ेकी जिलदवाला बड़ा रजिस्टर रखकर उघड़े-वदन स्टूलपर बैठे-हुए ईशानचन्द्र हिसाब लिख रहे थे । इसी समय इस नव-दम्पतिने भोंपड़ेके भीतर प्रवेश किया ।

मुम्हयीने पुकारा, “वापूजी !”

उस भोंपड़ेमें आज तक ऐसी कण्ठ-ब्वनि इस तरह इससे पहले और-कभी भी नहीं सुनाई दी ।

ईशानकी आँखोंसे टप-टप आँसू गिरने लगे, उस समय वे कुछ निश्चय न कर सके कि उन्हें क्या करना चाहिए । उनकी लड़की और दामाद मानो साम्राज्यके युवराज और युवराजी हैं, यहाँ इन पटसनकी गाँठोंके बीचमें उनके बैठने-लायक सिंहासन कहाँ किस तरह बनाया जा सकता है, इसी बातका निर्णय करनेमें मानो उनकी भटकती-हुई बुद्धि और-भी भटक गई । और खाने-पीनेका इन्तजाम ? — यह भी एक चिन्ताकी बात है । गरीब कलर्क अपने हाथसे दाल-भात बनाकर किसी तरह पेट भर लेता है । किन्तु आज ऐसे आनन्दके दिनमें वह क्या करे, क्या खिलावे ?

दूर्लभी वोर्ज़, “वापूर्ज़, आज हम चब मिलके रखोइ बनायेंग।”

दूर्लभ इन प्रश्नोंका उत्तर दृष्टाइ प्रश्न किया। उस छोटेसे लोटेसे चगड़ी कमी थी, आदर्माकी कमी थी, अशक्ती कमी थी; किन्तु छोटेसे हेठलेसे जिस तरह फुहरा चौपांते बेगमे दृष्टा है उसी तरह गरीबीके चारों के साथ लोटेसे जानन्दकी बारा पूरी तर्जसे बहने लगी।

इसी तरह चाँच दिन बीत गये। दोनों बच्चे नियमित-हरसे जहान आकर जेट्टीसे उत्तरा हैं सुधारितेंका जाना-चाना और घोलुल सुनाइ देता है। सुन्दरके समय नदी-चट बिल्कुल निर्जन हो जाता है। और तब एक परहड़ी अद्भुत अद्भुत स्वार्वानियां अनुभव होती हैं। दोनों भित्तिकर तरह उपरहड़ी तैयारियां करके, गलतियां करके, लुछाका कुछ और कहींका कहीं करके रखोइ बनाते। उसके बाद दूर्लभीके चूड़ियों-खुदा लेह-भरे हाथोंसे परोंगा चाना, चमुर-चमाइका एकसाथ बैठकर खाना-पीना और चूहियोंमनकी सैकड़ों चुम्बियां दिल्लते-हुए दूर्लभीकी हृषी उड़ाया जाता और उसके बालिकाका जानन्द-कलह और नौरिक अनिमान उत्तरा,—इन सब बातोंसे चुबका चित्त जानन्दसे पुछकिया हो चढ़ा।

बन्दमें दूर्लभ बहा कि ‘अब ज्यादा दिन रहना ढौक नहीं।’ दूर्लभने उसके स्वरेषे और भी कुछ रोड छहनेके लिए प्रार्थना की।

इशानने बहा, “नहीं, अब नहीं।”

विद्याके दिन लड़कीओं छातीसे लगाकर उसके नवेशर हाथ रखकर कम्भु-चट्टाद-करण्डे इशाननन्दने बहा, “वेठी, तू अपनी हुसरालने उमड़ा उत्तरा, लक्षी बदकर रहना,—उच्छा, जिससे नेरी मीठूसे ओइ कुछ दोप न निकाल सके।”

दूर्लभी रोटेन-रोतें लपने पक्किके जास बिदा हो गई। और इशान उसने उसी दूसे निरानन्दमय सहीरे लोटेसे, अपने उसी पुराने नियमके अनुसार नाल बैठकर दिनर दिन और भर्जिनर सहीरे बिदाने लगे।

६

दोनों अपराधियोंकी जुगल-जोड़ी जब घर लैटी, तो मा बहुत गम्भीर वनी रहीं, किसीसे कुछ चात ही नहीं की। माकी तरफसे किसीके व्यवहारपर ऐसा कोई दोषारोप ही नहीं किया गया कि जिसकी सफाईके लिए दोनोंमेंसे कोई कुछ कोशिश करता। इस नीरव अभियोगने, इस निस्तव्य अभिमानने पहाड़की तरह सारी घर-गृहस्थीको अटल होकर दबा रखा।

अन्तमें जब असह्य हो उठा तो अपूर्वने कहा, “मा, कालेंज खुल गया है। अब मुझे कानून पढ़ने जाना होगा।”

माने उदासीन-भावसे कहा, “वहूका क्या करोगे ?”

अपूर्वने कहा, “यहीं रहने दो।”

माने कहा, “ना वेटा, जहरत नहीं। उसे तुम अपने साथ ही लेते जाओ।”

साधारणतः मा अपूर्वसे ‘तू’ कहकर ही बोलती हैं।

अपूर्वने अभिमान-व्यथित स्वरमें कहा, “अच्छा।”

कलकत्ता जानेकी तैयारियाँ होने लगीं। जानेके एक दिन पहले रातको अपूर्व जब अपने कमरेमें सोने गया, तो देखा कि मृण्मयी विस्तरपर पड़ी रो रही है।

सहसा उसके हृदयको वही चोट पहुँची ; व्यथित स्वरमें बोला, “मृण्मयी, मेरे साथ कलकत्ता जानेको तुम्हारा जी नहीं चाहता ?”

मृण्मयीने कहा, “नहीं।”

अपूर्वने पूछा, “तुम मुझसे प्रेम नहीं करतीं ?”

इस प्रश्नका कुछ जवाब न मिला। आम तौरपर इस तरहके सवालका जवाब बहुत ही आसान हुआ करता है, किन्तु कभी-कभी इसमें मनस्तत्त्वकी इतनी जटिलता भरी रहती है कि वालिकासे ठीक वैसे जवाबकी उम्मीद नहीं की जा सकती।

अपूर्वने सवाल किया, “राखालको छोड़कर यहांसे जानेमें तुम्हारा जी नहीं चाहता, क्यों ?”

नृणायीने वड़ी आसानीसे जवाब दिया, “हाँ !”

बालक राखालके प्रति इस बी० ए० पास कृतविद्य युवकके हृदयमें सुईके दरावर बहुत ही बारीक किन्तु अत्यन्त लम्बी ईर्ष्याका उदय हुआ। बोला, “मैं बहुत दिनों तक घर नहीं लौट सकूँगा।” इस संवादके विषयमें नृणायीको अपनी तरफसे कुछ नहीं कहना था। अपूर्व फिर बोला, “शायद दो-ठाई साल या उचसे भी ज्यादा दिन लग सकते हैं।”

नृणायीने आदेश दिया, “बापस आते वक्त तुम राखालके लिए एक तीन फलबाला राजसक्ता चाकू लेते आना।”

अपूर्व लेटा-हुआ था, जरा उठकर बोला, “तो तुम यहाँ रहोगी ?”

नृणायीने कहा, “हाँ। मैं अपनी माके पास जाकर रहूँगी।”

अपूर्वने एक हल्की-सी उसास लेकर कहा, “अच्छी बात है, वहाँ रहना। उनों जब तक तुम खुद मुझे आनेके लिए चिट्ठी न लिखोगी तब तक मैं नहीं आऊँगा। — अब तो खुब खुश हुई न ?”

नृणायी इन सबालका जवाब देना फजूल समझकर सोने लगी। किन्तु अपूर्वको नीद नहीं आई, वह तकिया कंचा करके उसके सहारे बैठा रहा।

बहुत रात दीते सहसा आकाशमें चाँद दिखाई दिया, और उसको चाँदीनी विस्तरपर आकर फैल गई। अपूर्व उस उजालेमें नृणायीके चेहरेकी ओर देखने लगा। देखते-देखते उसे ऐसा नाल्स हुआ जैसे हपकथाकी राजकुमारीको कोई चाँदीकी छड़ी छुआकर अचेत कर गया हो। एक बार सिर्फ सोनेकी छड़ी छुआते ही इस चोरी-हुई बाल्कोंको जगाकर उससे नाला बदली जा सकती है। चाँदीकी छड़ी हँसी है, और सोनेकी छड़ी आँसू।

तड़के ही अपूर्वने नृणायीको जगा दिया। बोला, “नृणायी, मेरे जानेका समय हो गया। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी माके यहाँ पहुँचा आऊं।”

नृणायी विस्तरसे उठकर चलनेके लिए खड़ी हो गई। अपूर्वने उसके दोनों हाथ धामकर कहा, “अब एक प्रार्थना और है तुमसे। मैंने किन्तु ही नौकोंपर तुम्हें नदद पहुँचाई है, आज परदेस जाते समय तुम मुझे उदङ्गा कुछ इनाम दोगी ?”

मृण्यीने आश्चर्यके साथ पूछा, “क्या ?”

अपूर्वने कहा, “तुम मुझे अपनी तबीयतसे, प्यारसे, मुझे एक प्यार दो ।”

अपूर्वकी इस अजीव प्रार्थना और गम्मीर चेहरेको देखकर मृण्यी हँसने लग गई, और फिर मुश्किलसे उस हँसीको रोककर तुम्हन देनेको आगे बढ़ी । अपूर्वके मुँहके पास मुँह ले जाकर उससे न रहा गया, खिलखिलाकर हँस पड़ी । इस तरह दो बार किया और अन्तमें स्थिर होकर आचलसे मुँह ढककर हँसने लंगी । अपूर्वसे और कुछ न बन पड़ा तो उसने डाटनेके बहाने उसके बाएँ कानकी लोलकी पकड़कर हिला दी ।

अपूर्वने अपने मनमें एक बड़ी कड़ी प्रतिज्ञा कर रखी थी, और वह यह कि डाका डालकर या लूट-खसोटकर वह कुछ नहीं लेना चाहेगा । इसमें वह अपना अपमान समझता है । वह चाहता है कि देवताके समान सगौरव रहकर स्वेच्छा से भेंट किये-दुए उपहारको ग्रहण करे, अपने हाथसे उठाकर कुछ भी न ले ।

मृण्यी फिर नहीं हँसी । अपूर्व उसे प्रभातके सुनहले प्रकाशमें निर्जन मार्गसे उसकी भाके घर पहुँचा आया । और फिर घर आकर अपनी मासे बोला, “मा, मैंने खूब सोच-विचारकर देखा कि वहूँको अपने साथ कलकत्ता ले जानेसे पढ़ाईमें बड़ा हर्ज होगा । और वहाँ उसकी कोई साथिन भी नहीं है । तुम तो उसे अपने पास रखना नहीं चाहतों, इसलिए मैं उसे मायके पहुँचा आया हूँ ।”

इस तरह गहरे अभिमानमें ही माता-पुत्रका विच्छेद हुआ ।

## ७

मायके आकर मृण्यीको मालूम हुआ कि अब वहाँ उसका किसी तरह मन ही नहीं लगता । उस घरमें मानो शुहसे आखिर तक सब-कुछ बदल गया है, पहलेका-सा कुछ भी नहीं रहा । समय काटे नहीं कटता । वह क्या करे, कहाँ जाय, किससे मिले,— उसकी कुछ समझमें नहीं आता ।

मृण्यीको सहसा ऐसा लगा कि मानो घर-भरमें, और सारे गाँवमें, कोई आदमी ही नहीं है, मानो दोपहरको सूर्यग्रहण हुआ है । यह बात किसी भी

तरह उसकी समझमें ही नहीं आई कि आज जो कलकत्ता जानेके लिए उसकी त्वायित इतनी फड़फड़ा रही है, कल रातको उसकी वह तवोयत कहाँ चली गई थी ? कल वह नहीं जानती थी कि जीवनके जिस हिस्सेको छोड़कर कलकत्ता जानेमें उसका जी इतना आगा-पीछा कर रहा है, आज उसका सारा स्वाद् ही बदल जायगा । पेड़के पके पत्तेकी तरह ढण्डलसे गिरे-हुए उस अतीत जीवनको आज उसने अपनी इच्छासे अनायास ही दूर फेंक दिया ।

पुरानी कहानियोंमें सुना करते हैं कि पहले निपुण अख्कार ऐसी वारीक तलवार बना सकते थे कि जिससे आदमीको काटकर दो टुकड़े कर देनेपर भी उसे मालूम नहीं पड़ता था और जब उसे हिलाया जाता था तो उसके दो टुकड़े हो जाते थे । विधाताकी तलवार ऐसी ही सूझ है कि कव उन्होंने मृण्मयीके वात्य और यौवनके बीचमें बार किया, वह जान ही न सकी, और आज न-जाने कैसे जरा हिल जानेसे उसका वात्य-अंश यौवनसे अलग जा गिरा, और तब वह ताज्जुबमें आकर व्यथित होकर देखती ही रह गई ।

मायकेमें उसकी पहलेकी वह पुरानी कोठरी उसे अपनी नहीं मालूम हुई । जो मृण्मयी वहाँ रहती थी, अब मालूम हुआ कि वहाँ वह नहीं रही । अब हृदयकी सारी स्मृति एक दूसरे ही घरमें, दूसरे ही कमरेमें, दूसरी ही शश्याके आसपास गूँजती-हुई उड़ने लगी । मृण्मयी अब बाहर नहीं दिखाई देती । अब उसकी हास्यव्यनि भी नहीं सुन पड़ती । राखाल उसे देखकर डर जाता है । खेल-कूदकी बात तो अब उसके मनमें भी नहीं आती ।

मृण्मयीने अपनी मासे कहा, “मा, मुझे ससुराल ले चल ।”

उधर, कलकत्ता जाते समय पुत्रके उस उदास चेहरेकी याद कर-करके माकी छाती फटी जा रही थी । गुस्सेमें आकर वहूँको वह समधिनके घर छोड़ आया, यह बात उनके मनसे सुईकी तरह चुमने लगी ।

इतनेमें, एक दिन धूंधट मारकर वहूँ बनकर मृण्मयी आ पहुँची,- चेहरा उसका मुरझा-सा गया था,- और उसने सासके पांव लागे । सासकी आँखोंमें आँसू भर आये, और उसी क्षण वहूँको उन्होंने छातीसे लगा लिया । क्षण मरमें दोनोंका मिलाप हो गया । वहूँके चेहरेकी तरफ देखकर सासको बड़ा

आश्चर्य हुआ, अब वह मृण्मयी रही ही नहीं ! ऐसा परिवर्तन तो साधारणतः सबके लिए सम्भव नहीं होता । वडे परिवर्तनके लिए वडे बलकी जहरत होती है । सासने खूब सोच-विचारके बाद यह तय किया था कि वहूके दोप वे एक-एक करके सब सुधार लेंगी,— किन्तु यहाँ तो पहले ही से किसी अद्दय सुधारकने संक्षिप्त उपायसे मानो उसे नया ही जन्म दे दिया ।

अब वहने सासको पहचान लिया और सांसने वहूको । बृक्षके साथ शाखा - प्रशाखाओंका जैसा मेल होता है उसी तरह सारी घर-गृहस्थी मानो आपसमें मिलकर अग्रणी एक हो गई ।

यह जो एक गभीर-स्त्रिय विशाल रमणी-प्रकृति मृण्मयीके सारे शरीरमें, समूर्ण अन्तःकरणमें, अगु-अगुमें व्याप हो गई है, वह मानो उसे वेदना देने लगी । प्रथम आपाद्के श्याम और सजल नये बादलोंकी तरह उसके हृदयमें एक तरहका आँखोंसे परिपूर्ण और दूर तक फैला-हुआ अभिमान उमड़ने लगा । उस अभिमानसे उसकी आँखोंकी छायादार लम्बी पलकोंपर और भी एक गहरी छाया डाल दी । वह मन-ही-मन पतिसे कहने लगी, ‘मैं अपनेको न समझ सकी तो न सही, पर तुमने मुझे क्यों नहीं समझा ? तुमने मुझे सजा क्यों नहीं दी ? तुमने मुझे अपनी इच्छाके अनुसार क्यों नहीं चलाया ? मुझ डाइनने जब तुम्हारे साथ कलकत्ता चलनेकी मनाही कर दी तो तुम मुझे जवरदस्ती पकड़कर क्यों नहीं ले गये ? तुमने मेरी बात क्यों सुनी, मेरी जिद क्यों पूरी की, मेरे हठको क्यों सहा ?’

उसके बाद, फिर उसे उस दिनकी याद उठ आई, पहले-पहले जिस दिन अपूर्व सत्रेरे तालाबके किनारे सुनसान रास्तेमें उसे कैद करके, मुँहसे कुछ न कहकर सिर्फ उसके चेहरेकी तरफ देर तक देखता रहा था । उस दिनके उस तालाबकी, उस रास्तेकी, पेड़के नीचे उस छायाकी, सवेरेकी उस सुनहली धूपकी, हृदय-भारसे मुक्की-हुई उस गहरी चितवनकी उसे याद उठ आई, और सहसा उसका पूरा-पूरा वर्ण उसकी समझमें आ गया । उसके बाद, विदाके दिन जिस चुम्बनको वह अपूर्वके ओंठों तक ले जाकर लौटा लाई थी वह अधूरा चुम्बन अब मरु-मरीचिकाकी ओर प्यासे हरिणकी तरह उत्तरोत्तर तेजीके साथ

उस बीते-हुए अवसरकी ओर उड़ान भरने लगा, परन्तु प्यास उसकी किसी भी तरह नहीं मिटी। अब रह-रहकर उसके मनमें यही वातें आती हैं, अरे, उस समय अगर ऐसा करती,- उनकी वातका अगर ऐसा जवाब देती,- तब अगर ऐसा करती,- इत्यादि।

अपूर्वके मनमें इस वातका बड़ा खेद रहा कि मृण्मयीने उसे अच्छी तरह पहचाना नहीं, और मृण्मयी भी आज बैठी-बैठी सोच रही है कि उन्होंने उसे क्या समझा होगा, क्या सोचते होंगे वे ! अपूर्वने उसे उद्धण्ड चपल मूर्ख धविवेकी लड़की समझ लिया, लवालव भरे - हुए हृदयामृतकी धारासे अपनी प्रेम-पिपासा मिटानेमें उसे समर्थ तरुणी नहीं समझा, इस पश्चात्तापसे धिकारसे मारे शरमके वह धरतीमें गड़-नाड़ जाने लगी ; और प्रियतमके चुम्बन और लाड़-सुहागके उन झुणोंको वह पतिके तकियेको दे-देकर उक्खण होनेकी कोशिश करने लगी ।

इसी तरह बहुत दिन बीत गये ।

अपूर्व जाते वक्त कह गया था, ‘जब तक तुम खुद चिट्ठी नहीं लिखोगी तब तक मैं नहीं आऊँगा ।’ मृण्मयी उसी वातकी याद करके एक दिन घरका दरवाजा बन्द करके चिट्ठी लिखने बैठी । अपूर्वने उसे जो सुनहरी-किनारीके रंगीन कागज दिये थे उन्हें निकालकर वह बैठी-बैठी सोचने लगी, क्या लिखे ? बड़ी सावधानीसे अच्छी तरह हाथ जमाकर टेढ़ी-मेढ़ी लक्कीर बनाकर ऊंगलियोंमें स्थाही पोतकर छोटे-बड़े हल्फोंमें, ऊपर कुछ सम्बोधन बिना किये ही, एकदम लिख दिया, “तुम मुझे चिट्ठी क्यों नहीं देते ? तुम कैसे हो ? तुम जल्दी घर जाओ ।” और बया लिखे,— सोचकर कुछ तय न कर सकी । असल बात जो थी सो सब लिखी जा चुकी । लेकिन मनुष्य-समाजमें ननका भाव और भी जरा-कुछ बढ़ाकर प्रकट किया जाना चाहिए । मृण्मयीको भी यह कही खदकी । इसलिए उसने और भी बहुत देर तक सोच-सोचकर और कुछ नये शब्द लोड़ दिये, “अब तुम मुझे चिट्ठी देना, और कैसे रहते हो सो लिखना, और घर आना, मा अच्छी तरह हैं, विसू पुती सब अच्छी तरह हैं, और कल हमारी काली नायके बढ़ा द्वा हुआ है ।”

इतना लिखकर चिट्ठी खतम कर दी। चिट्ठीको लिफाफेमें बन्द करके प्रत्येक अक्षरपर एक-एक वृंद हृदयका प्रेम उँड़ेङते - हुए उसपर लिखा दिया, श्रीयुत वावू अपूर्वकुमार राय। प्रेम चाहे जितना उँड़ेला गया हो, किन्तु फिर भी सतर सीधी, अक्षर सुन्दर और हिज्जे सही नहीं हुए। लिफाफेपर नामके सिवा और-भी कुछ लिखना जहरी है, मृण्मयी इस बातसे वाकिफ नहीं थी। कहीं सास या और-कोई देख न ले, इस डरसे उस चिट्ठीको उसने एक विश्वस्त दासीके हाथ ढाकमें ढलवा दिया।

कहनेकी जहरत नहीं कि उस चिट्ठीका कुछ नतीजा नहीं निकला, अपूर्व घर नहीं आया।

&lt;

माने देखा कि कालेजकी छुट्टियाँ हो गई, फिर भी अपूर्व घर नहीं आया। सोचा, अब भी वह उससे गुस्सा है। मृण्मयीने भी समझ लिया कि पति उससे नाराज हैं; और तब वह अपनी चिट्ठीकी याद करके मारे शरमके गड़-गड़ जाने लगी। वह चिट्ठी उसकी कितनी तुच्छ थी, उसमें तो कोई बात ही नहीं लिखी गई, उसके मनका भाव तो उसमें कुछ जाहिर ही नहीं हुआ। उसे पढ़कर वे उसे मन-ही-मन और भी अवज्ञा करते होंगे, यह सोच-सोचकर वह तीर-विधे शिकारकी तरह भीतर-ही-भीतर तड़पने लगी।

दासीको उसने बार-बार पूछा, “उस चिट्ठीको तू ढाकमें डाल आई थी?”

दासीने उसे हजार बार विश्वास दिलाकर कहा, “हाँ, वहूंजी, मैं अपने हाथसे चिट्ठीके बकसमें डाल आई हूँ। वावूंजीको वह मिल भी गई होगी कभीकी।”

अन्तमें अपूर्वकी माने एक दिन मृण्मयीको बुलाकर कहा, “वहूं, अपूर्व बहुत दिनोंसे घर नहीं आया, मन चाहता है कलकत्ता जाकर उसे देख आऊँ। तुम साथ चलोगी?”

मृण्मयीने सम्मति-सूचक सिर हिला दिया, और फिर अपने कमरेमें जाकर दरवाजा बन्द करके, विस्तरपर पड़कर, तकियेको छातीसे लगाकर, हँसकर,

इधरसे उधर करवट लेकर, हृदयके आवेगको मनमानी छुट्टी देकर हल्की होने लगी। उसके बाद क्रमशः गम्भीर बनकर उदास होकर, आशंकामें ढूबकर बैठी बैठी रोने लगी।

अपूर्वको कोई खबर निना दिये ही दोनों अनुत्तमा लियाँ उसकी प्रसन्नताकी भीख मारनेके लिए कलकत्ता चल दीं।

अपूर्वकी मा कलकत्तेमें अपने दामादके यहाँ ठहरीं।

उस दिन शामको, मृण्मयीके पत्रकी आशा छोड़कर निराश होकर अपूर्व प्रतिज्ञा भंग करके खुद ही उसे चिट्ठी लिखने बैठा था। कोई भी शब्द मनको पसन्द नहीं था रहा था, वह ऐसा कोई सम्बोधन दृढ़ रहा था कि जिसमें पूर्ण प्रेम भी प्रकट हो और अभिभान भी, शब्द ढूँढ़े न मिला तो मातृभाषापर उसकी अश्रद्धा बढ़ने लगी। इतनेमें उसे वहनोईका पत्र मिला कि 'तुम्हारी मा आई हैं,— जल्दी आकर मिलो, और रातको यहीं व्यालू करना। घरके समाचार सब अच्छे हैं।' समाचार अच्छे होनेपर भी उसका मन अमंगलकी आशंकासे विमर्श हो रठा। और मटपट उटकर चल दिया वहनोईके घर।

मेंट होते ही मासे उसने पूछा, "ना, घरमें सब राजी-नुशी हैं न ?"

माने कहा, "हाँ, सब खुशी-राजी है, बेटा। छुट्टियोंमें तू घर नहीं गया, इसीसे मैं तुझे लेने आई हूँ।"

अपूर्वने कहा, "इसके लिए तुम्हें इतनी तकलीफ उठाकर यहाँ आनेकी बदा जहरत थी ! मुझे कानूनकी परीक्षा देनी थी —" इत्यादि।

खाते वक्त वहनने पूछा, "भड़या, आते वक्त भारीको तुम साथ क्यों नहों लेते आये ? छोड़ क्यों आये थे ?"

भड़याने गम्भीरताके साथ कहा, "कानूनकी पढ़ाई थी,—" इत्यादि।

वहनोईने हँसकर कहा, "यह सब फालत् बात है,— असलमें हमारे उससे लानेकी हिमत नहीं पड़ी !"

वहन बोली, "हो भी तो दरावने आदर्सी ! छोटे बच्चे कहो अचानक देख लेते हैं तो भारे उसके उन्हें दुखार बा जाता है।"

इस तरह हँसी-मजाक चलने लगा, परन्तु अपूर्व विलकुल उदास ही बना रहा। कोई भी बात उसे अच्छी नहीं लग रही थी। वह सोच रहा था कि ‘मा जब कलकत्ते आईं, तो मृणमयी चाहती तो माके साथ आसानीसे आ सकती थी। शायद माने उसे साथ लानेकी कोशिश भी की होगी, किन्तु वह अल्हड़-लड़की राजी नहीं हुई होगी।’ और इस विषयमें सङ्कोचके कारण मासे वह कुछ पूछ भी न सका। सारा मानव-जीवन और विश्वकी रचना उसे शुरूसे आखिर तक व्यर्थ मालूम होने लगी।

भोजन करनेके बाद बड़ी जोरकी आँधी आई; और धनधोर वर्षा होने लगी।

वहनने कहा, “भइया, आज यहाँ रह जाओ।”

भइयाने कहा, “नहीं, मुझे काम है, जाना होगा।”

वहनोईने कहा, “रातको तुम्हें ऐसा क्या काम है? एक रातके लिए यहाँ रह ही गये तो क्या। — तुम्हें तो किसीको जाकर कैफियत नहीं देनी। फिर फिकर किस बातकी?”

वहुत कहने-सुननेके बाद, विलकुल तबीयत न होनेपर भी अपूर्व रातको वहाँ सोनेके लिए राजी हो गया।

वहनने कहा, “भइया, तुम थके-हुए मालूम होते हो,— अब जागो मत। चलो, सोओ चलकर।”

अपूर्वकी भी यही इच्छा थी कि विस्तरपर अँधेरेमें अकेला जाकर सो रहे तो उसकी जान बचे। बातका जवाब देना भी उसे अखरता था।

सोनेके लिए उसे जिस कमरेके द्वार तक पहुँचाया गया वहाँ जाकर उसने देखा कि भीतर अँधेरा है।

वहनने कहा, “हवासे वत्ती बुझ गई मालूम होती है,— दूसरी वत्ती लिये आती हूँ।”

अपूर्वने कहा, “नहीं, जल्हरत नहीं। वत्ती जलाकर सोनेकी मेरी आदत नहीं।”

वहनके चले जानेपर अपूर्व अँवेरे कमरेमें सावधानीके साथ पलंगकी और बड़ा ।

पलंगपर बैठा हो चाहता था कि इतनेमें उहसा चूड़ियोंके खनकनकी आवाज हुई ; और एक सुकोमल वाहु-पाजने उसे कठिन बन्दनमें बाध लिया, और फिर फूल-से कोमल व्याकुल ओठोंने डाकूकी तरह आकर अचिरल अशुद्धारासे भींगे-हुए आवेगपूर्ण चुम्बनोंके नारे उसे आइचर्च प्रकट करने तकका नौका नहीं दिया । अपूर्व पहले तो चौंक पड़ा, उसके बाद उसकी समझमें आया कि वहुत दिनों पहले जो कान सिर्फ हँस देनेके कारण ही अवूरा रह गया था उसे आँखोंकी धारने आज समाप्त कर दिया ।

---

# जय-पराजय

१

राजकुमारीका नाम था अपराजिता । राजा उद्यनारायणके सभा-कवि शेखरने राजकुमारीको कभी आँखोंसे देखा भी न था । किन्तु जब वे अपनी कोई नई रचना राज-सभामें बैठकर सुनाते, तो अपना कण्ठ-स्वर इतना ऊँचा करके पढ़ते कि उनकी कविता ऊँचेसे ऊँचे महलोंमें भरोखोंके पास बैठी-हुई अदृश्य श्रोत्रियोंके कानोंमें भी रस घोल सकती थी । मानो वे किसी एक ऐसे अगम्य नक्षत्रलोकके लिए अपना संगोतोच्छ्रवास भेजते रहते जहाँकी ज्योतिष्क-मण्डलीमें उनके अपने जीवनका भी एक अपरिचित शुभग्रह अपनी अदृश्य महिमा लिये-हुए विराज रहा हो ।

अपनी कल्पनाकी राजकुमारी कभी उन्हें छायाके रूपमें दिखाई देती तो कभी नूपुरोंकी झनकार बनकर सुनाई पड़ती । कवि बैठे-बैठे सोचा करते, कैसे वे चरण होंगे जिनमें सोनेके नूपुर वँधे रहनेपर भी ताल-तालपर वे गीत गाते रहते हैं ? वे दोनों गुलावी गोरे-गोरे मुलायम पाँव कदम-कदमपर न-जाने कितने सौभाग्य, कितना अनुग्रह और कितनी करुणा लिये-हुए जमीनको छुआ करते होंगे ! कविने अपने हृदयमें उन चरणोंकी प्रतिष्ठा कर ली,- मौका पाते ही उनका मन वहाँ जाकर लोट जाता और नूपुरोंकी झनकारके साथ अपना गीत शुरू कर देता ।

परन्तु ऐसा तर्क या ऐसा संशय उनके भक्त हृदयमें कभी उठा ही नहीं कि जिस छायाको उन्होंने देखा है, जिन् नूपुरोंकी झनकार सुनी है, वह किसकी छाया है, किसके नूपुर हैं ।

राजकुमारीकी दासी मझरी जब पनघटपर जाती तो शेखरके घरके सामने से ही निकला करती । आते-जाते कविके साथ उसकी दो-चार बातें बिना हुए न रहतीं । अनुकूल एकान्त मिलता तो वह सुवह-शाम शेखरके घर जाकर

वैठती भी। जितनी बार वह पनघटपर जाती उतनी बार आमसे ही जाती हो, यह नहीं कहा चा सकता; और ऐसा भी नहीं कि विना जहरत दों ही जाती हो। किन्तु पनघटपर जाते समय जरा-कुछ जलनके साथ गंगीन साझी और कानोंमें आम्र-मुदुल पहननेकी उसे क्या जहरत पड़ जाती, इसका कोई उचित कारण ढूँढे नहीं मिलता। लोग हँसते और कानाफूसी भी करते। किन्तु लोगोंका इसमें कुछ दोष भी न था। नदीरीको देखकर शेखरको विशेष व्यानन्द मिलता, और उसे दियानेकी वे खास कोई कोशिश भी नहीं करते।

दासीका नाम था नदीरी। और विचारकर देखा जाय तो मानूली तीके लिए इतना ही नाम काफी था, किन्तु शेखर उसमें जरा कवित निलंकर उसे 'वसन्तनदीरी' कहा करते। लोग सुनकर कहते, 'क्या बात है!'

इसके सिवा कविके वसन्त-वर्णनमें 'भजुल बजुल नदीरी' अनुप्रास नी जहाँ-तहाँ पाये जाते। आखिर यहाँ तक नीचत पहुँची कि बात राजके कानों तक पहुँच गई। राजा अपने कविमें ऐसा रसाधिक्य पाकर बहुत ही खुश होते, और इसपर खूब हँसी-भजाक भी करते। शेखर भी उसमें शरीक हो जाते।

राजा हँसकर पूछते, "अमर क्या निर्फ वसन्तकी राज-सभामें गाया ही करता है?"

कवि उत्तर देते, "नहीं तो पुष्प-नदीरीका नधु भी चाहा करता है!"

इस तरह सभी हँसते और आमोद किया करते। शाबद अनुपरमें राजकुमारी अपराजिता भी नदीरीसे कभी-कभी हँसी-भजाक किया करती होती, और नदीरी उससे नाखुश भी न होती होती।

इसी तरह सच-कुछ मिलकर आदमीकी जिन्दगी किसी तरह कट जाती है,- कुछ विद्याता गढ़ते हैं, कुछ आदमी अपने-आप गढ़ लेता है, और कुछ पांच-जने मिलकर गढ़ देते हैं। जीवनको एक तरही काल्यनिक और अकाल्यनिक वास्तव और अवास्तविकी पैचमेल-मिटाइ ही समझना चाहिए।

कवि जो गीत गाते वही सत्य और सन्दर्भ हैं। गीतोंका विषय दरी होता, रोधा और दृष्टि, वही विरलन नर और विरन्तन नारी, वही अनादि

दुःख और अनन्त सुख । उन्हों जीतोंमें उनकी अपनी यथार्थ वातें होतीं, और उन गोतोंकी सचाईको अमरापुरके राजासे लेकर दिन-दुःखी प्रजा तक सब अपनी-अपनी हृदय-कसौटीपर कसकर आजमा चुके हैं । उनके गीत सबकी जवानपर थे । चाँदनी खिलते ही, जरा दखिनी हवा चहते ही, देशमें चारों ओर न-जाने कितने कानन, कितने मार्ग, कितने बातायन और कितने प्राङ्गणोंमें उनके रचे-हुए गान गूँज उठते । उनकी ख्यातिकी कोई सीमा नहीं ।

इस तरह वहुत दिन बीत गये । कवि कविता रचते और राजा सुना करते, राज-सभाके लोग वाहवाही देते । मध्यरी पनघटको आती और अन्तःपुरके न्होखोंसे कभी-कभी एक छाया आकर पड़ती, कभी-कभी नूपुरोंकी झनकार भी उनाई देती ।

## २

इसी समय दाक्षिणात्यसे एक दिविजयी कवि राज-सभामें उपस्थित हुए, और उन्होंने शार्दूलविकीडित-छन्दमें राजाका स्तव-गान किया । वे अपने देशसे निकलकर मार्गमें समस्त राज-कवियोंको परास्त करते-हुए अन्तमें अमरापुर पवारे हैं ।

राजाने वडे आदरके साथ कहा, “एहि, एहि !”

कवि पुण्डरीकने दम्भ-भरे स्वरमें कहा, “शुद्ध देहि !”

राजाके सम्मानकी रक्षा करनी होगी, युद्ध देना ही होगा,— किन्तु कवि शेखरको इस बातका अच्छी तरह अनुभव ही न था कि वाक्युद्ध कैसे किया या दिया जाता है । वे वहुत ही चिन्तित और शङ्खित हो उठे । रातको उन्हें नोंद नहीं आई । उन्हें अपने चारों तरफ यशस्वी पुण्डरीकका दीर्घ बलिष्ठ शरीर, सुतीश्व ऊँची नाक और दपोद्धत उबत मस्तक-ही-मस्तक दिखाई देने लगा ।

सबेरा होते ही कम्पितहृदय कवि किसी कदर रणझेत्रमें पहुँचे । सबेरेसे ही सभा-भवन लोगोंसे खचाखच भर गया था, शोरगुलकी हृद नहीं । आज

नगरके और सब कानूनकाज विलकुल बन्द थे। कवि शेखरने बड़ी सुदिक्षित से मुँहपर मुस्कराहट और प्रभज्ञता लाकर प्रतिद्वन्द्वी कवि पुण्डरीको नमस्कार किया। पुण्डरीकने बड़ी लापरवाहीके साथ सिर्फ जरा-सा इशारा करके नमस्कार का उत्तर दिया, और फिर अपने अनुयायी भक्तजनोंकी ओर देखकर वे मुद्दकरा दिये।

शेखरने एक बार अन्तःपुरके भूतोखोंकी ओर अपनी कठाक्षदृष्टि ढैड़ाइ। सभम् गये कि वहाँसे आज सेंकड़ों मुगन्यनियोंकी लुटहलगूर्ण व्यग्र दृष्टियाँ इस जनतापर लगातार वरस रही हैं। कविका हृदय एक बार एकाग्रभावसे उन ऊर्ध्वलोकमें पहुँचकर अपनी विजयलङ्घीकी बन्दना कर लाया और मन-ई-मन बोला, ‘यदि मेरी आज विजय हुई, तो, हे देवि अपराजिते, उससे तुम्हारे ही नामकी सार्थकता होगी।’

तुरही और भेरी बज उठी। जयवनिके साथ सारी सभा उठ खड़ी हुई। सफेद वस्त्र पहने-हुए राजा उद्यनारायणने शरदकृतुके प्रभातके शुभ्र मंधके समान धीरे-धीरे सभामें प्रवेश किया, और सिंहासनपर आ चिराजे।

पुण्डरीक उठे और सिंहासनके सामने जा खड़े हुए। विशाल सभा-भवन स्तव्य हो गया।

विशालकाय पुण्डरीकने छारी पुलाकर और गरदन ऊँची करके गम्भीर स्वरमें राजा उद्यनारायणकी स्तुति शुरू की। छण्डस्वर घरमें सभाता ही नहीं, दन्होंने विशाल सभा-भवनकी चारों तरफकी दीवारों खम्भों और छनके नीचे समुद्रकी तरंगोंकी तरह अपने गम्भीर गर्जनसे आवात-प्रतिवात करना और अपनी उम्मीदवानीके बेगसे समस्त जनसंघीके हृदय-द्वारकों धरपर झैराना शुरू कर दिया। कविकी रचनामें कितना कौशल है, कितनी प्रतिभा है, उद्यनारायण के नामकी कितनी तरहकी व्याख्याएँ हैं, राजाके नामके अक्षरोंका कितनी तरफते कितने प्रकारका विन्द्यास है, कितने दृढ़ हैं, कितने वक़़द हैं, क्षेत्र शुभार हैं।

पुण्डरीक जब रथना सुनाकर अपने आसनपर जा उटे, तो युद्ध द्वरके लिए निष्ठव्य सभा-भवन उनके कंठकी प्रतिभवनि और हजारों हृदयोंकी नृह विस्मय-

गुज्जनसे गूँज उठा, और बहुत दूर-देशोंसे आये-हुए पंडितगण अपना दाहना हाथ उठाकर गद्गद-स्वरसे 'साधु-साधु' कह उठे ।

राजाने शेखरके मुँहकी तरफ देखा । शेखरने भी भक्ति प्रेम और अभिमान भरी एक प्रकारकी सकृण और संकोचपूर्ण दृष्टिसे राजाकी ओर देखा, और धीरेसे उठके खड़े हुए । रामचन्द्रने जब प्रजानुरंजनके लिए दूसरी बार अग्नि-परीक्षा करना चाही थी तब सीता मानो इसी तरह अपने पतिके मुँहकी ओर देखती-हुई ठीक ऐसे ही उनके सिंहासनके सामने जाकर खड़ी हो गई थीं ।

कविकी दृष्टिने चुपकेसे राजाको जताया, 'मैं तुम्हारा ही हूँ । तुम्हीं यदि संसारके सामने मुझे खड़ा करके परीक्षा लेना चाहते हो, तो लो । किन्तु—' उसके बाद आँखें नीची कर लीं ।

पुण्डरीक सिंहकी तरह खड़ा था और शेखर चारों तरफसे शिकारियोंसे घिरे-हुए हरिणकी तरह । शेखर तरुण युवक है, रमणियों जैसी लज्जा और स्नेह-कोमल सुन्दर चेहरा है उसका, पाण्डुर्वर्ण कपोल हैं,— और शरीरांश तो अत्यन्त स्वत्प हैं । देखनेसे मालूम होता है कि भावके स्पर्शमात्रसे ही सारा शरीर मानो वीणाके तारोंकी तरह कौपकर बज उठेगा ।

शेखरने मुँह न उठाकर पहले तो अत्यन्त मृदुस्वरमें कहना प्रारम्भ किया । पहलेका एक इलोक तो शायद किसीने अच्छी तरह सुन भी न पाया । उसके बाद धीरे-धीरे मुँह उठाया, जहाँ दृष्टि डाली वहाँसे मानो सारी जनता और राज-सभाकी पापाण-प्राचीर विगलित होकर बहुत दूरके अतीतमें विलीन हो गई । तरुण कविका मीठा और स्पष्ट कंठस्वर काँपते-काँपते उज्ज्वल अग्निशिखा की तरह ऊपरको जाने लगा । पहले उन्होंने राजाके चन्द्रवंशीय आदि-पुरुणोंकी कथा शुरू की । फिर धीरे-धीरे न-जाने कितने युद्ध-विग्रह शौर्य-वीर्य यज्ञ-दान और कितने महान अनुष्ठानोंका सुन्दर वर्णन करते-हुए अपनी राज-कहानीको वर्तमान कालमें ले आये । अन्तमें उन्होंने अपनी दूरकी स्मृतिमें डलभी-हुई दृष्टिको खींचकर राजाके मुँहकी ओर देखा, और राज्यके समस्त प्रजा-हृदय की एक महान अव्यक्त प्रीतिको भापा और उन्हसे मूर्तिमान बनाकर सभाके बीचमें खड़ा कर दिया । मानो दूर-दूरान्तरसे सैकड़ों-हजारों प्रजाओंके हृदय-

स्त्रोतसे दौड़ाईकर राज-पितामहोंके इस अतिप्राचीन प्रासादको महासंगीत से भर दिया, मानो राज-प्रासादको प्रत्येक इंटको उसने स्पर्श किया, आलिंगन किया, चुम्बन किया, और अन्तमें ऊपर अन्तःपुरके भरोखों तक पहुँचकर वह राजलक्ष्मी-स्वरूपा प्रासाद-लक्ष्मियोंके चरणोंमें स्नेहार्द भक्तिभावसे लोट गया, और फिर वहाँसे लौटकर राजाकी, राजा के सिंहासनकी अत्यन्त उद्घासके साथ तैकड़ीं बार प्रदक्षिणा करने लगा। अन्तमें कविने कहा, “महाराज, वाक्योंमें पराजय मान सकता हूँ, किन्तु भक्तिमें मुझे कौन द्वारा सकता है?” और इतना कहकर वे कांपते-हुए अपने आसनपर बैठ गये।

प्रजागण अथु-गदगद कण्ठसे जयन्ति कर उठे। पुण्डरीक अपनी विकारपूर्ण हँसीसे साधारण जनताकी इस उन्मत्तताकी अवज्ञा करते-हुए फिर खड़े हुए और गर्वपूर्ण गर्जनके साथ बोले, “वाक्यसे बढ़कर श्रेष्ठ और कौन है?”

सब लोग उसी क्षण स्तव्य हो गये।

पुण्डरीक अनेक छन्दोंमें अद्भुत पाण्डित्य प्रकट करते-हुए वेद-वेदान्त और व्यागम-निगमोंसे प्रभाणित करने लगे कि ‘विज्ञमें वाक्य ही सर्वश्रेष्ठ है। वाक्य ही सत्य है, वाक्य ही व्रद्ध है। व्रद्धा विष्णु भहेजा वाक्यके वदान्त हैं, अतएव वाक्य उनसे भी बड़ा है। व्रद्धा चार मुखोंसे वाक्यको उमास नहीं कर पाये, पंचानन पांच मुखोंसे वाक्यका अन्त न पाकर अन्तमें त्रुपचाप व्यानमें लीन होकर वाक्य ढूँढ़ रहे हैं।’

इस तरह पाण्डित्यपर पाण्ठिय और शास्त्रपर शास्त्रके द्वे लगाकर वाक्य के लिए एक आकाशमंदी सिंहासन बनाकर पुण्डरीकने वाक्यको नत्यकोक और सुरलोकके भस्त्रकपर विठा दिया, और फिर दिनर्लीकी तरह कड़ककर प्रसन्न किया, “वाक्यकी अपेक्षा श्रेष्ठ और कौन है?”

पुण्डरीकने दर्पके साथ चारों तरफ देखा; जब किसीने उत्तर नहीं दिया तो वे धीरे-धीरे अपने आसनपर जाकर बैठ गये। पंडितगण ‘सातु-सातु’ ‘धन्य-धन्य’ करने लगे, राजा वाद्यर्थसे देखते रह गये, और कवि शीत्यरने इन विपुल पाण्डित्यके सामने अपनेको झुट्ठ समझ लिया। राजके लिए सना भीग हो गई।

दूसरे दिन कवि शेखरने आकर फिर अपना गान शुरू किया। वृन्दावनमें पहले-पहल जब वंशी वजी थी तब गोपियोंको मालूम नहीं था कि कौन वजा रहा है और कहाँ वज रही है। एक बार मालूम हुआ कि दक्षिण-पवनमें वज रही है, एक बार मालूम हुआ कि उत्तरमें गिरि-गोवर्धनके शिखरसे ध्वनि आ रही है। जान पड़ा कि उदयाचलके ऊपर खड़ा-हुआ कोई मिलनके लिए बुला रहा है, फिर जान पड़ा कि अस्ताचलके प्रान्तमें बैठकर कोई विरहके शोकसे रो रहा है। फिर ऐसा लगा कि यमुनाकी प्रत्येक तरंगसे वंशीकी धुन उठ रही है, जान पड़ा कि आकाशका प्रत्येक तारा मानो उसी वंशीका छिद्र है। अंतमें कुञ्ज-कुञ्जमें, राह-घाटमें, फूल-फूलमें, जल-स्थलमें, ऊपर-नीचे, भीतर-वाहर सब जगह वंशी वजने लगी। वंशी क्या बोल रही है यह कोई न समझ सका, और वंशीके उत्तरमें हृदय क्या कहना चाहता है इसका भी किसीसे निर्णय करते नहीं बना। सिर्फ दोनों आँखोंमें आँसू भर आये, और अलोकसुन्दर इयाम-स्निग्ध मरणकी आकांक्षासे समस्त हृदय मानो उत्कण्ठित हो उठा।

सभाको भूलकर, राजाको भूलकर, आत्मपक्ष और प्रतिपक्ष, यश-अपयश, जय-पराजय, उत्तर-प्रल्युत्तर सब-कुछ भूलकर शेखर अपने निर्जन हृदय-कुञ्जमें अकेले खड़े-खड़े उस वंशीका मधुर गीत गाते ही चले गये। उन्हें सिर्फ याद थी एक ज्योतिर्मयी मानसमूर्तिकी, उनके कानोंमें सिर्फ उसीके कमल-चरणोंकी नूपुरध्वनि वज रही थी।

कवि शेखर जब अपना संगीत पूरा करके वहिर्ज्ञनशूल्य होकर अपने आसनपर बैठ गये, तब एक अनिर्वचनीय माधुर्यसे आकाश-व्यापी एक तरहकी विरह-व्याकुलतासे सभा-भवन भर गया, किसीके मुँहसे 'साधु-साधु' भी न निकला।

इस भावकी प्रवलताका कुछ उपशम होनेपर पुण्डरीक राजसिंहासनके सामने जा खड़े हुए। प्रश्न किया, "कौन राधा है और कौन कृष्ण?" कहकर चारों तरफ देखा, और अपने शिष्योंकी ओर देखकर जरा मुस्कराकर फिर पूछ उठे,

“कौन रावा है और कौन हृष्ण ?” और फिर लड़ावारण पाइंडिंट्स द्वारा ते हुए टन्डोने स्वयं ही उसका दत्तर देना आरम्भ कर दिया ।

कहने लो, “रावा प्रगत हैं औचार हैं ; हृष्ण धान हैं, बोग हैं ; और हृष्णारण दोनों नाँहोंचा नव्य-बिन्दु हैं ।” फिर इडा, सुभन्ना, पिङ्गला, नानिपद्म, हृतम्, क्रिक्करन् सबको ला पटका । और फिर, ‘रा’का क्या अर्थ है और ‘वा’का क्या, और ‘हृष्ण’ शब्दके क्षेत्र मूर्द्धन्य ‘प’ तक प्रत्येक अक्षरके क्रियने प्रकारके निश्चन्द्र अर्थ हो सकते हैं - उन सबकी एक-एक करके भीमांसा कर ढालो । एक बार समन्वया कि हृष्ण बैद हैं और रावा वृद्धर्णन्, फिर समन्वया कि हृष्ण यह हैं और राविका अमि ; फिर समन्वया, हृष्ण विद्वा हैं और रावा दीक्षा । राविका नर्क हैं और हृष्ण भीमांसा ; राविका दत्तर-प्रस्तुतर हैं और हृष्ण जय-ज्ञान ।

इनका कहकर पुण्डरीक राजाकी ओर, पंडितोंकी ओरु और अन्तमें तीन अद्वितीयके साथ शेखरकी ओर देखकर गर्वके साथ अपनी चगह बैठ गये ।

राजा पुण्डरीकी इस आदर्शवस्तुके वास्तिर मुग्ध हो गये । पंडितोंके विस्मयकी सीमा न रही, और रावा-हृष्णकी नई-नई व्याख्याओंसे वंशीका गान्, यसुनार्की लहरे ऐसका दोह विलहुल हीं दूर हो गया,- मानो किर्दिने आकर पृथ्वीपरसे वसन्तके हरे रंगको पौछकर शुहसे आखिर तक पवित्र गोवर लौप दिया । और देखर अपने इतने दिनोंके स्वेच्छ-सेवकर रखे हुए गीतोंको वर्ण समझते लो । इसके बाद, फिर उनमें गीत गानेका सामर्थ्य न रहा । उस दिन भी सभा खंग हो गई ।

दूसरे दिन पुण्डरीकने फिर व्यस्त और समस्त, द्विवस्त और द्विसमस्त, वृत्त-तर्सर्क, सौन्दर, चक्र, पञ्च, काकद, बायु-तर, भव्यो-तरु अन्तो-तरु बाको-तर, इलो-तरु वचनघुत, नामाच्छुरक, चुमादत्त-करु लर्यगृह, सुविजिन्दा, असहुति, शुद्धापत्रवद, शार्वदी, कालसार, प्रहेजिका बादि शब्दोंका प्रयोग करके ऐसे

अद्भुत शब्दचातुरी दिखाइ कि सभाके सब लोग आश्चर्यसे शेखतेके देखते ही रह गये ।

शेखरकी पद-रचनाएँ अत्यन्त सरल होती थीं । उन्हें लोग मुख और दुखमें, आनन्द और उत्सवमें हमेशा गाया करते थे । आज उनलोगोंने स्पष्ट समझ लिया कि मानो उनमें कोई खास खूबी थी ही नहीं, वे खुद भी चाहते तो वैसी रचना कर सकते थे । केवल अनभ्यास अनिच्छा और अवसर न मिलनेके कारण ही नहीं कर पाते । नहीं तो वार्ते ऐसी कोई नई नहीं हैं, दुहह भी नहीं हैं । उनसे संसारके लोगोंको कोई नई शिक्षा भी नहीं मिलती और न कोई लाभ ही है । किन्तु आज जो कुछ सुना, वह तो एक अद्भुत चीज है । कल जो सुना था उसमें भी काफी शिक्षा और मनन करनेका विषय था । दूर-देशके पुण्डीके पाण्डित्य और निपुणताके सामने उन्हें अपना घरका कवि शेखर नितान्त वालक और साधारण व्यक्ति-सा माल्हम होने लगा ।

मछलीकी पूँछकी ताङ्नासे पानीके अन्दर जो एक गूँड आन्दोलन चलता रहता है और सरोवरका कमल जैसे उनके प्रत्येक आधातको अनुभव करता रहता है उसी तरह शेखर भी अपने हृदयमें चारों तरफ बैठी-हुई जनताके मनका भाव समझ गये ।

आज अन्तिम दिन है । आज ही जय-पराजयका निर्णय होगा । राजने अपने कविकी ओर देखा । उसका अर्थ यह था कि ‘आज चुपकी साधनेसे काम न चलेगा, विजयके लिए तुम्हें शक्ति-भर प्रयत्न करना होगा ।’

शेखर सभाके एक किनारेसे उठ खड़े हुए । उन्होंने सिर्फ दो-ही-एक वात कही, “हे वीणापाणि श्वेतभुजा, हे देवि, स्वयं तुम्हीं यदि अपना कमल-चन शून्य करके आज इस मल-भूमिपर आ खड़ी हुई हो, तो, हे देवि, तुम्हारे चरणासक्त जो भक्तजन अमृतके प्यासे हैं उनकी क्या दशा होगी ?” शेखरने ये शब्द मुँहको जरा ऊपर उठाकर अत्यन्त कहण-स्वरमें इस ढंगसे कहे- मानो श्वेतभुजा वीणापाणि नीचेको इष्टि किये- राज- अन्तःपुरमें भरोसेके सामने खड़ी हों ।

इसपर पुण्डरीक उठकर पहले तो खूब हँसे, और फिर 'शेखर' शब्दके अन्तिम दो अक्षरोंको लेकर धाराप्रवाह इलोक रचते चले गये। कहने लो, "कमल-कनके साथ 'खर'का क्या सम्बन्ध ? और संगीतकी वहुत चर्चा करते रहनेपर भी उस प्राणीने क्या लाभ उठाया ? सरस्वतीका अधिष्ठान तो पुण्डरीक (श्वेतकमल) में ही होता है। महाराजके शासनमें ऐसा उन्होंने क्या अपराध किया है जो यहाँ उन्हें खर-वाहन देकर अपमानित किया जाता है ?"

इस प्रत्युत्तरको सुनकर पण्डितगण हँस पड़े। उपस्थित समासद भी उसमें शामिल हो गये। और उनकी देखादेखी सभाके और-सब लोग, जो समझे वे और जो न समझे वे भी हँसने लगे।

इसके उपयुक्त प्रत्युत्तरकी आशासे महाराजा अपने कवि-सखाको अपनी तीक्ष्ण दृष्टिसे अंकुशकी तरह बार-बार ताढ़ना देने लगे, किन्तु शेखरपर उसका कुछ भी असर न हुआ। वे न-जाने किस व्यानमें मन थे, उधर व्यान ही न दे सके और उपचाप अटल बैठे रहे।

तब राजा मन-ही-मन शेखरपर बहुत ही अप्रसन्न हुए। वे सिंहासनसे उतर आये, और अपने गलेसे नोतियोंकी माला उतारकर उन्होंने पुण्डरीकके गलेमें पहना दी। सभाके सब लोग 'धन्य धन्य' कर उठे; और अन्तःपुरसे एकसाथ वहुतसे बलय कंकण और नूपुरोंकी भजनकार सुनाई दी। सुनकर शेखर अपने आसनसे उठे, और धीरे-धीरे सभा-भवनसे बाहर निकल गये।

## ५

कृष्णा-चतुर्दशीकी रात है। चारों तरफ धना अन्धकार है। फूलोंकी सुगन्ध लिये-हुए दखिनी हवा उदार विश्व-चन्द्रकी तरह खुले-हुए झरोखोंसे नगरके घर-घरमें प्रवेश कर रही है।

शेखरने अपने घरके काष्ठमध्यसे अपनी सब पोथियाँ उतार ली, और अपने चामने उनका देर लगा लिया। उनमेंसे छाँट-छाँटकर अपने रचे-हुए अन्य अलग कर लिये। वहुत दिनोंके लिखे-हुए वहुतसे ग्रन्थ ये और उनमेंसे

बहुतसी रचनाओंको वे स्वयं भूल-से गये थे। उन्हें उलट-पुलटकर यहाँ-वहाँसे पढ़-पढ़कर देखने लगे। आज उन्हें अपनी ये सारी रचनाएँ तुच्छ-सी जान पड़ें। एक लम्बी साँस लेकर वे बोले, “सारे जीवनका क्या यही संचय है। थोड़ेसे शब्द और क्रन्द, थोड़ेसे अनुग्रास, वस !”

आज उन्हें अपनी उन रचनाओंमें कोई सौन्दर्य, मानव-हृदयकी चिर-आनन्दपूर्ण कोई अभिव्यक्ति, विद्व-संगीतकी कोई प्रतिध्वनि, उनके हृदयका कोई गम्भीर आत्म-प्रकाश नहीं दिखाई पड़ा। रोगीको जैसे कोई भी भोजन नहीं रुचता, मुँहमें आते ही उगल देता है, ठीक वैसे ही आज उनके हाथके पास जो कुछ भी आया, सबको हटा-हटाकर फेंकते गये। राजाकी मैत्री, लोककी ख्याति, हृदयकी दुराशा, कल्पनाकी मरीचिका सब-कुछ आजकी इस अन्धकार रात्रिमें सारशून्य विडम्बना-सी मालूम होने लगी। वे एक-एक करके अपनी सारी पोथियोंको फाड़-फाड़कर सामने जलती-हुई अँगीठीमें डालने लगे।

अकस्मात् उन्हें एक उपहासकी बात याद उठ आई। हँसते-हँसते बोले, “वडे-वडे राजा - महाराजा अश्वमेध - यज्ञ किया करते हैं,- आज मेरा यह काव्य-मेध यज्ञ है !”

किन्तु उसी समय विचार उठा कि ‘तुलना ठीक नहीं हुई। अश्वमेधका अश्व जब सर्वत्र विजयी होकर आता है तभी अश्वमेध होता है, और मैं, जिस दिन मेरा कवित्व पराजित हुआ है उसी दिन काव्य - मेध करने वैठ हूँ। इससे बहुत दिन पहले ही कर डालता तो अच्छा रहता ।’

कविने एक-एक करके अपने समस्त ग्रन्थ अग्निको समर्पण कर दिये। आग जब धाँय-धाँय ऊँची लपटोंसे जलने लगी तब कविने अपने रीते हाथोंको शून्यमें फेंकते-हुए कहा, “दे दिया, दे दिया तुम्हें दे दिया तुम्हें, सब दे दिया तुम्हें,- हे सुन्दरी अग्निशिखा, सब-कुछ तुम्हींको अर्पण कर दिया। इतने दिनोंसे तुम्हींको सर्वस्व आहुति देता था रहा था, आज विलकुल निःशेष कर दिया। बहुत दिनोंसे तुम मेरे हृदयमें जल रही थीं, हे मोहनी वहिरुपिणी, यदि मैं सुवर्ण होता तो उज्ज्वल हो उठता, किन्तु मैं तुच्छ तृण हूँ तृण, देवी, इसीसे आज भस्म हो रहा हूँ।”

रात आधी बीत चुकी । निशीथ रात्रि के सज्जाटमें शेखर ढठे, और अपने परकी सारी खिड़कियाँ खोल दीं उन्होंने । जो-जो फूल उन्हें पसन्द थे उन्हें वे शामको ही बर्गाचे से तुन लाये थे । सब सफेद फूल थे, जूही बेला और गन्धराज । उन्होंमें से एक-एक मुट्ठी लेकर अपनी निर्मल-गुप्र शैव्यापर बखरे दिये, और घरके चारों तरफ दीपक जला दिये ।

दसके बाद भयुके साथ किसी जड़ीका विपरस मिलाकर उसे निगल गये, मुहपर चिन्ताकी कोई रेखा तक न थी । और फिर धीरे-धीरे अपनी उसी शैव्यापर जाकर सो रहे । शरीर उनका शिथिल हो आया और अँखें भिजने लगीं ।

इनमें नृपुर बज ढठे । पतनके साथ केश-गुच्छकी एक सुगन्धने घरमें प्रवेश किया ।

कविने अँखें भीचे-ही-भीचे कहा, “देवि, भक्तपर दया की क्या ? इतने दिनों बाद क्या आज दर्शन देने आई हो ?”

एक सुभयुर कंठसे उत्तर सुन पड़ा, “कवि, मैं आ गई ।”

शेखरने चौंककर अँखें खोली, और देखा कि शैव्याके सामने एक अर्पण सुन्दरी रमणी-नूरि खड़ी है ।

नृत्यसे आच्छन्न असुओंकी भाषसे भरे-हुए आङ्कुल नेत्रोंसे साफ-साफ कुछ दिखाई नहीं दिया । मालूम हुआ नानो उनके हृदयकी वह छायामय प्रतिभा ही भीतरसे निकलकर बाहर आ गई है और नृत्यके समय उनके मुँहकी तरफ स्थिरदृष्टिसे देख रही है ।

रमणीने कहा, “मैं राजकुमारी अपराजिता हूँ ।”

कवि वडे कष्टसे किसी तरह उठकर चैठ गये ।

राजकुमारीने कहा, “राजाने तुम्हारे जय-पराजयका ठीक न्याय नहीं किया । तुम्हारी ही जय हुई है, कवि, इसीसे आज मैं तुम्हें जयमाला पहनाने आई हूँ ।”

इतना कहकर राजकुमारी अपराजिताने अपने - हाथकी - गुँथी पुष्पमाला अपने गलेसे उतारी और कविके गलेमें पहना दी ।  
 और, मरणाहत कवि शश्यापर गिर पड़े ।

---

## पोस्ट-मास्टर

नौकरी लगते ही पोस्ट-मास्टरको ओलापुर गाँवमें जाना पड़ा। गाँव बहुत छी मासूली है। पास ही एक नीलकी कोठी है। उसं कोठीके साहबने वड़ी कोशिशसे यहाँ नया पोस्ट-आफिस कायम कराया है।

हमारे पोस्ट-मास्टरका वचपन बीता है कलकत्तेमें। पानीकी मछलीको किनारेपर डाल देनेसे उसकी जँसी हालत होती है, इस द्वेषेसे गाँवमें आकर पोस्ट-मास्टरकी भी वही दशा हुई। एक अंधेरी भद्रैयामें उनका आफिस है, पास ही एक गन्दा तालाब है और उसके चारों तरफ ज़ंगल। कोठीमें जो गुमाइना बगैर ह मुलाजिम हैं उन्हें फुरसत ही नहीं कि किसीसे मिलें-जुलें, और फिर वे भले-आदमियोंसे निलने-जुलनेके काविल भी नहीं हैं। खासकर कलकत्तेके लड़के तो अच्छी तरह मिलना-जुलना जानते ही नहीं। अपरिचित स्थानमें जाकर या तो वे उद्धृत हो जाते हैं, या गुमचुम बने रहते हैं। यही चजह है कि गाँवके लोगोंसे पोस्ट-मास्टरका मेल-जोल नहीं हो सका। इधर हाथमें काम-काज भी ज्यादा नहीं जिसमें लगे रहें। कभी-कभी थोड़ी-बहुत कविता लिखनेकी कोशिश करते हैं, और उसमें ऐसा भाव व्यक्त करते हैं कि मानो तमाम दिन पेड़-पत्तियोंका कम्पन और आकाशके मेघोंको देखकर ही जीवन बड़े सुखसे बीता जा रहा हो। किन्तु अन्तर्यामी ही जानते होंगे कि अगर 'अलिफ-लैला' का कोई दैत्य आकर एक ही रातमें इन डाल और पत्तों समेत पेड़ोंको काटकर वड़ी सड़क बना दे और उसके दोनों तरफ पंक्तिवार बड़े-बड़े पक्के मकान खड़े करके आकाशके मेघोंको दृष्टिके ओमल कर दे, तो बेचारे इस अध-भरे भले-आदमीके लड़केको फिरसे नवजीवन भिल जाय।

पोस्ट-मास्टरकी तनखा बहुत थोड़ी है। खुद राधकर खाना पड़ता है, और गाँवकी एक पितृमातृ-होन अनाय बालिङ्गा उनका काम-काज कर देती है। उसे थोड़ा-बहुत खानेको भिल जाता है।

लड़कीका नाम है रतन । उमर बारह-तेरह सालकी होगी । व्याहकी कोई खास उम्मीद नहीं भाल्स होती ।

सन्ध्याके समय जब गाँवके ग्रालघरोंसे धना धुआँ उठता, चारों तरफसे भींगुर बोलने लगते, कुछ दूरीपर गाँवके नशेवाज गवैयोंकी चौकड़ी ढोलक मजीरा बजाकर लँचे स्वरसे गाना शुह कर देती, और जब अँधेरी मढ़यामें अकेले बैठे-हुए कविके हृदयमें भी पेड़ोंकी कँपकँपी देखकर मामूली हृत्कम्प उपस्थित होता, तब घरके कोनेमें एक दिवा जलाकर पोस्ट-मास्टर पुकारते, “रतन !”

रतन दरवाजेपर बैठी-हुई इसी बुलाहटके लिए बाट देखती रहती । किन्तु एक बार बुलानेपर भीतर न आती, कहती, “क्या है, बाबूजी, काहे बुलाते हो ?”

पोस्ट-मास्टर कहते, “तू क्या कर रही है ?”

रतन कहती, “अभी चूल्हा सुलगाने जाऊँगी रसोईमें ।”

पोस्ट-मास्टर कहते, “रसोईका काम पीछे कर लेना,— जा, जरा हुका तो भर ला ।”

कुछ ही देर बाद दोनों गाल फुलाकर चिलमपंर फूँक मारती-हुई रतन भीतर आती ।

उसके हाथसे हुका लेकर पोस्ट-मास्टर मट पूछ बैठते, “अच्छा, रतन, तुम्हे अपनी माकी याद है ?”

उसकी माका बड़ा लम्बा किस्सा है । कुछ याद है, कुछ भूल गई है । माकी अपेक्षा बाप उसे ज्यादा प्यार करता था । बापकी थोड़ी-थोड़ी उसे याद है । मेहनत-मजूरी करके बाप शामको घर आता था । उनमेंसे कोई कोई सन्ध्या उसके हृदयपर तसवीरकी तरह साफ-साफ अंकित है ।

किस्सा सुनाते - सुनाते रतन पोस्ट-मास्टरके पैरोंके पास जमीनपर बैठ जाती । उसे याद आती, उसके एक छोटा भाई था,— बहुत दिनकी बात है, वरसानके दिनोंमें एक दिन छोटी तलेयाके किनारे दोनों भाई-बहन मिलकर पेड़की डालीकी छड़ी-काँटी बनाकर मूँझूँठको मछली पकड़ना खेला करते थे ।

बहुत-सी बड़ी-बड़ी घटनाओंसे यही एक बात उसे ज्यादा याद आती है। ऐसे ही बातचीत करते-करते कर्मी-कर्मी बहुत रात हो जाती, तब मारे आलसके प्रोस्ट-मास्टरकी रसोई बनानेकी तबीयत न होती। सवेरेकी जो-कुछ वासी दाल-तरकारी बच्ची रहती और रतनी जल्दीसे चूल्हा सुलगाकर जो दो-चार रोटी तेंक लाती, उसीसे रातको दोनोंका पेट भर जाता।

कोई-कोई दिन, शामको उस भड़याके कोनेमें आफिसकी चौकीपर बैठकर प्रोस्ट-मास्टर भी अपने घरकी बात छेड़ते। छोटे भाइयोंकी, मा और जीजीकी, और प्रवासमें सूने घरमें बैठकर जिनके लिए हृदय व्यथित हो उठना उनकी बातें कहते। जो बातें हर घड़ी बनमें उठनी रहतीं और जो नील-कोठीके गुमाद्दोंसे भी नहीं कही जा सकती, वे ही बातें एक अशिक्षित और मामूली लड़कीसे कहते चले जाते, जरा भी हिचकिचाते नहीं। आखिर ऐसा हो गया कि लड़की बातचीत करते बजे उनके घरवालोंको मा, जीजी, भड़या कहने लगी, यहाँ तक कि उसने अपने दोटेसे हृदय-पट्टपर उनकी काल्पनिक मृत्तियाँ भी चिंतित कर लीं।

एक दिन वर्षाकृष्णनुके बादलोंसे मुज्ज दोपहरको कुछ नरम सुकोमल ढंगा चल रही थी। धूपसे भीगी धात और पेड़-पौधोंसे एक प्रकारकी भहक निकल रही थी। ऐसा नाल्म होता था जैसे थक्की-हुई पृथ्वीकी नरम सौंद धरीरपर आकर टक्रा रही हो, और न-जाने कहाँकी एक जिहिन चिड़िया इस भरी दुपहरीमें प्रछत्तिके दरवारमें खपनी तमाम शिकायतें बहुत ही करण स्वरमें बार-बार पेंझ कर रही हो। प्रोस्ट-मास्टरके हाथमें कोई काम न था। उस दिन वर्षासे धुले-हुए पेड़-पौधे, उनके चिकने-कोमल पत्तोंकी हिलोरें और पराजित वर्षका भग्नावशिष्ट धूपसे चमकते-हुए स्तूपाकार शुभ्र मंथ सचमुच ही देखने लायक थे। प्रोस्ट-मास्टर वही देख रहे थे, और सोच रहे थे, ‘काश कि इस समय पासमें अगर कोई खात अपना आदमी होता, हृदयके साथ विलक्षुल निली-हुई कोई स्नेह-पुतली मानवनूर्त होती !’ धीरे-धीरे ऐसा नाल्म होने लगा कि मानो वह चिड़िया उसी एक ही बातको बार-बार कह-

रही है, और पेड़ोंकी छायामें ढूके-हुए इस सुनसान दोपहरके पल्लव-मर्मरका अर्थ भी कुछ-कुछ वैसा ही है। हालाँकि कोई विश्वास नहीं करता, और जान मी नहीं पाता, पर छोटेसे गाँवके मामूली तनखा-वाले सब-पोस्टमास्टरके मनमें इस गहरी गुमसुम दुपहरियामें छुट्टीके दिन ऐसा ही एक भाव उठा करता है।

पोस्ट-मास्टरने एक लम्बी सांस छोड़कर पुकारा, “रतन !”

रतन उस समय अमरुदके पेड़के नीचे बैठी कच्चा अमरुद खा रही थी। मालिककी आवाज सुनकर वह तुरत दौड़ी आई, और हाँफती - हुई बोली, “वावृजी, मुझे बुला रहे हो ?”

पोस्ट-मास्टरने कहा, “तुम्हे मैं थोड़ा-थोड़ा पढ़ना सिखाऊँगा।”

इसके बाद दोपहर-भर उसे वे ‘अ-आ-इ-ई’ सिखाते रहते। इस तरह थोड़े ही दिनोंमें उसे युक्ताक्षर तक पढ़ा दिया।

सावनका महीना है, वर्षाकी कोई हृद नहीं। नहर, वस्त्रा, ताल-तलैया, नदी-नाले सबके सब पानीसे भर गये। रात-दिन मेढ़कोंकी टर्टर्टर और वर्षाकी मूँझकम आवाज सुनाई पड़ती रहती है। गाँवकी सड़कपर चलना - फिरना करीब-करीब बन्द हो गया है। नावपर बैठकर हाट जाना पड़ता है।

एक दिन सवेरेसे ही खूब बादल छा रहे थे। पोस्ट-मास्टरकी बात्रा बहुत देरसे दरवाजेपर बैठी बुलाहटकी बाट जोह रही थी, किन्तु और-दिनोंको तरह नियमित पुकार न होनेसे अन्तमें वह खुद ही अपनी पोथी लेकर धीरे-धीरे घरके भीतर पहुँची। देखा, पोस्ट-मास्टर अपनी खाटपर पड़े हैं। उसने यह सोचकर कि वावृजी आराम कर रहे हैं, धीरेसे बाहर निकल जाना चाहा। इतनेमें सहसा सुनाई पड़ा, “रतन !”

वह चटसे पीछेको लौटकर बोली, “वावृजी, तुम तो सो रहे थे न ?”

पोस्ट-मास्टरने करुणस्वरमें कहा, “मेरी तबीयत अच्छी नहीं भालूम होती, रतन ! देख तो मेरे माथेपर हाथ रखकर !”

इस निहायत निःसंग-प्रवासमें घनी-घनी वपसि रोग-पीड़ित शरीरको जरा सुना पानेकी इच्छा होती ही है, तपते-हुए भाघेपर चुड़ियोंवाले कोमल हाथोंका स्पर्श याद आ ही जाता है, और रोगकी पीड़ियाँ ऐसा सोचनेको जी चाहता है कि स्तेहनयी नारी-हृपमें जननी और जीजी पास बैठी है। यहाँ भी प्रवासीकी मनकी अभिलापा व्यर्थ न गई। बालिका रतन अब बालिका न रही। उसी क्षण उसने जननीका पद ले लिया। वह बैद्य बुला लाई, ठीक समयपर दबा खिला दी, सारी रात सिराहने बैठी जागती रही, अपने-आप पथ्य बना लाई, और सौ-सौ बार पूछती रही, “बाबूजी, कुछ आराम मालूम पड़ता है?”

पोस्ट-मास्टर कमजोर शरीर लेकर रोग-शैव्यासे ढठे। ननमें झारदा कर लिया था कि ‘बस, अब नहीं, यहाँसि किसी भी तरह तबादला कराना ही है। यहाँ तनदुरुस्ती ठीक नहीं रहती, आव-हवा ठीक नहीं बगैरह लिखकर उसी समय कलकत्तेके अफसरको तबादलेके लिए अरजी लिख भेजी।

रोगीकी देवासे छुट्टी पाकर रतन फिर दरबाजेके बाहर अपनी जगहपर जा बैठी; किन्तु पहलेकी तरह अब उसे कोई बुलाता नहीं। बीच-नीचमें वह झाँककर देखती, पोस्ट-मास्टर अनमने होकर चौकीपर बैठे हैं या खाटपर पढ़े हैं। रतन जब बुलाहटकी प्रतीक्षामें बाहर बैठी रहती, तब वे धधीर चित्तसे अपनी अर्जीके जवाबकी प्रतीक्षा करते रहते। बालिकाने दरबाजेपर बैठे-बैठे हजार बार अपना पुराना पाठ धोंकना शुरू किया। उसे डर था कि कही अचानक न पुकार बैठें, और तब वह बुजाकरोंको भूल गई तो?

अन्तमें एक सप्ताह बाद एक दिन शामको पुकार हुई। घबराहटके साथ रतन भीतर गई, बोली, “बाबूजी, मुझे बुला रहे थे?”

“रतन, मैं कल ही चला जाऊँगा।”

“कहाँ चले जाओगे, बाबूजी?”

“घर जाऊँगा।”

“फिर क्व आओगे?”

“अब नहीं आऊँगा।”

रतनने फिर कोई बात नहीं पूछी ।

पोस्ट-मास्टरने खुद ही उससे कहा, “मैंने तबादलेके लिए अरजी दी थी, अरजी मंजूर नहीं हुई । इसलिए काम छोड़कर घर चला जाऊँगा ।”

बहुत देर तक दोनों चुप रहे । एक कोनेमें दीआ टिमटिमाता रहा, और एक जगह मकानकी पुरानी छत चूकर एक मिट्टीके सरवेमें टपटप बरसातका पानी टपकता रहा ।

कुछ देर बाद रतन धीरेसे उठकर रसोई-घरमें रोटी बनाने चली गई । और-दिनकी तरह उसमें उतनी फुरती नहीं थी । शायद बीच-बीचमें उसे बहुत-सी चिन्ताएँ आ घेरती थीं ।

पोस्ट-मास्टर जब खाकर उठे, तो बालिका अचानक पूछ बैठी, “बाबूजी, मुझे अपने घर ले चलोगे ?”

पोस्ट-मास्टरने हँसकर कहा, “सो कैसे हो सकता है !”

बात क्या है, सो उन्होंने समझानेकी जरूरत नहीं समझी । रात-भर, सपनेमें और जागतेमें बालिकाके कानोंमें पोस्ट-मास्टरकी वही एक हास्यचनि गूँजती रही, ‘सो कैसे हो सकता है !’

सवेरे उठकर पोस्ट-मास्टरने देखा कि उनके नहानेके लिए पानी तैयार है । कलकत्तेकी आदतके अनुसार वे बालटीमें रखे-हुए पानीसे नहाते थे । किसी कारणसे बालिका उनसे यह न पूछ सकी कि वे किस बत्त जायेंगे । कहीं तड़के ही न जरूरत पढ़े, इस खयालसे रतनने पौ-फटते ही नदीसे पानी लाकर रख दिया था । नहा चुकनेके बाद रतनकी पुकार हुई । रतन चुपचाप घरके भीतर पहुँची, और आज्ञा पानेकी आशासे उसने एक बार मालिकके मुँहकी ओर देखा ।

मालिकने कहा, “रतन, मेरी जगहपर जो बाबू आयेंगे, उनसे मैं कह जाऊँगा, वे तुझे मेरी ही तरह जतनसे रखेंगे । मैं जा रहा हूं, इसके लिए तू फिकर भत कर ।”

ये बातें अत्यन्त स्लेह और दर्याद्वारा हृदयसे निकली थीं इसमें सन्देह नहीं, पर नारीके हृदयको कौन समझे ? रतनने अनेक बार मालिकके अनेक तिरस्कार

तुपचाप सहे हैं, किन्तु आजकी ये भीठी बातें उससे नहीं चर्ही गईं। वह एकसाथ सिसक-सिसककर रोने लगी, बोली, “नहीं नहीं, तुम किसीसे भी कुछ भत कह जाना, मैं नहीं रहना चाहती।”

पोस्ट-मास्टरने रतनका ऐसा व्यवहार कभी न देखा था,—इससे वे दंग रह गये।

३१६

नया पोस्ट-मास्टर आया। उसे चारा चार्जसमझाकर पुराने पोस्ट-मास्टर चलनेकी तैयारी करने लगे।

चलते समय उन्होंने रतनको बुलाकर कहा, “रतन, तुम्हें मैं कभी भी कुछ दे नहीं सका हूँ। आज जाते समय तुम्हें कुछ दिये जाता हूँ, इससे तेरी कुछ दिनोंकी गुजर चल जायगी।”

अपने राह-खर्चके लिए थोड़से रुपये निकालकर, जो भी कुछ तनखाके रुपये निले थे उन्हें वे जेवसे निकालकर देने लगे।

तब रतनने धूलमें लोटकर उनके पैर पकड़कर कहा, “वावृद्धी, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, पैरों पड़ती हूँ, सुके कुछ भत दो। तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, मेरे लिए किसीको भी कुछ सोच करनेकी जहरत नहीं।” इनना कड़कर वह बड़ीसे भाग गई।

भूतपूर्व पोस्ट-मास्टर एक गहरी साँस लेकर हाथमें कामेंटका बैग लटकाये कधेपर छतरी रखे, मजदूरके सिरपर नीले और सफेद रंगकी लकीरोंसे रंगा हुआ टीनका बक्स रखवाकर धीरे-धीरे घाटकी तरफ चल दिये।

जब वे नावपर चढ़े और नाव छूट गई, वपाके पानीसे दूर तक फैली हुई नदी जब आवेगसे निकले हुए पृथ्वीके दाँतुओंकी नरह चारों ओर चमकने लगी, तब हृदयके भीतर वे एक गहरी बैद्नाका बनुभव करने लगे। एक साधारण गर्वकी लड़कोंका कहण चैहरा और उससे भी कहण भाँझ-भरी बातें नानो एक विश्वव्यापी वृहत् अव्यक्त भर्म-व्यया बनकर उनके हृदयको व्यक्ति करने लगीं। एक बार वडी इच्छा हुई कि लौट चलें, संसारकी गोंदसे छिटकाए हुई इस बनाय लड़कोंको साथ लेते चलें, किन्तु तब पालमें हवा भर नुकी थी,

वर्षका स्रोत वेगसे चल रहा था, नाव गाँव पार कर चुकी थी, नदीके किनारेका इमशान दिखाई दे रहा था, और तब नदीके प्रवाहमें वहते-हुए पथिकके व्यथित हृदयमें इस तत्त्वका उदय हो रहा था कि 'जीवनमें ऐसे कितने विच्छेद, कितना मौतें आती रहेंगी,— लौटनेसे कायदा ? संसारमें कौन किसका है ?'

पर रतनके मनमें किसी भी तत्त्वका उदय नहीं हुआ। वह उस पोस्ट-आफिसके चारों तरफ सिर्फ आँखू बहाती-हुई धूम रही थी। शायद उसके मनमें क्षीण आशा जाग रही थी कि बाबू शायद लौट आवें; और इसी वन्धनमें पड़कर वेचारी कहों दूर नहों जा सकती थी। हाय रे बुद्धिहीन मानव-हृदय, तेरी भ्रान्ति किसी तरह मिटती ही नहों ! युक्तिशास्त्रका विधान बहुत देरसे माथेमें घुसता है, प्रवल और साक्षात् प्रमाणका भी विश्वास न कर) भूठी आशाको दोनों भुजाओंसे बांधकर जी-जानसे छातीसे लगाये रहता है ! और आखिर एक दिन आशा जब तमाम नाड़ियोंको काटकर हृदयका खून चूस कर गायब हो जाती है, तब होश आता है। किन्तु आश्चर्य है, फिर तुरत ही दूसरे भ्रान्ति-जालमें पड़नेके लिए उसका चित्त व्याकुल हो उठता है।

# सजा

१

दुक्खी और ददार्ही कोरी दोनों भाई संवरे उठकर जब हँसियानँडासा हाथमें लिये कानपर निकले, तब उन दोनोंकी बहुओंमें खूब जोरकी लड़ाई शुरू हो चुकी थी। मुहल्लेवाले प्रकृतिकी लौर-और नाना प्रकारकी खटपट और कलरबैंकी सांति इस घरके कलह और उससे पैदा-हुए शोखुलके आदी हो गये थे। जोरकी छीख-चिल्ड्राइट और नारी-कण्टकी गाली-गलौज कानमें पड़ते ही लोग आपसमें कहने लगते, 'लो, हो गया शुरू !' अर्थात् जैसी कि आशा थी, आज भी उस स्वामाविक नियममें कोई फरक नहीं पड़ा। संवेदा होते ही पूरबमें सूरज निकलनेपर जैसे कोई उसका कारण नहीं पूछता, ठीक वैसे ही कोरियोंके इस घरमें जब दोनों बहुओंमें तकरार और गाली-गलौज शुरू हो जाती, तो फिर उसका कारण जाननेके लिए मुहल्लेके किसीको भी रक्ती-भर उत्थल नहीं होता।

हाँ, इतना जहर है कि यह कलह-सान्दोलन पड़ोनियोंकी अपेक्षा दोनों पतियोंको ज्यादा परेशान करता है, किन्तु फिर भी वे उसे किसी खास विद्यतमें नहीं गिनते। उनके ननका नाम ऐसा है, मानो दोनों भाई संसार-चान्द्रका लम्बा सफर किसी इक्केजे बैठकर तय कर रहे हैं; और उसके दोनों दिना कमानीसे पहियोंके लगातार घड़घड़-खड़खड़ शब्दको उन्होंने जीवन-रथयान्त्र के विधि-विहित नियमोंमें ही शामिल कर लिया है। बल्कि, घरमें जिन रोज़ कोई शोखुल नहीं होता, चारों ओर सजाई-स्त्रा रहता है, उन दिन जब उन्होंने आ लगाकर नहीं कह लक्ष्य।

इसारी छहानोंकी घटना जिस दिनसे शुरू होती है उस दिन शानको दोनों भाई नेहनत-भूरी करके हारे-धके जब घर लौटे, तो देखा कि घरमें सजाई छाया हुआ है।

वाहर भी काफी उमस है। दोपहरको एक बार खूब जोरसे पानी वरस चुका है, और अब भी बादल धुमड़ रहे हैं। हवाका नामो-निशान तक नहीं। वर्षासे घरके चारों तरफका जंगल और घास-पौधे बगैरह बहुत बढ़ गये हैं, वहाँसे, और पानीमें ढूवे-हुए पटसनके खेतमेंसे एक तरहकी धनी बदबूदार माप-सी निकल रही है; और उसने चारों तरफ मानो एक निश्चल चहारदीवारी-सी खड़ी कर दी है। गुहालके बगलवाली छोटी-सी तलेयामें मेढ़क टर्टर कर रहे हैं, और सन्ध्याका निस्तव्य आकाश मानो झींगुरोंकी झनकारसे विलकुल भर-सा गया है।

पास ही वरसातकी पद्मा नदी नवीन मेघोंसे आच्छन्न होकर अत्यन्त स्थिर और भयङ्कर रूप धारण करके स्वच्छन्दतासे वह रही है। अधिकांश खेतोंको, नष्ट करके वह वस्तीके करीब तक आ पहुंची है। यहाँ तक कि उसने आस-पासके दो-चार आम-कटहरके पेड़ तक उखाड़कर गिरा किये हैं, और उनकी जड़ें पानीसे बाहर दीख रही हैं। मानो वे अपनी मुट्ठीकी उंगलियोंको आकाश में फैलाकर किसी आखिरी सहारेको पकड़नेकी कोशिश कर रही हों।

दुक्खी और छदमी उस दिन गाँवके जर्मीदारके यहाँ वेगार खटने गये थे। उस पारकी रेतीपर धान पक गये हैं। वरसातके पानीमें ढूब जानेके पहले ही धान काट लेनेके लिए देशके गरीब किसान और मजदूर सब-कोई अपने-अपने खेतके काम या पटसन काटनेमें लग गये हैं। सिर्फ इन दोनों भाइयोंको जर्मीदारके आदमी जवरदस्ती वेगारीमें पकड़ ले गये थे। जर्मीदारकी कचहरीके छप्परमेंसे जगह-जगह पानी चू रहा था। उसकी मरम्मतके लिए और कुछ टट्टियाँ बनानेके लिए वे दिन-भर कड़ी मेहनत करते रहे हैं। खाने तककी छुट्टी न मिली कि घर आकर पेटमें कुछ डाल जाते, कचहरीकी तरफसे थोड़ेसे चने खानेको मिल गये थे। बीच-बीचमें मेहमें भी भीगे हैं। हककी मजूरी भी मिल जाती सो भी नहीं, वल्कि उसके बदले जो उन्हें गालियाँ और फटकार मिली हैं वह उनकी मजूरीसे बहुत ज्यादा थी।

कीच-कट्ट और पानीमें होकर बड़ी मुश्किलसे दोनों भाई शामको घर आये। देखा तो, छोटी वहू चन्दा जमीनपर आँचल बिछाये चुपचाप आँधी

पड़ी है, आजके बदलीके दिनकी तरह उसने भी दुपहरको बहुत आसू बरसाकर शाम होते-होते खामोश होकर अपने अन्दर जोरोंकी उमस कर रखी है। और वड़ी वहू राधा मुँह फुलाये दरवाजेपर बैठी थी, उसका डेढ़ बरसका छोटा बच्चा रो रहा था। अब, दोनों भाइयोंने जब घरमें पैर रखा तो देखा कि बच्चा नज़्-धड़ आँगनके एक तरफ चित पड़ा सो रहा है।

भूखे दुक्खीने आतेके साथ ही कहा, “चल उठ, परोस खानेको।”

वड़ी वहू एकसाथ जोरसे गरज उठी, मानो वालदके बोरेमें चिनगारी पड़ गई हो, बोली, “खानेको है कहाँ, सो परोस दूँ? चावल तू दे गया था? मैं क्या आप कहों जाकर रोजगार कर लाती।”

सारे दिनकी थकावट और डाट-फटकार सहनेके बाद अज्ञीन निरानन्द थँगेरे घरमें, जलती-हुई कुधामिनपर त्रीके हँसे बचन, खासकर अन्तिम बाक्ष्यका छिपा-हुआ कुत्सित इलेय दुक्खीको सहसा न-जाने कैसे बिलकुल ही असह्य हो उठा। क्रोधित व्याघ्रकी तरह वह सूद्ध-नाम्मीर गर्जनके साथ बोला, “क्या कहा!” और उसी दम उसने हँसिया उठाकर त्रीके सिरपर जमा दिया।

राधा अपनी देवरानीके पास जाकर गिर पड़ी; और पड़तेके साथ ही मर गई।

चन्द्राके कपड़े खूनसे तरावोर हो गये। वह ‘हाय अम्मा, क्या हो गया’ कहकर चिल्हा उठी। छदमीने आकर उसका मुँह दाढ़ दिया। दुक्खी हँसिया फेंककर गालपर हाय रखके भौंचक्केकी तरह जमीनपर बैठ गया। लड़का जग गया और डरके मारे चिल्हा-चिल्हाकर रोने लगा।

वाहर तब पूरी शान्ति थी। अहीरोंके लड़के गाय-भैंस चराकर गाँवको लौट रहे थे। उस पारकी रेतीपर जो लोग पके धान काटने गये थे, उनमेंसे पांच-पांच सात-सात जने एक-एक छोटी नावपर बैठकर, इस पार आकर दिन-मरकी मेहनत-मज़ूरीमें दो-चार पृला धान सिरपर लाढ़े, लगभग सभी-कोइ अपने-अपने घर आ पहुँचे हैं।

गाँवके रामलोचन-चचा ढाकखानेमें चिट्ठी टालकर घर लौट आये थे, और निश्चिन्त होकर ऊपचाप बैठे तमाकू पी रहे थे। एकाएक उन्हें दाद उठ

आईं,— उनके शिकमी काश्तकार दुक्खीपर लगानके सूपये वाकी हैं। आजके दिन वह देनेका वादा कर गया था। यह सोचकर कि अब वह घर आ गया होगा, रामलोचन डालूं कंधेपर दुपट्टा, उठा छतरी चल दिये।

दुक्खी-छदामीके घरमें घुसते ही उनके रोंगटे खड़े हो गये। देखा तो, घरमें दिखा तक नहीं जल रहा है। आगनमें अँधेरा है, और उस अँधेरेमें दो-चार काली मूर्तियाँ अस्पष्ट दिखाई दे रही हैं। रह-रहकर वरामदेके एक कोनेसे रोनेका अस्फुट शब्द सुनाई दे रहा है, और लड़का ज्यों-ज्यों ‘अम्मा, अम्मा’ पुकारता-हुआ रोनेकी कोशिश कर रहा है त्यों-त्यों छदामी उसका मुँह दबाता जा रहा है।

रामलोचनने कुछ डरते-हुए पूछा, “दुक्खी है क्या ?”

दुक्खी अब तक पत्थरकी मूर्तिकी तरह चुपचाप बैठा था। उसका नाम लेकर पुकारते ही वह सिसक-सिसककर नासमझ बच्चेको तरह रोने लगा। छदामी झटपट वरामदेसे उतरकर रामलोचन-चचा के पास आगनमें आ गया। रामलोचनने पूछा, “औरतें लड़ाई करके मुँह फुलये पड़ी होंगी, इसीसे अँधेरा है क्या ? आज तो दिन-भर चिल्हाती ही रही हैं।”

छदामी अभी तक, क्या करना चाहिए, कुछ भी सोच नहीं पाया था। तरह-तरहकी असम्भव कल्पनाएँ उसके दिमागमें चक्कर काट रही थीं। फिलहाल उसने यही तय किया था कि कुछ रात बीते लाशको कहीं गायब कर देगा। इसी बीचमें चौधरी-चचा आ पहुँचे, जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। चटसे उसे कोई ठीक जवाब न सूझा, वह कह बैठा, “ही, आज बहुत झगड़ा हो गया।”

चौधरीजी वरामदेकी ओर बढ़ते-हुए बोले, “लेकिन उसके लिए दुक्खी क्यों रो रहा है ?”

छदामीने देखा कि अब खैर नहीं, एकाएक वह कह बैठा, “तकरार करते करते छोटी बहने वड़ी बहूके माथेपर हँसिया मार दिया है।”

मनुष्य आई-हुई विपत्तिको ही बड़ा समझता है, उसके अलावा और भी कोई आपत्ति आ सकती है — यह बात जल्दी उसके दिमागमें नहीं आती।

छद्मी उस समय सोच रहा था कि इस खतरनाक सत्यके किन्तु मूठ उससे भी बढ़कर खतरा ला सकता है - इस वान था। रामलोचनके पृष्ठते ही चट्टसे उसके दिमागमें एक उसी वक्त उसने उसे कह डाला।

रामलोचनने चौंककर कहा, “ऐ ! क्या कहा ! मरी तो नहीं ?”

छद्मीने कहा, “मर गई ।” और तुरत उनके पाँवपर गिर पड़ा।

चौधरी वडे असमझसमें पड़ गये, सोचने लगे, ‘राम-राम, ऐन सन्ध्याके समय कहाँ था फँसे ! अदालतमें गवाही देते-देते जान निकल जायगी ।’

छद्मीने किसी भी तरह उनके पाँव नहीं छोड़, बोला, “चौधरी-चचा, अब मैं अपनी वहूको बचानेके लिए बद्या करूँ ?”

मानला-मुकदमोंके बारेमें सलाह देनेमें रामलोचन गाँव-भरके मुख्य मन्त्री थे। उन्होंने जरा सोचकर कहा, “देख, एक काम कर तू, अभी दौँड़ा जा यानेमें, कहना कि ‘मेरे वडे भाई दुक्खीने शामको घर आकर खानेको मांगा था, खाना तैयार नहीं था, सो उसने अपनी वहूके माथेमें हँसिया नार दिया है ।’ मैं ठीक कहता हूँ, ऐसा कहनेसे तेरी वहू बच जायगी ।”

छद्मीका कण्ठ सूखने लगा, उठकर बोला, “चौधरी-चचा, वहू तो और भी मिल जायगा, पर भाईको फँसी हो जापेपर फिर भाई नहीं निलगेका ।” किन्तु जब उसने अपनी त्वीपर दोपारोप किया था तब ये बातें नहीं सोची थीं। घबराहटमें एक बात मुहसें निकल गई, अब अलक्षित-भावसे उसका मन अपने लिए गुक्किया और तसली इकट्ठा करने लगा।

चचाने भी उसकी बातको युक्तिसंगत माना, बोले, “तो निर जँसा हुआ है वैसा ही कहना। सब तरफसे दबाव होना तो सुशिक्ल बात है ।” - इनना कहकर रामलोचन वहाँसे चल दिये। और देखते-देखते नारे गाँवमें हाल हो गया कि ‘कोरियोंके घरकी बन्दाने लड़ते-लड़ते गुस्सेमें आकर अपनी जिटानीजीके माथेमें हँसिया दे नारा है ।’

बाध टूटनेपर जँसे बाढ़ आती है वैसे ही गाँवमें पुलिस वा भर्मरी। अपराधी और निरपराधी सभी कोई यहूत घदरा ढे।

छदमीने सोचा कि जो रास्ता बना लिया है उसीपर चलना ठीक होगा । उसने रामलोचनके सामने अपने मुँहसे जो वात कह डाली है उस वातको गाँवके सब लोग जान गये हैं । अब अगर दूसरी कोई वात कही जाय तो न-जानें उसका क्या नतीजा निकले, क्यासे क्या हो जाय । उसकी अकल चक्ररा गई । उसने समझ लिया कि किसी तरह अपने बचनोंकी रक्षा करते-हुए उसमें और भी दो-चार बातें जोड़-जाड़कर बहूको भले ही बचाया जा सकता है, और-कोई रास्ता नहों ।

छदमीने अपनी बहू चन्द्रासे अनुरोध किया कि वह कसूर अपने ऊपर ले ले । सुनते ही उसपर मानो विजली-सी गड़ गई । छदमीने उसे तसल्ली देकर कहा, “मैं जो कह रहा हूं, उसमें तुझे किसी बातका ढर नहीं, हमलोग तुझे बचा लेंगे ।” तसल्ली दी तो सही, पर उसका कण्ठ सूख गया, मुँह फक पड़ गया ।

चन्द्राकी उमर सत्रह-अठारह सालसे ज्यादा न होगी । चेहरा भरा-हुआ और गोल-मटोल, शरीर मँझोला कसा-हुआ स्वस्थ और सबल, और अंग-प्रत्यंगों के गठनमें ऐसा एक सौष्ठव भरा-हुआ है कि चलने-फिरनेमें हिलने-डुलनेमें देह कहींसे भी जरा बेडौल नहीं मालूम देती । वह नई बनी-हुई नावकी तरह छोटी और सुडौल है, बहुत ही आसानीसे सरकती है और उसकी कहीं भी कोई ग्रन्थि शिथिल नहीं हुई । संसारके सभी विपर्योंमें उसके अन्दर एक तरहका कुत्खल है; मुलल्लेमें दूसरोंके घर जाकर गपशप करना उसे बहुत पसन्द है, और कौखमें पानीकी गागर लिये पनघट आते समय वह दो उंगलियोंसे धूँधटमें जरा-सा छेद करके चमकीली चंचल काली आँखोंसे रास्तेमें जो-कुछ देखने-लायक चीज होती है उसे देख लिया करती है ।

बड़ी बहू ठीक इससे उलटी थी । बहुत ही आलसिन फूहड़ और वेशऊर । सिरका कपड़ा, गोदका लड़का, घरका काम कुछ भी उससे न सम्भलता था ।

हाथमें न तो कोई खास काम-काज होता और न फुरसत । होटी वहू उसे ज्यादा-कुछ कहती-मुनती न थी । हाँ, भीठे स्वरमें दो-एक पैने दात गड़ा देती, और हाय-हाय हो-हो कहके गुस्सेमें बकती-मकती रहती, और इस तरह मुहल्ले-मरकी नाकमें दम करती रहती ।

पर इन दो दम्पत्तियोंमें भी स्वभावकी आश्चर्यजनक एकता थी । दुक्खी देहमें कुछ लम्बा-चौड़ा हट्टा-कट्टा है, चौड़ी हँड़िया-सी भद्दी नाक, अन्तिं ऐसी कि मानो इस दुनियाको वे अच्छी तरह समझती ही नहीं, और न उससे किसी तरहका सवाल ही करना चाहती हैं । ऐसा भोला-भाला किन्तु खतरनाक, ऐसा सबल किन्तु निरोह आदमी विरला ही मिलेगा ।

और छद्मी तो ऐसा लगता है जैसे किसी चमकीले काले पत्थरको घड़ी मेहनतसे कोंदकर नृति बनाइ गई हो । जरा भी कहीं वाहुत्य नहीं । कहीं भी जरा दचका तक नहीं पड़ा । बल और निपुणताने मिलकर उसके प्रत्येक अंगको भरा-पूरा बना दिया है । चाहे तो नदीकी ऊँची पाइपरसे नीचे कूद पड़े, चाहे लग्नी चलावे, चाहे वासिकी भाड़ियोंमें चढ़कर छैट-चैटकर उसकी टहनियाँ काट लावे । हरएक काममें उसकी पूरी होशियारी पाई जाती है, मानो सभी काम उसके लिए बहुत आसान हैं । वडे-वडे काले बालोंमें तेल डालकर वडे जतनसे उन्हें काढ़कर कंधे तक लटकाये रहता है, देढ़की सजावटके विषयमें उसका काफी ध्यान है ।

और-और ग्राम्य-बधुओंके सौन्दर्यके प्रति यद्यपि उसकी उदासीन दृष्टि न थी, और अपनेको उनकी निगाहोंमें भनोरम जँचानेकी इच्छा भी उसके काफी थी, फिर भी अपनी युवती स्त्रीको वह जरा-कुछ ज्यादा प्यार करना था । दोनोंमें कलह भी होती और मेल भी । कोई किसीको हरा नहीं सज्जना था । और भी एक कारण था जिससे दोनोंका बन्धन काफी नज़दूत था । उदासी समझता था कि चन्दा जैसी चंचल प्रष्टतिकी चंडूल ती है, उसपर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, और चन्दा समझती थी कि उनके मालिकर्दा चारों तरफ निगाह दौड़ती रहती है, उसे अगर कुछ कहके न दोधा गया तो यिन्हीं दिन हाथसे निकल जानेका दर है ।

इस दुर्घटनाके कई दिन पहलेसे स्त्री-पुत्रमें बड़ी-भारी तनातनी चल रही थी। वात यह थी कि चन्द्राने देखा, उसका मालिक कामके बहाने कभी-कभी दूर चला जाता है, यहाँ तक कि दो-एक दिन बाहर विताकर फिर घर लौटता है, और कुछ पैदा करके लाता नहीं। पतिके लक्षण अच्छे न देखे तो वह भी कुछ ज्यादती करने लगी। उसने जब-है-तब पनघट जाना शुरू कर दिया और मुहल्ले-भरमें धूम-फिरकर घर आकर काशीप्रसादके ममले लड़केकी बहुत ज्यादा व्याख्या करने लगी।

छदमीके दिन और रातोंमें मानो किसीने जहर घोल दिया। काम-धन्धे में कहीं भी उसे घड़ी-भरके लिए चैन न पड़ता। इसके लिए एक दिन उसने भौजाईको बड़ी डाट-फटकार बताई। जवावमें भौजाईने हाय हिला-हिलाकर मृमक-मृमककर उसके अनुपस्थित नृत पिताको सम्बोधन करके कहा, “वह औरत आंधीके आगे दौड़ती है, उसे मैं सम्हालूँ। मैं तो जानती हूँ, किसी दिन वो खानदानकी नाक कटा बैठेगी।”

वगलकी कोठरीमें चन्दा बैठी थी, उसने बाहर आकर धीरेसे कहा, “जीजी, तुम्हें इतना डर क्यों है?”

उस, फिर क्या था, दोनोंमें खूब ठन गई।

छदमीने आंखें घुनाकर कहा, “देख, अबकी अगर जुना कि तू अकेली पानी भरने गई है, तो तेरी हड्डी तोड़ दूँगा।”

चन्द्राने कहा, “तब तो मेरा कलेजा ही ठंडा हो जाय।” यह कहती-हुई वह उसी बज बाहर जानेको तैयार हो गई।

छदमीने लपककर चोटी पकड़के घसीटकर उसे कोठरीके भीतर ढकेल दिया और बाहरसे दरवाजा बन्द कर दिया।

शामको छदमी जब घर लौटा, तो देखा कि कोठरी खुली पड़ी है, उसमें कोई भी नहीं। चन्द्रा तीन गांव पार करके सीधी अपनी ननसाल पहुंच गई है।

छदमी बड़ी मुश्किलसे मना-मनूकर बहासे उसे घर ले लाया, और अबकी बार उसने अपनी हार नान ली। उसने देख लिया कि जैसे अँजुली-भर पारेको

मुद्रिके अन्दर जोरसे दबाकर रखना दुःसाध्य है वैसे ही इस स्त्रीको भी मजबूतीसे पकड़ रखना असम्भव है, पारेकी तरह यह भी दसों लंगलियोंकी सीधोंमेंसे इधर-उधर छिटक पड़ती है।

उसने किसी तरहकी जबरदस्ती नहीं की; किन्तु वडी अशान्तिमें रहने लगा। इस चंचल युवती स्त्रीके प्रति उसका सदा-शांकित प्रेम उग्र वेदनाकी तरह उसीको दुख देने लगा। यद्हाँ तक कि कभी-कभी वह सोचता कि यह मर जाय तो निश्चिन्त होकर वह जरा शान्तिसे रहे। आदमीसे आदमीकी जितनी ईर्पा होती है उतनी शायद यमराजसे नहीं होती। इसी बीचमें घरमें यह दुर्घटना हो गई।

चन्द्रासे जब उसके भालिकने हत्या मंजूर कर लेनेके लिए कहा, तो वह भौचक्की होकर देखती रह गई। उसकी काली-काली दोनों थोखें काली आगर्की तरह चुपचाप अपने पतिको दाय करने लगीं। उसका सारा शरीर और मन कमशः नानों संकुचित होकर पति-राक्षसके पंजेसे निकल भागनेकी कोशिश करने लगा। उसकी सारी अन्तरात्मा विसुख होकर पतिके खिलाफ विद्रोह ठान बैठी।

छद्मीने बहुत तसली दी कि तेरे डरनेकी कोई वात नहीं। इसके बाद उसने, धानेमें और अदालतमें मजिस्ट्रेटके सामने उसे वया कहना होगा, धार वार सिखा-पढ़ाकर सब ठीक कर दिया। यहाँ उसने उसकी लम्बी-लम्बी वातें कुछ भी नहीं सुनी,- पत्यरकी नूरिकी तरह वह चुपचाप बैठी रही।

सभी कामोंमें दुक्खी छद्मीके भरोसे रहता है। छद्मीने जब उसने चन्द्रापर सारा दोष भढ़नेकी वात कही, तो उसने कहा, “फिर दृढ़का क्या होगा?”

छद्मीने कहा, “उसे मैं बचा लूँगा।”

भाईकी वात सुनकर हट्टा-कट्टा दुक्खी निश्चिन्त हो गया।

## ३

छदमीने अपनी वहूंको सिखा दिया था कि तू कहना, 'जिठानी मुझे हँसिया लेकर मारने आई थी, सो मैं भी उसे हँसिया उठाकर रोकने लगी, सो न-जाने कैते अचानक लग गई।' ये सब वातें रामलोचनकी बनाई-हुई थीं। इसके अनुकूल जिन-जिन वर्णनों और प्रमाणोंकी जहरत थी वे सब वातें भी उन्होंने विस्तारके साथ छदमीको समझा दी थीं।

पुलिस आकर जोरोंसे तहकीकात करने लगी। लगभग सभी गाँववालोंके मनमें यह वात तह तक बैठ गई थी कि चन्दाने ही जिठानीकी हत्या की है। और प्रायः सभी गाँववालोंके बयानोंसे ऐसा ही सावित हुआ।

पुलिसकी तरफसे चन्दासे जब पूछा गया, तो चन्दाने कहा, "हाँ, मैंने ही खून किया है।"

"क्यों खून किया ?"

"मुझे वह सुहाती नहीं थी।"

"कोई मरण हुआ था ?"

"नहीं।"

"वह तुम्हें पहले मारने आई थी ?"

"नहीं।"

"तुमपर किसी तरहका जुल्म किया था ?"

"नहीं।"

इस तरहका जवाब सुनकर सब दंग रह गये।

छदमी एकदम घबरा गया, बोला, "यह ठीक नहीं कह रही है। पहले बड़ी वहूं..."

दारोगाने वडे जोरसे डाटकर उसे चुप कर दिया। अन्त तक वार-चार नियमानुसार जिरह करनेपर भी, वही एक ही तरहका जवाब मिला। वडी वहूंकी तरफसे किसी तरहका हमला होना चन्दाने किसी भी तरह मंजूर नहीं किया तो नहीं ही किया।

ऐसी अपनी जिद्की पक्की औरत शायद ही कहीं देखनेमें आती हो । एक रुखसे जी-जानसे कोशिश करके फाँसीके तख्लेकी तरफ मुक्की जा रही है । किसी भी तरह रोके नहीं सकती ! यह कैसा खतरनाक हृत्ता है ! चन्दा शायद भन-ही-भन कह रही थी कि 'मैं तुम्हें छोड़कर अपने इस नववौवनको लेकर फाँसीके तख्लेपर चढ़ जाऊँगी, फाँसीकी रस्तीको गले लगाऊँगी, - मेरे इस जन्मका आखिरी बन्धन उसीके साथ है ।'

बन्दिनी होकर चन्दा, एक जोलो-भाली छोटी-सी चबूल कौतूहल-प्रिय ग्राम्य-चंदू, चिरपरिचित गाँवके रास्तेसे, जगज्ञायर्जीके मन्दिरके सामनेसे, दीच वाजारसे, घाटके किनारेसे, मजुमदारोंके घरके सामनेसे, डाकखाना और स्कूलके बगलसे, सभी परिचित लोगोंकी आँखोंके सामनेसे कलङ्ककी द्वाप देकर हनेशांके लिए घर छोड़कर चली गई । लड़कोंका एक झुग्ग पीछे-पीछे चला जा रहा था, और गाँवकी औरतें, उसकी सखी-सहेलियाँ, कोइ धूधटकी संधर्मेसे, कोइ दरवाजेके बगलसे और कोइ पेड़की ओटमें खड़ी होकर सिपाहियोंसे पिरां चन्दाको जाती देख लजासे घृणासे डरसे रोमायित हो दठों ।

डिप्टी-मजिस्ट्रेटके सामने भी चन्दा ने अपना हाँ चम्पूर कवूल किया । और दुर्घटनासे पहले वड़ी वहूने उसपर किसी तरहकी ज्यादती या हुन्म किया था यह बात उसके मुँहसे किसी भी तरह निकली ही नहीं ।

पर छदामी उस दिन गवाहीके कठघरेमें पहुँचते ही रो दिवा, और दाय जोड़कर बोला, "दुहाई है, हजूर, मेरी वहूका कोई कम्पूर नहीं ।"

हाकिमने धमकाकर उसके उच्छ्रवासको रोककर उससे सबाल करना शुरू कर दिया । उसने एक-एक करके सारी-की-सारी कर्त्ता चारदान छठ मुनाई ।

किन्तु हाकिमने उसकी बातपर विश्वास नहीं किया । बारप, मुख्य विश्वस्त और शरीक गवाह रामलोदनने कहा, "मूर दोनेके थोड़ी देर दाद में घटनास्थलपर पहुँचा था । गवाह छदामीने मेरे सामने सब कम्पूर बरके मेरे पैरोंपर गिरकर कहा था कि 'दूहको किस तरह दचाक्का कोई रखता दत्तज्ञ है ।' मैंने भला-हुरा छुट भी नहीं कहा । गवाहने मुझसे कहा कि 'मैं अगर दूह

कि मेरे वडे भाईने खानेको मांगा था सो उसने दिया नहीं, इसपर गुस्सेमें आकर भाईने स्त्रीको मार डाला, तो यह वच जायगी ?' मैंने कहा, 'खबरदार, हरामजादे, अदालतमें एक ह्रफ़ भी मूठ न बोलना, इससे बढ़कर महापाप और नहीं है।' इत्यादि इत्यादि ।

‘रामलोचनने पहले चन्द्राको बचानेके किए बहुत-सी बातें गढ़ डाली थीं, किन्तु जंब देखा कि चन्द्रा खुद ही अड़कर फँस रही है, तब सोचा कि ‘अरे धाप रे, अन्तमें कहों मुझे ही मूठी गवाहीके जुलमें न पड़ना पड़े !’ इससे जितना जानता हूँ उतना ही कहना अच्छा ।’ यह सोचकर उन्होंने उतना ही कहा, बल्कि उससे भी कुछ ज्यादा कहनेमें कसर न रखी ।

‘डिप्टी-मजिस्ट्रेटने मामला सेशन सुपुर्द कर दिया ।

इस बीचमें खेती-वारी, हाट-वाजार, रोना-हँसना आदि संसारके सभी काम चलने लगे । पहलेकी तरह फिर हरे धानके खेतोंमें सावनकी वर्षाधारा मरने लगी ।

पुलिस मुलजिम और गवाहोंको लेकर सेशन-जजकी अदालतमें हाजिर हुई । इजलासमें बहुतसे लोग अपने-अपने मुकदमेकी देशीकी इन्तजारीमें बैठे हैं । रसोइ-घरके पीछेकी एक क्लोटी-सी गन्दी तलैयाके कुछ हिस्सेको लेकर एक मामला चल रहा है, जिसकी पैरखीके लिए कलकत्तेसे बकील बुलाये गये हैं, और फरियादीकी तरफसे उनचालीस गवाह हाजिर हुए हैं । सब अपने-अपने हक-हिसाबका कोड़ी-कड़ी रत्ती-रत्ती बालकी खाल निकालनेवाला फैसला करानेके लिए व्याकुल होकर दौड़े आये हैं,— उनकी धारणा है कि फिलहाल उनके लिए इससे बढ़कर संसारमें और-कोई जरूरी काम नहीं है ।

छढ़ामी खिड़कीमेंसे रोजमर्राको इस अत्यन्त आकुल-व्याकुल दुनियाकी तरफ एकटक देख रहा है, सब-कुछ उसे सपना-सा मालूम होता है । अदालत के अहातेके भीतरके वटवृक्षपरसे एक कोयल बोल रही है,— उनके यहाँ किसी तरहका आईन-कानून और अदालत नहीं है ।

चन्द्रने जजके सामने मुँकलाकर कहा, “अरे हुजूर साहब, अब एक ही बातको बार-बार कितनी बार बताऊँ ?”

जजने उसे समझाकर कहा, “तुम जिस कस्तूरको मंजूर कर रही हो उसकी सजा क्या है, जानती हो ?”

चन्द्राने कहा, “नहीं !”

जजने कहा, “उसकी सजा है फाँसी, नौत !”

चन्द्राने कहा, “हजूर साहब, मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ,- मुझे तुम कहीं सजा दे दो,- मुझसे अब सहा नहीं जाता !”

जब छदामीको यादालतमें पेश किया गया, तो चन्द्राने उसकी तरफ से मुँह केर लिया ।

जजने कहा, “गवाहकी तरफ देखकर बताओ, यह तुम्हारा कौन लगता है ?”

चन्द्राने दोनों हाथसे अपना मुँह ढक्कर कहा, “यह मेरा मालिक लगता है !”

जजने पूछा, “तुम्हें यह चाहता है ?”

चन्द्राने जवाब दिया, “उझू ! बहुत ज्यादा चाहता है कि ।”

जजने पूछा, “तुम इसे नहीं चाहतों ?”

चन्द्राने जवाब दिया, “बहुत ही ज्यादा चाहती हूँ कि ।”

छदामीसे जब पूछा गया, तो उसने कहा, “मैंने खून किया है ।”

जजने पूछा, “क्यों ?”

छदामीने कहा, “खानेको माँगा था, जो उसने दिया नहीं ।”

दुश्खी गवाहो देने आया तो वह मूर्छित हो गया । होश आनेपर उसने जवाब दिया, “हजूर साहब, खून मैंने किया है ।”

“क्यों ?”

“खानेको माँगा था, जो उसने दिया नहीं था ।”

बहुत जिरह करके तथा और-और गवाहोंका बयान सुनकर जज नाटकने नाफ-साक समझ लिया कि घरकी वहाँको फैसांकी बैद्युक्तीसे धर्याने ही था। दोनों भाई कस्तूर भजूर कर रहे हैं ।

किन्तु चन्द्रा भानेने लेकर सेशन-अदालत तक दरादर ऐसी पात फर्की आ रही है, उसकी धातमें जरा भी कहीं फर्क नहीं पड़ा ।

दो वकीलोंने स्वतःप्रवृत्त होकर उसे फाँसीसे बचानेके लिए बहुत-कुछ कोशिश की, लेकिन अन्तमें उन्हें हार माननी पड़ी ।

जिस दिन जरा-सी उमरमें एक काली-काली छोटी-मोटी लड़की अपना गोल-मटोल मुंह लिये, गुड़ा-गुड़िया फेंककर, अपना वाप-महतारीका घर छोड़कर सुसराल आई थी, उस दिन रातको शुभ-लम्फ के समय आजके इस दिनकी कौन कथना कर सकता था ? उसका वाप मरते समय यह कहकर निश्चिन्त हुआ था कि ‘खैर, कुल भी हो, मेरी लड़की तो ठीक-ठिकाने लग गई ।’

जेझखानेमें फाँसीके पहले मेहरान सिविल-सर्जन साहबने चन्द्रसे पूछा, “किसीको देखनेकी मनमें है ?”

चन्द्रने कहा, “एक बार अपनी माको देखना चाहती हूँ ।”

डाक्टरने कहा, “तुम्हारा मालिक तुम्हें देखना चाहता है, उसे बुलवा लिया जाय ?”

चन्द्र बोली, “हुँह्, मौत भी न आई ।”

## संस्कार

चित्रगुप्त ऐसे बहुतेरे पापोंका हिचाब बड़े-बड़े दृश्योंमें अपने खातेमें लिख रखते हैं, खुद पापियोंको जिनका पता तक नहीं रहता। इसी नरह, दुनियामें ऐसे पाप भी हुआ करते हैं जिन्हें सिर्फ में ही पाप समझता हूँ, और कोई नहीं। आज जो वात में कहना चाहता हूँ वह इसी तरहकी है। चित्रगुप्तके सामने जवाबदेही करनेके पहले ही अगर उसे कबूल कर लिया जाय, तो मैं समझता हूँ, कसूरका बोझ कुछ हल्का हो जायगा।

शनिवार, कार्तिक-पूर्णिमाका दिन था। हमारे मुहूर्तमें वाम संक्षेपे कोई भारी जुलूस निकल रहा था। मैं अपनी स्त्री कलिकाके साथ मोटरमें बैठकर अपने नित्र नयनमोहनके घर जा रहा था,—चांयका न्योता था वर्दा।

मेरी स्त्रीका 'कलिका' नाम सत्तुर साहबका दिया-हुआ है, उसके लिए मैं जुम्मेदार नहीं। नामके योग्य उसका स्वभाव नहीं था। कली अपना नव-कुछ छिपाये रहती है, किन्तु उसका मतामन बिल्कुल स्ट था। बड़ेयाजारमें विलायती कपड़ेके खिलाक जब वह पिकेटिंग करने गई थी तद नाधियोंने भक्ति में आकर उसका नाम रखा था 'श्रुवत्ता'। मेरा नाम है गिरीन्द्र। उसके दलवाले सब मुझे मेरी पत्नीके पतिके रूपमें ही जानते थे, मेरे अपने नामकी नार्थकतापर उनका जरा भी ध्यान नहीं था। विधानांकी छासे दाप-दाढ़ोंकी कमाईकी बदौलत मेरी भी धोड़ी-शहुत नार्थकता थी; और उसपर लोगोंकी नजर पड़नी थी सिर्फ चन्दा लेते बक्क।

स्त्रीके साथ पतिके स्वभावका भेल न होनेसे शायद भेल बच्चा होता है, सूखी निट्टीके साथ पार्नीके भेलकी तरह। मेरी प्रहृति बहुत ही ठीक-ठारी है, कोई भी वात दो, मैं उसे ज्यादा जोरसे नहीं पकड़ रखता। मेरी गंडी प्रहृति बहुत ही कड़ी थी, जिस वातको पकड़ लेना उसे हरगिज नहीं होता। मेरी तो यह पक्की राय है कि हमारी पर-गृहस्थीयों जो बदन लादन रहा था उस दोनोंके इस बैप्प्लकी बदौलत ही है।

सिर्फ एक जगह हम दोनोंमें जो विरोध रह गया था वह आखिर दम तक नहीं मिटा। कलिकाली धारणा थी कि मैं अपने देशको प्यार नहीं करता। अपनी धारणापर उसका अटल विश्वास था; और यही बजह है कि अपने देश-प्रेमका मैं ज्यों-ज्यों सबूत देता गया त्यों-त्यों उसके कहे-हुए बाहरी लक्षणोंके साथ भेल न बैठनेसे वह मेरे देश-प्रेमपर सन्देह ही करती गई।

बचपन ही से मैं किताबोंका कीड़ा रहा हूं। कोई नई किताब निकली नहीं कि मैं तुरत खरीद लाता। मेरे दुझमन भी इस बातको कबूल किये वगैर न रहेंगे कि मैं उन्हें पढ़ता भी हूं। और, मित्र तो अच्छी तरह जानते हैं कि पढ़नेके बाद उनके विषयमें चरचा और तर्क-वितर्क किये वगैर मेरा खाना हजम नहीं होता। यहीं तक कि मेरे इस तर्क-वितर्ककी चोटसे बचनेके लिए, बहुतसे मित्रोंने मेरा साथ छोड़ दिया है; और अब तो उनमेंसे सिर्फ एक ही ऐसा बचा है जिसने हार नहीं मानी। बनविहारीको लेकर इत्यावरके दिन अब भी दरखार जमा करता है। मैंने उसका नाम रखा है 'कोनविहारी'।

किसी-किसी दिन हम दोनों छ़तके एक कोनेमें बैठकर बातचीतमें इतने गरक हो जाते कि रातके दो-दो बज जाते। जिन दिनों हम उस नशेमें चूर थे वे दिन हमारे लिए सुदिन नहीं थे। जमाना ऐसा था कि अगर पुलिस किसीके घर 'गीता' देख लेती, तो उसे वह राजद्रोहका सबूत सावित करनेमें देर नहीं लगती। उस जमानेके देशभक्त ऐसे थे कि किसीके घर अगर विलायती किताबका कोई फटा-हुआ पता भी पाते, तो वे उसके मालिकको देशद्रोही समझ लेते। मुझे तो वे काले रंगका पलस्तरदार 'इवेत द्वैपायन' मानते थे। मेरी बातको कोई अत्युक्ति न समझे तो मैं कहूंगा कि सरस्वतीका रंग सफेद होनेके कारण उन दिनोंके देश-भक्तोंने उनकी पूजा करना छोड़ दिया था, और ऐसी एक विचार-धारा चल पड़ी थी कि लोग समझते थे, जिस सरोवरमें उनका सफेद कमल खिलता है उसके पानीसे देशकी तकदीरको जलानेवाली आग बुझती नहीं, बल्कि और धघक उठती है।

सहधर्मिणीकी तरफसे सद्दृष्टान्त और लगातार ताकीदोंके बाबजूद मैंने खादी नहीं पहनी। इसकी बजह यह नहीं कि खादीमें कोई दोष है या गुण

नहीं है, या मैं पहनने-ओढ़नेमें वहुत शौकीन हूँ। बिल्कुल उलटी बात थी, स्वदेशी चाल-चलनेके खिलाफ वहुतसे कस्तूर मैंने किये होंगे, पर सफाई उनमें शामिल नहीं। मैली मोटी पोशाक और टीलाहाला रहन-सहन मेरी आदतमें शुभार है। कलिकाजी भाव-धारामें स्वदेश-प्रेमकी बाढ़ आनेके पहले मैं चौड़े पंखेके मामूली जूते पहना करता था, और उनपर रोज-रोज कलिमा पोतना भूल जाता ; मोजे पहननेको आफन समझता, कमीज-कोट न पहनकर नानूली खुरता। पहननेमें आराम पाता, और उसके दो-एक घटन कम रहते नो उनका खयाल न करता। ये सब बातें इमारी-तुम्हारी-दृष्टिमें नानूली भले ही हों, पर, परमात्मा भूठ न छुलाये, मुझे अपने दाम्पत्य-जीवनमें चिर-विच्छेद-दौनेकी आशंका होने लगती थी। कलिका जवहै-तब यही कहा करता, “ऐसो, तुम्हारे साथ कहों बाहर जानेमें मुझे बड़ी शरम मालूम होती है।” मैं कहना, “मेरी अनुगामिनी बननेकी जहरत नहीं, मुझे क्षोड़कर तुम जटी-जी-चाहे जा सकती हो।”

आज जमाना बदल गया है, किन्तु मेरी किस्मत नहीं बदली। आज भी कलिका वही बात कहती है, ‘तुम्हारे साथ बाहर जानेमें मुझे यही शरम मालूम होती है।’ कलिका पहले जिस दलमें शामिल हुई थी उनकी बद्दों मैंने नहीं पहनी, और आज जिस दलमें शरीक है उनकी बद्दी नी मुझसे नहीं अपनाई गई। मेरे बारेमें मेरी क्षीकी शरम ज्योंकी त्यों बनी ही रही। इस मेरे ही स्वभावका दोष समझना चाहिए। चाहे किसी भी दृश्य हो, भूमधारण करनेमें मुझे संकोच होता है। उस संकोचको मैं किसी भी नरद ठोड़ा न सका। और उधर, कलिका भी आपसका भनभेद खत्म करके मेरे रटन-सहनको बरदाश्न न कर सकी। भरनाकी धारा जैसे पूर-फिरफर मेंटे फलारपर धार-धार घोट करके उसे ढकेलनेकी व्यर्थ कोशिश करती रहती है उसी गरट फलिकासे भी निज-रुचिवालोंपर चलते-फिरते दिन-रात घोट पूँछाने धूर नहीं रहा जाता। ‘बलग रत्व’ नामकी चीजका स्वर्दा लगते ही नानों दमनी रगोंमें सुखुरी-सी उठ खड़ी होती और उससे घर देवेन दो जानी।

कल चायके निमंत्रणमें जानेके पहले मेरी खादी-हीन पोशाकपर कलिकाने कमसे कम एक हजार एक वार आपत्ति की होगी, और तारीफ यह कि उसमें मिठासका लेशमात्र नहीं । जरा-कुछ बुद्धिका अभिमान होनेसे मैं भी उसकी डाट-फटकारको बिना तर्कके शिरोधार्य न कर सका । आश्र्वय है, स्वभावकी प्रेरणा आदमीको कैसी-कैसी फजूलकी कोशिशोंमें उत्साहित किया करती है । मुझसे भी एक हजार एक वार जबाब दिये वगैर न रहा गया, मैं भी बराबर चुटकियाँ ले-लेकर कलिकाको जबाब देता गया, ‘औरतें विधाताकी दी-हुई आँखोंपर काली किनारीकी साढ़ीका सोटा घृष्ण खींचकर आचारके साथ आँचलका गठबन्धन करके चला करती हैं ।’ ‘मननकी अपेक्षा माननेमें ही उन्हें ज्यादा आराम मिलता है ।’ ‘जिन्दगीके सभी चलन-व्योहारोंको जब तक वे रुचि और बुद्धिके स्वाधीन क्षेत्रसे धसीटकर संस्कारके जनानखानेमें ले जाकर परदानशीन नहीं बना डालतीं तब तक उन्हें चैन नहीं पड़ता ।’ ‘आचार-विचारोंसे जर्जरित हमारे इस देशमें खादी पहनना माला-तिलकधारी धार्मिकताकी तरह ही एक संस्कार-सा बन गया है, इसीसे औरतोंको उससे इतनी खुशी होती है ।’ इत्यादि इत्यादि ।

देवी कलिका मारे गुस्सेके तमतमा उठी । उसकी आवाज उनकर बगलवाले भकानकी नौकरानी तक समझ गई कि खीको इच्छानुसार पूरे बजन के गहने गढ़ा देनेमें पतिने जहर धोखा दिया होगा ।

कलिकाने कहा, ‘देखो, खादी पहननेकी पवित्रता जिस दिन गंगा-स्नानकी तरह देशके लोगोंके हृदयमें संस्कार बनकर बैठ जायगी उसी दिन देश जी सकता है । विचार जब स्वभावके साथ घुल-मिलकर एक हो जाते हैं तब वे आचार बन जाते हैं । विचार जब आचारमें दृढ़ताका रूप धारण कर लेते हैं तभी उन्हें संस्कार कहा जाता है,— तब फिर आदमी आँख मीचकर काम करता है । तुम्हारी तरह आँख खोलकर दुविधामें ढाँवाढोल नहीं होता रहता ।’ ये शब्द अध्यापक नयनमोहनके कहे-हुए आप-वाक्य हैं । इनसे उद्घृतिके चिह्न सिर्फ धिस गये हैं । और कलिकादेवी समझती हैं कि ये उनके निजी विचार हैं ।

जिस महापुरुषने यह छहावत चलाई थी कि 'मूर्गेके दुस्मन नहीं होते' वे चहर अविवाहित थे। मैंने कुछ ज्ञाव नहीं दिया तो कलिङ्ग पहलेसे इती नमककर बोली, "वर्ण-भेदको तुम सिर्फ़ मुंहसे ही नहीं नानते, बरना, कमलमें तो कभी लाते नहीं देखा ! हमलोगोंने खारी पहनकर उस भेदभावपर लहंड चफेद रंग चढ़ा दिया है, आवरण-भेदको दिटाकर वर्ण-भेदकी खाल उद्देश दी है।"

मैं कहना ही चाहता था कि 'भुंहसे वर्णभेदको तो मैं तभीसे नहीं नानता जबसे मुचलमानके हाथका बना मुरगीका शोरवा नानने लगा हूँ। और वह मेरा कण्ठस्थ बाक्य नहीं बल्कि कंठस्थ कार्य है, जिसकी गति भीतरकी ओर है। किन्तु तुम्हारा जो वर्ण-भेदका ढकना है वह तो बाहरी चीज़ है, उससे ढका ही जा सकता है, धो-पोंछकर भिटाया नहीं जा सकता।' पर कहनेकी मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। मैं कामर पुरुष दृढ़ा, तृप रह गया। क्योंकि मैं जानता हूँ, आपसमें हम जिन वृक्षियोंके दलपर बहुत छेड़ते हैं, कलिङ्ग दर्शने अपने भिन्नोंके घर से जाकर धोर्वांके परके कपड़ोंकी तरह भट्टी चढ़ाकर पठाए-पढ़ाइकर साफ कर लाती है। भारतीय दर्घनके आदापक नयनमोहनके वहाँसे प्रतिवाद लाकर वह मुझे लुनाती है और अपनी चमकती-हुरे अंखोंकी नीरब भाषामें मुझे कहती रहती है, "क्यों, अब भार्द अकल ठिकाने !"

नयनमोहनके घर जानेकी मेरी जरा भी दृश्या नहीं थी। मैं निदित्त जानता था कि वहाँ आदकी टेलिलपर गरम चादके धुर्जर्दी तरह ही इन विषदर्की सूख चर्चा छिड़े बगैर न रहेगी कि 'इन्हें लगतिमें तंसकार और म्वार्दीन-म्वार्दी, आचार और विचारका आपेक्षिक स्थान क्या है, और इस आपेक्षितामें हमारे देशको और - सब देशोंसे उक्त स्थान क्यों दिया है', - और इसमें यहाँसा बातावरण गतिग क्षीर धुर्खला हो जायगा। इस तुलदरी जिन्हेंसे इसोंभिन्न अखण्डित पश्चकी नवीना पुस्तकें दात ही दुकानसे आकर मेरे नवियांदे दाम प्रकीर्ता कर रही थीं, अभी सिर्फ़ दुमदाढ़ी ही हुरे हैं, - उनके प्राइवेट-पर्सोनल-पूँपट-पट अभी नहीं रुहे, उनके कम्बन्यमें मेरा पूर्वराग रुद्धके भीतर राज-क्षणमें प्रदल देना जा रहा था। फिर नींसीके नाम बातर लाता पड़ा।

कारण श्रुतव्रताका इच्छावेग टकरा जानेसे वह उसके बावज्य और अवाक्यमें ऐसा तूफानी भँवर बन जाता है कि जिसका चक्कर मेरे लिए किसी भी तरह स्वास्थ्यप्रद नहीं रहता ।

धरसे निकलकर गली पार करके मोटर बड़ी सड़कपर पहुँच भी न पाई कि देखा, सामने हलवाईकी दुकानके आगे भीड़ जमा है और शोर हो रहा है । हमारे पड़ोसके मारवाड़ी तरह-तरहकी कीमती पोशाक पहनकर जुलूसमें शामिल होने जा रहे थे । मेरी गाड़ी सामने भीड़ देखकर रुक गई । मुना कि लोग 'मारो' 'मारो' चिल्ला रहे हैं । मैंने समझा कि कोई पाकेटमार-पकड़ा गया होगा ।

मोटर अपना भाँपू बजाती-हुई धीरे-धीरे आगे बढ़कर उस उत्तेजित जनताके पास पहुँची तो देखा कि लोग हमारे मुहल्लेके बूढ़े सरकारी मेहतरको पीट रहे हैं । वह गलीके सरकारी नलसे बालटी भरकर फाडू बगलमें दबाये जा रहा था, किसीसे छू गया है । साथ था उसका आठ सालका नाती । नाती रो रहा है और अपने बाबाको छोड़ देनेके लिए निहोरे कर रहा है । दोनों ही साफ-सुथरे कपड़े पहने थे, और देखनेमें तनदुरुस्त मालूम होते थे । बूढ़ा कहे रहा था, "गलती हो गई, हजूर माफ कर दीजिये ।" किन्तु इससे अहिंसात्री पुण्यार्थियोंका गुस्सा घटनेके बजाय और-भी ज्यादा बढ़ता जाता था । बूढ़ेकी आँखोंसे दरदर आँसू बह रहे थे, और ठोड़ीसे टपटप खून ।

मुझसे सहा नहीं गया । उनके साथ झगड़नेके लिए उतरना मेरे लिए सम्भव न था । मैंने तय किया कि बूढ़े मेहतर और उसके नातीको अपनी मोटरमें बिठाकर दूर ले जाकर छोड़ दूँ और अपनी सहधर्मिणीको दिखा दूँ कि मैं उसके तथाकथित धर्मात्माओंके दलमें नहीं हूँ । मेरी चब्बलता देखकर कलिका मेरे मनकी बात शायद समझ गई । उसने कसके मेरा हाथ पकड़ लिया, और बोली, "तुम कर क्या रहे हो,— मेहतर है !"

मैंने कहा, "होने दो मेहतर, इससे क्या लोग उसे मारेंगे ?"

कलिकाने कहा, "कसूर तो उसीका है, बीच रास्तेसे चलता क्यों है ? एक किनारेसे बचके नहीं जाया जाता उससे ?"

मैंने कहा, “सो मैं नहीं जानता। उसे मैं गाड़ीमें बिठाके ले चलूँगा।”

कलिकाने कहा, “तो मैं यहाँ गाड़ीसे उतरी जाती हूँ। मेहतरखो तुम गाड़ीमें नहीं चढ़ा सकते। चमार-कोरी होता तो वात भी थी, आखिर मेहतर है!”

मैंने कहा, “होने दो मेहतर, देखती नहीं, साफ-चुथरे कपड़े पहने हैं, नहा-धो चुका है, इनमेंसे बहुतोंसे ज्यादा साफ-चुथरा है।”

“इससे क्या हुआ, है तो मेहतर ही!” – इतना कहकर उसने दूँझरको हुक्म दिया, “भंगादीन, ले चलो गाड़ी।”

मेरी हार हुई। कायर हूँ मैं।

उस दिन नयनमोहनने अपनी गम्भीर युक्तियोंसे अपेक्षावादकी बाल्की खाल निकालकर रख दी, किन्तु उनमेंसे एक भी वात मेरे कानों तक नहीं पहुँची, और न मैंने उनका कोई जवाब ही दिया।

---

# व्यवधान

१

नातेकी दृष्टिसे देखा जाय तो वनमाली और हिमांशुमाली दोनों भग्ने कुफेरे भाई हैं, सो भी वहुतं हिसाब लगानेपर। किन्तु इन दोनोंका कुटुम्ब वहुत दिनोंसे पड़ोसी रहा है। बीचमें सिर्फ एक वगीचेका फासला है, और इसीलिए इनका नाता नजदीकका न होनेपर भी मेलजोल और घनिष्ठता काफी है। वनमाली हिमांशुसे बड़ा है। हिमांशुके जब दाँत नहीं निकले थे और वह बोल भी नहीं सकता था, तब वनमालीने उसे गोदमें लेकर इसी वगीचेमें सुबह-शाम हवा खिलाई है, खेल सिखाया है, रोना बन्द कराया है, थपकियां देकर भीठी नींद सुलाया है; और बच्चोंको बहलानेके लिए परिणत-बुद्धि प्रौढ़ व्यक्तियोंको जोरसे सिर हिलाना और अंठसंट बोलना आदि जो-भी-कुछ उमर के चिरुद्ध चंचलता और जोरका उदयम करना पड़ता है उसमें भी वनमालीने कोई बात उठा नहीं रखी।

वनमाली ज्यादा पढ़ा-लिखा नहीं है। उसे शुरूसे ही वगीचेका शौक था, और था इस दूरके नातेके छोटे भाईपर प्रेम और मोह। वह उसे एक दुर्लभ और कीमती लताकी तरह अपने हृदयका स्नेह सौंचकर पाल रहा था। और जब वह लता उसके सम्पूर्ण अन्तर-वाहरको ढककर खूब फलने-फूलने लगी तब वनमाली अपनेको धन्य समझने लगा।

आम तौरपर ऐसा देखनेमें नहीं आता। किन्तु कोई-कोई स्वभाव ऐसा होता है जो एक छोटीसी कल्पना या एक छोटेसे बच्चे या किसी अकृतज्ञ मित्रके लिए बड़ी आसानीसे अपनेको सम्पूर्णतः विसर्जन कर देता है, और इस विशाल पृथ्वीपर सिर्फ एक छोटेसे स्नेहके कारोबारमें वह अपने जीवनका सारा मूलधन लगाकर निश्चिन्त हो जाता है। फिर, या तो वह जरासे मुनाफेपर परम सन्तोषके साथ जीवन विता देता है, या सहसा किसी दिन प्रभातमें अपना घर-द्वार सब-कुछ बेचकर राहका भिखारी हो जाता है।

हिमांशुकी उमर जब थोड़ी बड़ गई तब, टम और नातेका काफी तारतम्य होनेपर भी, वनमालीका उसके साथ मानो मित्रताका वन्धन कायम हो गया। दोनोंमें मानो छोटे-वडेका कोई भेद ही न रहा।

ऐसा होनेका एक कारण भी था। हिमांशु पढ़ता-लिखता था और उसकी ज्ञान-पिपासा स्वभावतः बहुत तेज थी। पुस्तकेपासे ही वह पढ़ने बैठ जाता। इससे फालतू पुस्तकें भी बहुत पड़ी गईं। फिर भी, चाहे जैसे भी हो, चारों तरफसे उसके मनने एक पूर्णता प्राप्त कर ली थी। वनमाली विशेष अद्वाके साथ उसकी बात चुनता, उससे सलाह लेता, उसके साथ छोटी-बड़ी सब बातोंकी चर्चा करता, किसी भी विषयमें बालक समझकर कभी उसकी अवज्ञा न करता। हृदयके प्रवस स्तेह-रससे जिसे पाल-पोसकर आदमी बनाया गया हो, उमर पाकर वही अनार अपनी बुद्धि ज्ञान और उक्त स्वभावके कारण अद्वाका अधिकारी बन जाय, तो उसके समान ऐसी परम प्रिय वस्तु संसारमें शायद ही कोई हो।

वगीचेका शौक हिमांशुको भी था। किन्तु इस विषयमें दोनों मित्रोंमें कुछ भेद था। वनमालीको था हृदयका शौक और हिमांशुको बुद्धिका। जमीनके ये कोमल पौधे और लताएँ, यह अचेतन जीवन-राशि, जो आदर-जतनकी जरा भी लालसा नहो रखती और साथ ही जतन पानेपर घरके बाल-बच्चोंकी तरह बड़ती रहती है, और जो आदमीके बाल-बच्चोंसे भी बढ़कर बढ़ते हैं, उनको जतनसे पाल-पोसकर बड़ा करनेके लिए वनमालीमें एक स्वामानिक प्रवृत्ति थी। किन्तु हिमांशुमें पेड़-पौधोंके प्रति एक कुत्तहल-दृष्टि थी। अंकुर निकल आये, कुर्से फूटने लगे, और लग गये, फूल खिलने लगे, इन सब बातोंमें उसका खूब भन लगता था।

बीज बोने, कलम लगाने, खाद देने, नचान बीधने आदिके विषयमें हिमांशुको नड़े-नड़े बातें सूझतीं और वनमाली उन्हें बड़े आनन्दके साथ चुनता। इन बगीचेके लिए आकृति-प्रकृतिके जितने प्रकारके भी संयोग-वियोग सम्बन्ध हो सकते हैं, दोनों मिलकर सब करते।

दरवाजेके सामने बगीचेके बीचमें एक पक्की देढ़ी-सी बर्ती थी। चार-

घजते ही वनमाली एक महीन कुरता पहनकर चुना-हुआ दुपट्टा कँधेपर डालकर हाथमें नलीदार हुक्का लिये वहीं छायामें जाकर बैठ जाता। कोई मित्र भी पास नहीं और न हाथमें कोई पुस्तक या अखबार। बैठा-बैठा हुक्का पीता और तिरछी निगाहसे उदासीन-भावसे कभी दायें और कभी वायें देखा करता। इस प्रकार उसका समय हुक्केके धुएँकी तरह धीरे-धीरे बहुत ही हल्का होकर उड़ जाता, शूल्यमें बिला जाता, कहीं भी उसका कोई चिह्न तक न रह जाता।

अन्तमें जब हिमांशु स्कूलसे लौटकर कलेवा करके हाथ-मुँह धोकर बगीचेमें दिखाई देता, तब वह मटपट हुक्केकी नली छोड़कर उठ बैठता। तब उसके आग्रहको देखकर सहज ही समझमें आ जाता कि अब तक वह किसके लिए बैठा-बैठा धीरजके साथ इन्तजार कर रहा था।

उसके बाद दोनों जने बगीचेमें बातें करते-हुए ठहलते। अँधेरा हो आनेपर दोनों बेच्चपर बैठ जाते, दक्षिणकी हवा पेड़के पत्तोंको हिलाती-हुई वही चली जाती, किसी-किसी दिन हवा चलती भी नहीं थी; पेड़-पौधे तसवीरकी तरह निश्चल खड़े रहते, सिरपर आकाश-भरमें तारे चमकते रहते।

हिमांशु बातें करता, वनमाली चुपचाप सुनता रहता। जो बात समझमें न आती वह भी उसे अच्छी लगती। जो बातें और-किसीके मुँहसे बहुत दुरी और रुखी मालूम दे सकती थीं वे ही बातें हिमांशुके मुँहसे उसे अच्छी लगतीं। ऐसे श्रद्धावान् प्रौढ़ श्रोताके मिल जानेसे हिमांशुकी भाषण-शक्ति स्मृति-शक्ति और कल्पना-शक्तिको विशेष लाभ होता। वह कुछ पढ़कर कहता, कुछ सोचकर कहता और कुछ उपस्थित-दुद्धिमें जो आता सो कह डालता, और कभी-कभी कल्पनाकी सहायतासे अपने ज्ञानकी कमीको ढक भी लेता। बहुत-सी ठीक बातें कहता, बहुत-सी गलत भी कह डालता, किन्तु वनमाली सबको गम्भीरतासे सुनता। बीच-बीचमें दो-एक बात वह भी कहता, किन्तु हिमांशु उसकी बात काटकर जो उसे समझा देता उसीको वह ठीक समझ लेता, और उसके दूसरे दिन छायामें बैठकर हुक्का पीता-हुआ उन घातोंको बहुत देर तक आदर्शर्यके साथ सोचता रहता।

## २

इतनेमें एक खेड़ा उठ खड़ा हुआ। वनमाली और हिमांशुके मकानके बीचमें एक पानीका नाला था। उस नालेमें एक जगह एक नीबूका पेड़ पैदा हो गया। उस पेड़पर जब फल लगते हैं तो वनमालीका नौकर उन्हें तोड़नेकी कोशिश करता है और हिमांशुका नौकर उसे रोकता है, और इस बारेमें दोनों ओरसे गाली-गलौजकी जो वर्षा होने लगती है उस वर्षमें अगर जरा भी तत्त्व होता तो शायद तमाम नाला भर जाता।

नतीजा यह हुआ कि वनमालीके पिता हरचन्द और हिमांशुके पिता गोकुलचन्दमें इसी बातको लेकर तकरार हो गई। दोनों फरीक नालेके अधिकारका निर्णय करानेके लिए अदालत पहुंचे।

बकील-बैरिस्टरोंमें जितने भी महारथी थे, सभीने दोनोंमेंसे किसी-न-किसी का पक्ष लेकर बाक्युद्ध शुरू कर दिया। दोनों ओरसे इतने स्पसे स्वर्च हुए कि सावन-भादोंकी वर्षमें उस नालेमेंसे उतना पानी भी शायद कभी न बहा होगा।

अन्तमें हरचन्दकी जीत हुई। सावित हो गया कि 'नाला हरचन्दका ही है, और नीबूके पेड़पर किसीका भी हक नहीं।' अपील हुई। किन्तु नाला और नीबूका पेड़ हरचन्दका ही रह गया।

जितने दिन सुकदमा चलता रहा, दोनों भाइयोंकी भित्रतामें कोई फर्क न आया। इस आशङ्कासे कि कहों भगड़ेकी ढाया उन्हें छू न ले, वनमाली दूनी घनिष्ठतासे हिमांशुको अपने हृदयके पास वाँध रखनेकी कोशिश करने लगा, और हिमांशुने भी जरा भी विमुखता नहीं दिखाई।

जिस दिन अदालतसे हरचन्दकी जीत हुई, उस दिन घरमें, खासकर अन्तःपुरमें, खुशियाँ भनाई जाने लगीं, सिर्फ वनमालीकी आँखोंमें नौंद नद्दी रही। उसके दूसरे दिन करीब चार बजे वह उदास चेहरा लिये बगीचेकी उत्तर बेदीपर ऐसे जा वैठा जैसे दुनियानें और-किर्दाके भी कुछ नहीं हुआ, सिर्फ उसीकी बड़ी-भारी हार हुई है।

उस दिन, सूरज ढूब गया, छै बज गये, परन्तु हिमांशु नहीं आया। वनमालीने एक गंहरी उसीस लो और हिमांशुके मकानकी ओर देखा। खुले जंगलमेंसे देखा कि अलगनीपर हिमांशुके स्कूलके कपड़े लटक रहे हैं, बहुतसे चिरपरिचित लक्षणोंसे जान लिया कि हिमांशु घर ही में है। हुक्केकी नली फेंककर वह उदास मुँह लिये टहलने लगा, और हजार बार उसी जंगलेकी तरफ देखा किया। पर हिमांशु वगीचेमें नहीं आया।

शामकी बत्ती जलनेपर वनमाली धीरे-धीरे हिमांशुके घर गया।

गोकुलचन्द दरवाजेपर बैठे-हुए अपनी गरम देहपर ठंडी हवा लगा रहे। उन्होंने कहा, “कौन है?”

वनमाली चौंक पड़ा। मानो वह चोरी करने आया हो और पकड़ा गया हो। काँपती-हुई जवानसे बोला, “मैं हूं, मामाजी।”

मामाने कहा, “किसे ढूँढ़ने आये हो,—घरपर कोई नहीं है।”

वनमाली फिर अपने वगीचेमें लौट आया, और चुपचाप बैठ गया।

जितनी रात बीतने लगी, उसने देखा कि हिमांशुके मकानके एक-एक करके सब जंगले बन्द हो गये, दरवाजेकी सीधमेंसे जो उजाला चमक रहा था वह भी क्रमशः बुझ गया। अँधेरी रातमें वनमालीको ऐसा मालूम हुआ कि हिमांशुके घरके सारे दरवाजे सिर्फ उसीके लिए बन्द हो गये हैं, सिर्फ वही अकेला बाहरके अँधेरेमें पड़ा रह गया है।

२

दूसरे दिन फिर वह वगीचेमें आकर बैठ गया। सोचने लगा, ‘आज शायद आये तो आ सकता है। जो बहुत दिनोंसे रोज आया करता था वह एक दिनके लिए भी न आये, यह बात वह किसी भी तरह न सोच सका। कभी भी उसने यह नहीं सोचा था कि उसका यह बन्धन कभी किसी तरह दूर जायगा। इतना निश्चिन्त था वह कि उसे पता तक नहीं कि कव उसके जीवनके सारे सुख-दुःख उस बन्धनमें जकड़ गये। आज अकस्मात् मालूम

हुआ कि वह बन्धन टूट गया है ; किन्तु एक ही क्षणमें उसका यह सर्वनाश हुआ है, यह वह किसी भी तरह हृदयसे विश्वास न कर सका ।

प्रतिदिन नियमसे वह वगीचेमें जाकर बैठता है, शायद दैवयोगसे किसी दिन वह आ जाय, किन्तु ऐसा दुर्भाग्य कि जो नियमित-रूपसे प्रतिदिन हुआ करता था वह दैवयोगसे एक दिन भी न हुआ ।

रविवारके दिन, बनमालीने सोचा कि पहलेकी तरह आज भी हिमांशु सवेरे हमारे यहाँ खानेको आयेगा । ढढ़ विश्वास तो उसे नहीं था ; किन्तु फिर भी आशा वह न छोड़ सका । सब आये, पर वही नहीं आया ।

तब बनमालीने सोचा, ‘तो अब शायद खाकर ही आयेगा ।’

खाकर भी नहीं आया ।

बनमालीने सोचा कि ‘शायद आज खा-पीकर सो गया है, जगनेपर आयेगा ।’

कब जाना, सो तो नहीं मालूम, पर आया नहीं ।

फिर वही शाम हुई, रात हो गई, हिमांशुके घरके दरवाजे-जंगले एक-एक करके सब बन्द हो गये, और एक-एक करके सब वत्तियाँ भी चुम्ह गईं ।

इस तरह सोमवारसे लेकर रविवार तक सप्ताहके सातों दिन उसकी तकदीरने जब छीन लिये, और आशाको आश्रय देनेके लिए हाथमें जब एक भी दिन वाकी नहीं बचा, तब हिमांशुके बन्द नकानको तरफ उसकी ठबडवाती हुई व्यथित आँखोंने एक मर्मनेदी अभिमानकी फरियाद भेजी, जीवनकी सारी वेदनाको सिर्फ एक ही आर्तस्वरमें भरकर उसने कहा, “हे दयामय !”

## रामलालकी मूर्खता

जो यह कहते हैं कि 'गुरुचरणके मरते वक्त उनकी दूसरी स्त्री घरमें बैठी ताथ खेल रही थी', वे विश्व-निन्दक हैं, राइका पहाड़ बना देते हैं। असलमें वहूंजी तब एक पौवकी पालथीपर बैठकर दूसरे पैरका घुटना ठोड़ीसे लगाये कर्ची-इमली हरी-मिर्च और मद्दलीकी चरपरी भुजियाके साथ खूब मन लगाकर 'वासी भात खा रही थीं। बाहरसे जब पुकार पड़ी तो चबाये-हुए ढंठल और जूर्धी पत्तलको फेंककर गम्भीर मुँह बनाकर वे बोलीं, "ए राम, वासी भातके दो गस्से पेटमें डाल लूँ, इतनी भी छुट्टी नहीं !"

इधर जब डाक्टरने जवाब दे दिया, तब गुरुचरणके भाई रामलालने रोगीके पास बैठकर धीरेसे कहा, "दहा, अगर तुम्हारी वसीयातनामा लिखानेकी तबीयत हो तो बताओ ।"

गुरुचरणने बहुत ही धीमे स्वरमें कहा, "मैं कहता हूँ, तुम लिख लो ।"

रामलाल कागज और दावात-कलम लेकर बैठ गये। गुरुचरण कहने लगे, "मैं अपनी स्थावर और जंगम तमाम सम्पत्ति अपनी धर्मपत्नी श्रीमती वरदासुन्दरीको देता हूँ।" रामलालने लिखा तो सही, पर लिखते हुए उनको कलम न चलती थी। उन्हें बड़ी उम्मीद थी कि उनका इकलौता वेटा नवदीप ही अपने पुत्रहीन ताजजीकी तमाम जायदादका उत्तराधिकारी होगा। यद्यपि दोनों भाई अलहदा थे, तो भी, इसी आशासे नवदीपकी माने नवदीपको किसी भी तरह नौकरी नहीं करने दी, जल्दीसे उसका व्याह भी कर दिया। और वह व्याह निष्फल भी नहीं गया। किन्तु फिर भी रामलालने सब लिखा और दस्तखत करानेके लिए कलम भइयाके हाथमें दे दी। गुरुचरणने निर्जीव हाथसे जो दस्तखत किये, वह कौपती-हुई टेढ़ीमेढ़ी लकीरें थीं या दस्तखत, समझना मुश्किल था।

वासी भात खाकर श्रीमती वरदासुन्दरी जब उस कमरेमें आई, तब गुरुचरणकी जवान बन्द हो चुकी थी। वरदा रोने लगी।

जो बहुत ज्यादा उम्मीदके बाद भी जायदादसे वंचित रह गये वे कहने लगे, ‘दिखावटी रोना है।’ परन्तु यह बात विद्वास-योग्य नहीं।

बसीयतनामेका हाल सुनते ही नवद्वीपकी मादौड़ी आई,- और शोर भाचा दिया, “भरते समय बुद्धि विगड़ जाती है। ऐसे अच्छे भाजिजेके रहते—”

रामलाल यद्यपि खीके प्रति बहुत ज्यादा श्रद्धा रखते थे, इतनी ज्यादा कि दूसरे शब्दोंमें उसे ‘डर’ भी कहा जा सकता है, किन्तु उनसे भी न रहा गया। वे लपकके आगे बढ़े और बोले, “अरी, तेरी बुद्धि तो नहीं बिनाड़ी, फिर तू क्यों ऐसा करती है? दहा चले गये, पर मैं तो हूँ। तुझे जो-कुछ कहना हो, किसी मौकेसे मुझसे ही कह लेना, अमो मौका नहीं है।”

नवद्वीपको इसकी खबर लगी, वह भी आ पहुँचा। पर तब तक ‘ताऊजी’ परलोक सिधार चुके थे। नवद्वीपने मृत व्यक्तिको धमकी देकर कहा, “देख लूँगा, मुँहमें आग कौन देता है। मैं अगर श्राद्ध-शान्ति करूँ तो मेरा नाम नवद्वीप नहीं।”

किन्तु गुरुचरण यह-सब कुछ भी नहीं मानते थे। वे ढफ साहसके छात्र थे। शास्त्रके अनुसार जो चीजें सबसे ज्यादा अभक्ष्य होतीं, उन्हींके खानेने उन्हें विशेष तृप्ति होती थी। लोग उन्हें ईसाई कहते, तो वे दौतों तले जीम दबाकर कहते, ‘राम राम, मैं अगर ईसाई होऊँ तो गऊँका मांस खाऊँ।’ जीवित दशासे जिसकी यह हालत थी, मरनेके बाद तुरत ही वह पिण्ड-नाशके डरसे जरा भी विचलित होगा, यह सम्भव नहीं। पर मौजूदा हालतमें बदला लेनेका इसके सिवा और-कोई चारा ही न था। नवद्वीपको एक सहारा मिल गया, वह यह कि परलोकमें जाकर उसके ‘ताऊजी’ अवश्य ही भूखों भरेंगे। इस लोकमें ‘ताऊजी’की जायदाद न मिलनेपर भी किसी तरह ऐट तो भर जाता है; पर ‘ताऊजी’ जिस लोकमें गये हैं वहाँ भीख माँगनेपर भी पिण्ड नदों मिलता। यहाँ जिन्दा रहनेने भी बहुतसे लाभ हैं।

रामलालने घरदासुन्दरीके पास जाकर कहा, “भाभी, भद्र्या तुम्हींको सब-कुछ दे गये हैं। यह लो बसीयतनामा उनका। लोहेके सन्दूँमें हिफाजतसे रख देना।”

विधवा उस समय लम्बे-लम्बे पद रच-रचकर कँचे स्वरसे विलाप कर रही थी, दो-चार दासियाँ भी उसके स्वरमें स्वर मिलाकर और वीच-वीचमें दो-चार नये शब्द जोड़कर शोक-संगीतसे सारे गाँवकी निद्रा दूर कर रही थीं। उसके वीचमें इस कागजके ढुकड़ेने आकर कम-से-कम तान तो तोड़ ही-दी। और मावोंका भी पूर्वापर सम्बन्ध टूट गया। रामलेने अब इस प्रकार असंलग्न हृप धारण किया, “हाय, मेरी अम्मा री ! हाय, मेरी तकदीर फूट गई री-ई ! अरी मेरी अम्मा री-ई ! हाय ! हाय,—देवरजी, यह लिखावट किसकी है ? तुम्हारी ? हाय, हाय, ऐसे जतनसे अब कौन रखेगा ! हाय, मेरी ओर अब मुंह उठाकर कौन देखेगा ! हाय ! अरी मेरी अम्मा री-ई !—अरे जरा ठहर जा, ज्यादा चिल्ला भत, वात सुन लेने दे ।—अरी, मेरी मैया री, मैं भी क्यों नहीं भर गई री-ई ! मैं क्यों जिन्दा रही री-ई,—हाय !”

रामलालने मन-ही-नमन गहरी साँस लेकर कहा, ‘यह तो हमलोगोंकी तकदीरका दोष है ।’

घर जाकर नवदीपकी मा रामलालके सर हो ली। लदी-हुई गाड़ी समेत अभागे बैल जैसे दलदलमें फँसकर गाड़ीवानके इजारों डंडे खाकर भी देर तक वेवसीसे चुपचाप खड़े रहते हैं, रामलाल भी ठीक उसी तरह देर तक चुपचाप सब सहते रहे। आखिरकार धीमे स्वरमें बोले, “मेरा क्या कसूर है ? मैं तो दहा नहीं था ?”

नवदीपकी मा फुसकारकर बोली, “नहीं जी, तुम वडे भले आदमी हो ! तुम कुछ नहीं जानते ! दहाने कहा, लिखो, भाई वैसे ही लिखते गये ! तुम सब एक-से हो ! तुम भी बखत आनेपर ऐसी ही बुद्धिमानी करोगे, मुझे मालूम है ! मेरे भरते ही किसी मुँहजली डाइनको घरमें ले आओगे ; और मेरे नन्हे-से नवदीपको गहरे पानीमें वहा जाओगे । पर इसके लिए वेफिकर रहो, मैं जल्दी नहीं मरनेकी ।”

इस तरह रामलालके भावी अत्याचारोंका जिक्र कर-करके गृहिणी उत्तरोत्तर ज्यादा गरम होने लगीं। रामलाल निश्चित जानते थे कि छोटीकी इन उत्कृष्ट काल्पनिक आशंकाको दूर करनेके लिए अगर उन्होंने जरा भी जीभ हिलाई, तो

उलटा नतीजा होगा । इस डरसे वे अपराधीकी तरह चुप बने रहे, - मानो उनसे वे दोष बन ही गये हैं, मानो वे नहें से नवदीपको कुछ न देकर अपनी मार्भी पर्जिके नाम तमाम जायदादका वसीयतनामा लिखकर भर ही चुके हैं, और अब विना इस कसूरको मंजूर किये कोई चारा ही नहीं !

इतनेमें नवदीप अपने बुद्धिमान भित्रोंसे देर तक सलाह-भवाविरा करके घर आया ; और मासे बोला, “मा, कोई चिन्ता नहीं । यह जायदाद सुने ही मिलेगी । कुछ दिनके लिए बापूजीको यहांसे कहों रखना कर देना चाहिए । वे रहेंगे तो सब गुड़ गोबर हो जायगा ।”

नवदीपके बापकी बुद्धिपर नवदीपकी माझे जरा भी श्रद्धा नहीं थी, इसलिए लड़केकी बात उन्हें भी बुक्सिस्फृत मालूम हुई ।

आखिरको रात-दिनकी मक्कमक्क और ताड़नासे तंग आकर ‘विलकुल अनावश्यक’ और ‘सब काम घौपट करनेवाला’ कमभक्त वाप किसी वहानेसे कुछ दिनके लिए काशी चला गया ।

थोड़े ही दिनोंमें वरदानुन्दरी और नवदीपचन्द्र दोनों एक दूसरेपर जाली वसीयतनामा बनानेका मुकदमा दायर करके अदालतमें पहुंचे । नवदीपने जो अपने नामका वसीयतनामा निकाला, उसके दस्तखत देखनेसे साफ मालूम पड़ता है कि वे गुहचरणके ही हैं । उसके दो-एक गवाह भी भिल गये । किन्तु वरदाकी तरफ नवदीपके पिता ही एकमात्र गवाह थे । और दस्तखतको नो कोई समझ ही नहीं सकता था । वरदाका एक भाई है, जो उन्हींके घर रहता है, उसने कहा, “जीजी, तुम कुछ सोच मत करो । मैं तुम गवाही दैगा, और भी बहुतसे तलाश कर लाऊँगा ।”

नामला जब पूरी तरहसे पेचीदा हो जुका, तो नवदीपकी माने नवदीपके बापको काशीसे चले आनेके लिए लिख भेजा । वैचारा आज्ञाकारी भद्रामानस पति दैग और छाता हाथमें लिये टीक बक्कपर हाजिर हुआ । और तो क्या, स्त्रीसे जरा-कुछ रसालाप करनेकी भी कोशिश की, हाथ जोड़कर हृत्तते-मुए दोला, “गुलाम हाजिर है, भद्रामानी साहिबाका क्या हुक्म है, फरमाया जाए ?”

गृहिणीने सिर हिलाकर कहा, “वस, वस, रहने दो ! देख लिया । यह ऊपरी हँसी-मजाक अब रहने दो । इतने दिन काशीमें विता आये, कभी एक दिनके लिए याद भी किया ?” इत्यादि ।

इसी तरह दोनों तरफसे बहुत देर तक एक दूसरेपर प्रेमका दोषारोपण होता रहा, और अन्तमें वह व्यक्तिको छोड़कर जातिपर आ पड़ा । नवद्वीपकी माने पुरुयोंके प्रेमकी मुसलमानोंके मुरगी-वात्सल्यसे तुलना की । नवद्वीपके वापने कहा, “लियोंके मुँहपर शहद रहता है, और हृदयमें छुरी ।”

किन्तु यह बताना मुश्किल है कि इस भौखिक मिठासका स्वाद नवद्वीपके वापको कब मिला ।

इसी बीचमें रामलालको अदालतसे अचानक एक दिन गवाहीका सफीना मिला । वेचारे के हाथ-पौब ढीले पड़ गये । रामलाल सफीना पढ़कर उसका मतलब समझनेकी कोशिश कर रहे थे, इतनेमें नवद्वीपकी माने आकर रोना शुरू कर दिया । कहने लगी, “कलमुंही डॉकिन मेरे लालको सिर्फ ताज़की जायदादसे ही कोरा रखना चाहती हो सो नहीं, वह तो उसे जेल भिजवानेकी तैयारी कर रही है ।”

शुहसे अन्त तक धीरे-धीरे सब वातें समझकर रामलाल दंग रह गये । और झुँझलाकर जोरसे बोल उठे, “अरे, तुमलोगोंने यह क्या सत्यानाश कर डाला ।”

गृहिणीने भी क्रमशः अपना स्वरूप प्रकट किया, बोली, “क्यों, इसमें नवद्वीपका क्या दोष हो गया ? वह अपने ताज़की जायदाद न ले ? यों ही छोड़ दे ?”

भला, ‘एक बाहरकी लड़की, पतिकी आयु हड्डपनेवाली ढायन आकर घरकी मालिकिन बन बैठे, और घरका लड़का चुपचाप उसे देखता रहे ! कौन ऐसा सत्कुलप्रदीप कनकचन्द्र वंशधर होगा जो ऐसा अनाचार सह लेगा ? मान लो, मरते समय, और डॉकिनके मन्त्र फूँकते रहनेसे अगर किसी मूढ़मति ताज़की बुद्धि भ्रष्ट हो जाय, तो क्या वृद्धिमान भर्तीजा उसे अपने हाथसे नहीं सुधार लेना ? इसमें कौन-सा अन्याय हुआ ?’

इतवुद्धि रामलालने जब देखा कि उनकी स्त्री और पुत्र दोनों बिलकर कभी तर्जन-गर्जन और कभी अशु-वर्पण कर रहे हैं, तब वे तकड़ीर ठोककर चुपचाप बैठ गये; वेचारेने अन्न-जल तक छोड़ दिया।

इस तरह दो दिन चुपचाप विना कुछ खाये-पीये बीत गये।

मुकदमेका दिन आया। इस बीचमें नवद्वीपने वरदाके भर्मेरे भाईको ढर दिखाकर ऐसा वशमें कर लिया कि उसने बड़ी आसानीसे नवद्वीपकी तरफ गवाही दे दी।

जयश्री जब वरदाको त्यागकर दूसरी ओर जानेकी तैयारी कर रही थी तब रामलालकी पुकार हुई।

दो दिनसे खाना-पीना छोड़ देनेसे बृद्ध रामलालकी बड़ी बुरी हालत थी। ओठ सूख गये थे, जबान सूखकर ताल्से लग गई थी। अधमरे बृद्ध रामलालने अपनी कौपती-हुई शिथिल उंगलियोंसे गवाहके कठघरेको जोरसे दबाकर पकड़ लिया। और चतुर वैरिस्टर वडे कौशलसे 'पेटकी वात्त' निकालनेके लिए जिरह करने लगे, यानी बहुत दूरसे शुह करके बड़ी सावधानी और अत्यन्त धीर किन्तु चक्रगतिसे प्रसंगके पास पहुंचनेकी कोशिश करने लगे।

तब रामलालने जजकीं ओर देखते-हुए हाथ जोड़कर कहा, "इज्जूर, मैं बूझा आदमी हूं, बहुत कमजोर हूं, ज्यादा बोलनेका दम नहीं मुझमें। मुझे जो-कुछ कहना है, संझेपमें कहे देता हूं। मेरे भाई स्वर्गीय गुहचरण चक्रवर्ण मरते समय अपनी सारी जायदाद अपनी धर्मपक्षी श्रीमती वरदानुन्द्रीको दे गये हैं। वसीयतनामा मैंने अपने हाथसे लिखा था और भाई साठवने उसपर दस्तखत किये थे। मेरे पुत्र नवद्वीपने जो वसीयतनामा दिखाया है वह भूता है।" इतना कहकर रामलाल कौपने लगे और तुरत ही नूरिंगि हो गये।

चतुर वैरिस्टरने वडे गर्व और शैखीके साथ बगलमें बैठे-हुए अटनासे कहा, "वाइ जोव ! देखा, जिरहमें ऐसा कसकर फौसा कि कवूल करते ही बना !"

मेरे भाई जीजीके पास दौड़ा गया, और बोला, "युद्धेने तो जब नद्दी ही क्षर दिया था, मेरी गवाहीसे मुकदमा समूल नथा।"

उसकी जीजीने कहा, ‘अच्छा ! आदमीको कौन पहचान सकता है ! मैं तो बुढ़ेको भला-आदमी जानती थी ।’

जेल गये-हुए नवद्वीपके बुद्धिमान मित्रोंने खूब सोच-विचारकर निश्चय किया कि ‘बुढ़ेने जहर डरकर ऐसी गवाही दे डाली है । कठघरेपर जाकर बुढ़ा बुद्धिको ठीक नहीं रख सका । ऐसा ठोस वैवकूफ सारे शहरमें ढूँढ़े न मिलेगा !’

इधर घर लौटते-लौटते रामलालको जोरांका सचिपात हो गया । और दो-चार दिन बाद ही, पुत्रका नाम लेते-लेते, वेचारा सर्वकार्य-विच्छंसकारी नवद्वीपका अनावश्यक निर्वोध पिता इस संसारसे सदाके लिए विदा हो गया ।

घरबालोंमेंसे किसी-किसीने कहा, “और-कुछ दिन पहले ही चला जाता तो अच्छा था ।”

जिस-जिसने यह बात कही थी, उनका मैं यहाँ नाम लेना नहीं चाहता ।

## ताराचन्द्रकी करतूत

लेखक-जातिके प्रकृतिके अनुसार ताराचन्द्र जरा-कुद्र मौरू और मुँह-चोर आदमी थे । लोगोंके सामने निकलनेमें उनका सिर चकराता था । घर-चैठे कलम चलाते-चलाते उनकी इष्टि घट गई, पीठ भुक गई, किन्तु फिर भी दुनियादारीका तजुरवा अभी बहुत ही थोड़ा है । लोक-ब्योहारके वैधे-हुए बोल स्वभावतः उन्हें आते ही न थे, और इसलिए गृह-दुर्गसे बाहर वे अपनेको किसी भी तरह सुरक्षित न समझते थे ।

लोग भी उन्हें एक अजीव ही चीज समझते थे ; और इसमें उनका कोई दोष भी नहीं । मान लो, पहली मुलाकातमें किसी भलेमानसने उनसे वड़ी प्रसन्नतासे कहा कि 'आपके साथ मिलकर मुझे इतनी खुशी हुई कि जिसकी हृद नहीं ।' ताराचन्द्र चुपचाप वैठे बड़े ध्यानके साथ अपनी दाढ़ी देखने लगे । सहसा इस नीरवताका अर्थ ऐसा मालूम होता है कि 'हाँ, तुम्हें जो खुशी हुई चो हो सकती है, पर मुझे भी खुशी हुई है ऐसा मूँह में कैसे मुँहसे निकालूँ, यही चोच रहा हूँ ।'

दोपहरके लिए निमन्त्रण देकर लखपती घरका मालिक जब तीसरे पदर थाली परोसवाना शुरू करता है,- और बीच-बीचमें विनीत प्रार्थनाके साथ भोज्य पदार्थकी तुच्छताके विषयमें ताराचन्द्रको सम्बोधन-पूर्वक कहता रहता है, 'कुद्र भी न वन सका, गरीबकी हस्ती-सूखी है, विदुरका बायोजन समझिये, आपको सिर्फ तकलीफ देना है', तब भी ताराचन्द्र ऐसे ही चूप बने रहते जैसे उसकी बात इतनी सही है कि उसका जबाब नहीं दिया जा सकता ।

कमी-कमी ऐसा भी होता कि जब कोई भलानानस ताराचन्द्रसे बाहर कहता कि उनके समान अधाह पाण्डित्य इस जमानेमें भिला सुदिल है, सरस्वती अपना पद्मासन त्यागकर उनके कण्ठमें ला दसी हैं, तब भी ताराचन्द्र उसका जरा भी प्रतिवाद नहीं करते,- मानो उच्चमुच ही सरस्वती उनका यंत्र धेरे वैठी हों । ताराचन्द्रको यह जानना चाहिए कि मुँहपर जो प्रदाना रहते

हैं, और दूसरोंके सामने जो अपनी निन्दामें प्रवृत्त होते हैं, वे दूसरोंसे जबाब पानेकी आशासे ही बहुत-कुछ असंकोच अत्युक्ति कर डालते हैं। दूसरा पक्ष यदि शुरूसे आखिर तक तमाम बातें यों ही सुनता रहे, तो वक्ता अपनेको ठंगाया गया समझकर बहुत ही दुःखित होता है। बल्कि उस हालतमें लोग अपनी बात झूठ सावित होनेपर भी उलटे खुश ही होते हैं।

किन्तु घरके आदमियोंके साथ ताराचन्दका व्यवहार दूसरी तरहका है, और तो क्या, उनकी खास स्त्री दाक्षायणी भी उनके साथ बातोंमें नहीं जीत पाती। उन्हें बात-बातपर कहना पड़ता है, 'रहने दो, रहने दो,— मैं हारी, तुम जीते, बस ! सुझे अभी और भी बहुतसे काम करने हैं।' वाक्-युद्धमें अपनी खीके मुँहसे हार मनवा लें, ऐसी शक्ति और इतना सौभाग्य भला कितने पतियोंको प्राप्त है ?

ताराचन्दके दिन वडे मजेमें बीत रहे थे। दाक्षायणीको इस बातका पक्षा विश्वास था कि विद्या-नुद्वि और शक्तिमें उसके पतिके वरावरीका कोई नहीं है ; और इस बातको वह मुँह खोलकर कह भी डालती है। सुनकर ताराचन्द कहते, 'तुम्हारे एकके सिवा दूसरा पति ही नहीं, फिर तुलना करो भी तो किससे ?' इसपर दाक्षायणी बहुत गुस्सा हो जाती।

दाक्षायणीको सिर्फ एक ही बातका अफसोस था, वह यह कि उसके पतिकी असाधारण शक्तिका प्रकाश पाठक-समाज तक नहीं पहुँचता,— और न पतिकी तरफसे इस बारेमें कुछ कोशिश ही होती है। ताराचन्द जो लिखते हैं उसे छपाते नहीं।

दाक्षायणी कभी-कभी अनुरोध करके पतिके मुँहसे उनकी रचना सुना करती, और जितना ही उसकी समझमें न आता उतना ही वह आश्चर्यमें पड़ जाती। उसने 'रामायण' 'महाभारत' 'कविकঙ्कण - चण्डो' पढ़ा है और कथाएँ भी सुनी हैं,— उनका सब-कुछ पानीकी तरह सरलतासे समझमें आ जाता है, उन्हें निरक्षर लोग भी आसानीसे समझ लेते हैं, किन्तु उसके पतिकी रचनाके समान पूरी तरहसे न-समझमें-आनेवाली ऐसी आश्चर्यकी चीज उसने पहले कभी नहीं सुनी।

वह मन-ही-मन सोचती, 'जब यह पुस्तक छपकर निकलेगी और कोई भी जब उसका एक अंदर भी न समझ सकेगा, तब देश-भरके लोग आश्चर्यसे दंग रह जायेंगे।'

उसने हजारों बार पतिसे कहा, "इन सबको तुम जल्दी छपा क्यों नहीं डालते!"

पति कहते, "पुस्तक छपानेके विषयमें मगवान नहु स्वयं कह गये हैं, 'प्रवृत्तिरेपा भूतानां निवृत्तिस्तु भद्राफला'!"

ताराचन्द्रके चार सन्तान हैं, और चारों ही कन्या। दाक्षायणी समन्तो हैं कि यह गर्भधारिणीकी ही त्रुटि है,— और इसके लिए अपनेको बड़ अपने 'प्रतिभाशाली पतिके तड़ विलकुल अयोग्य स्त्री समझती है। जो पति वानकी वातमें ऐसे-ऐसे दुरुह प्रब्योक्ता रचना कर सकता है, भला उसकी स्त्रीके गर्भसे लड़कियोंके चिना और-कुछ न हो, त्रीके लिए इससे बढ़कर अपनुा और बदा हो सकती है।

सबसे बड़ी लड़की जब पिताकी छाती तक ऊँची हो गई तब ताराचन्द्रकी निश्चिन्तता जाती रही। और तब दून्हें होश आया कि एक-एक करके चारों लड़कियोंका व्याह करना है,— और उसके लिए काफी रुपयोंकी जमरन है।

गृहणीने अत्यन्त निश्चिन्ततासे कहा, "तुम अगर जरा एक बार पूरा नज लगा दो, तो फिर किसी वानकी चिन्ता ही न रहे।"

ताराचन्द्र कुछ व्यक्तिसे पूछ उठे, "सचमुच! अच्छा, बताओ तो नहीं, क्या करना होगा?"

दाक्षायणीने संशय-रहित निरुद्धिन भावसे उत्तर दिया, "इलक्ते चले जानो, और अपनी पुस्तके छपाओ। लोग तुम्हें जान जायें, फिर देखना रुपये अपने आप आते हैं या नहीं!"

स्त्रीके आश्वासनसे ताराचन्द्रको भी थीरे-थीरे आश्वास मिलने लगा, और उनमें निश्चय-सा हो गया कि घर बैठन्दैठ अद तक उन्हें जितना लिया है उससे उनका अकेलेहा ही नहीं थक्कि मुहूर्ते-मरके होगेह कन्या-दादसे उत्तर किया जा सकता है।

कलकत्ता जाते समय एक जवरदस्त दिक्कत उठ खड़ी हुई। दाक्षायणीसे अपने निरीह और निःसहाय पतिको किसी भी तरह अकेला छोड़ते नहीं चान। जानेको तो वे अकेले ही जा सकते हैं, पर असल सवाल यह है कि वहाँ उन्हें खिला-पिलाकर और नित्य-नैमित्तिक कर्तव्योंकी याद दिलाकर दुनियादारीके विविध उपद्रवोंसे उनकी रक्षा कौन करेगा? और दूसरी तरफ परेशानी यह कि अनभिज्ञ पति भी अनजान जगहमें स्त्री-कन्याओंको साथ ले जानेमें डरते हैं और राजी नहीं होते। अन्तमें दाक्षायणीने महल्लेके एक चतुर आदमीको पतिके नित्य अभ्यासोंके वारेमें हजारों उपदेश देकर लाचारीसे उसीको अपने पदपर नियुक्त किया, और पतिको वहुत-वहुत सौगन्द दिलाकर, नाना प्रकारके तावीज-नांडे पहनाकर परदेश रवाना कर दिया। और फिर खुद घरमें पछाड़ खाकर विस्तरपर गिर पड़ी और रोनी लगी।

कलकत्ता आकर ताराचन्दने अपने चतुर साथीकी सहायतासे 'वेदान्त-प्रभाकर' प्रकाशित किया। और इस तरह दाक्षायणीके गहने गिरवी रखकर जो-कुछ स्पष्ट भिले थे उनमेंसे अधिकांश खर्च हो गये।

विक्रीके लिए किताबोंकी दुकानोंपर और समालोचनाके लिए देशके तमाम छोटे-बड़े सम्पादकोंके पास 'वेदान्त-प्रभाकर' भेजा गया। ढाकसे स्त्रीको भी एक प्रति रजिस्टरी करके भेज दी। रजिस्टरी इस डरसे की कि, बीच ही में कहीं कोई उड़ा न ले।

गृहिणीने जिस दिन छपी-हुई किताबके ऊपरके पृष्ठपर छापेके इहफोमें अपने पतिका नाम छपा देखा, उस दिन मुहल्लेकी तमाम लड़कियोंको निमन्त्रण देकर खिलाया-पिलाया। और जहाँ सबके बैठनेका स्थान था वहाँ किताब पड़ो रहने दी।

जब सब आकर बैठ गईं, तो कँचे स्वरमें बोली, "अरे, यह पुस्तक यहाँ किसने रख दी! बेटी अनन्दा, जरा उस किताबको उठा देना, ऊपर उठाकर रख दँ।" इन लड़कियोंमें अनन्दा पढ़ना जानती थी। दाक्षायणीने पुस्तक उठाकर टीनके बक्सपर रख दी, और कुछ देर बाद एक चीज उतारनेमें उसे हाथसे गिरा दिया, और फिर, अपनी बड़ी लड़कीका नाम लेकर बोली, "मुशी,

बावूजीकी पुस्तक पढ़ना चाहती है क्या ? तो लेती क्यों नहीं, पढ़ पढ़, इसमें ‘शरम काहेकी !’ किन्तु बावूजीकी पुस्तक पढ़नेके लिए दुशोलाको बिलकुल ही आग्रह न था । कुछ देर बाद फिर उसे ढाटकर कहने लगी, “छिः, बेटी, बावूजीकी किताब इस तरह विगड़ते नहीं, अपनी कमला-जीर्जीके हाथमें दें दें, वह उस थालमारीके ऊपर रख देगी ।”

सचमुच, पुस्तकके अगर जरा भी कहीं चेतना होती, तो इस एक ही दिनके उत्पीड़नसे वेदान्तका प्राणान्त हो जाता ।

एक-एक करके सध सनाचार-पत्रोंमें समालोचना निकलने लगी ।

गृहिणीने जो सोचा था वह बहुत अंशोंमें सत्य साधित होने लगा । ग्रन्थका एक भी अक्षर न समझमें आनेके कारण देश-भरके समालोचक अत्यन्त चित्त हो उठे । सभीने एकस्वरसे कहा कि ‘ऐसा सात्गमित ग्रन्थ आज तक प्रकाशित नहीं हुआ ।’ जो समालोचक रेनाल्ट्सके ‘लन्दन-रहस्य’के हिन्दी-अनुवादके मिला और-कोई पुस्तक छूटे तक नहीं थे उन्होंने वडे उत्साहके साथ लिखा, ‘दूसरे देर-के-देर नाटक-उपन्यासोंके बदले यदि इस श्रेणीके दो-एक ग्रन्थ धीर्घ-धीर्घमें निकलते रहें, तो हमारा साहित्य सचमुच ही पढ़ने-योग्य हो जाय ।’

जिस व्यक्तिने वंश-परम्परासे वेदान्तका कभी नाम भी न सुना था उन्होंने सिर्फ यह लिखा कि ‘लेखकके साथ कई स्थलोंपर हमारा मतभेद है, यथानामाव के कारण यहाँ उनका उत्तेख नहीं किया जा सका ; परन्तु फिर भी नामारण तौरपर यह कहा जा सकता है कि ग्रन्थकारके साथ हमारे मतका बहुत ज़रूर सामझस्य पाया जाता है ।’ बात अगर सच होती, तो कम-से-कम ग्रन्थको जला देना ही उचित था ।

देशमें जहाँ-कहाँ जितने भी पुस्तकालय थे और नहीं थे, उन स्थानों मन्त्रियोंने सुनाके बदले मुद्रादित पत्र भेजकर ताराचन्द्रसे ग्रन्थकी जिज्ञा चार्दी । वहनोंने लिख भेजा कि ‘आपके इन विचारशोल ग्रन्थसे दैनका दश-मारी अभाव दूर हो गया ।’ ‘विचारशोल ग्रन्थ’ किसे कहते हैं, ताराचन्द्र ईश-ईश समझ न सके, किन्तु फिर भी, उन्होंने पुस्तकित चित्तसे गाँठे लालगाने उन्हर हरएक पुस्तकालयको ‘वेदान्त-प्रभाकर’ भेज दिया ।

इस तरह वेशुमार तारीफोंकी वर्षासे ताराचन्द जब बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे, ठीक उसी मौकेपर उन्हें घरकी एक चिट्ठी मिली कि 'उनकी स्त्रीके बहुत जल्द पांचवाँ सन्तान होनेवाली है',— और तब कहों वे अपने रक्षकको साथ लेकर किताबोंके रूपये वसूल करने दूकानोंपर पहुंचे ।

लेकिन, प्रायः सभी दूकानदारोंने लगभग एक ही तरहका जवाब दिया, 'अभी तो एक भी किताब नहीं विकी ।' सिर्फ एक दूकानदारके मुँहसे यह भुना कि बाहरसे एक माँग आई थी और वी०पी० भी भेजी गई थी, पर वह लौट आई,— इससे उलटा उसे डाकखर्चका दण्ड देना पड़ा । और इसके लिए वह अन्यकारपर बहुत ही नाराज हुआ और उसी समय किताब वापस करनेको तैयार हो गया ।

अन्यकार घर लौटकर बहुत-कुछ सोचते रहे, किन्तु उनकी कुछ समझमें न आया । अपने 'विचारशील अन्ध' के विषयमें जितना ही ज्यादा विचार करने लगे उतना ही पाठकोंकी तरफसे किये-गये अविचारपर उन्हें गमीर दुःख होने लगा । अन्तमें, जो-कुछ रूपये वचे थे उन्हींके सहारे वे देशकी तरफ चल दिये ।

घर आकर ताराचन्दने बड़े आडम्बरके साथ अपनी स्त्रीके आगे प्रसन्नता प्रकट की । दाक्षायणी हँसती-हुई शुभ-संवादके लिए प्रतीक्षा करती रही ।

फिर ताराचन्दने 'गौड़-समाचार'का एक अङ्क लाकर गृहिणीकी गोदमें रख दिया । पढ़कर मन-ही-मन उसने सम्पादकके लिए अक्षय धन और पुत्रकी कामना की, और उनके मुंहपर मानसिक पुष्प-चन्दनका अर्ध भी अर्पित किया । और समालोचना पूरी पढ़ चुकनेके बाद फिर वह पतिकी तरफ देखने लगी । पतिने तब 'नवप्रभात' खोलकर रख दिया । पढ़कर आनन्दसे विहँल दाक्षायणीने फिर पतिके मुंहपर आशा-भरी स्निग्ध दृष्टि डाली ।

तब ताराचन्दने 'युगान्तर' निकाला । उसके बाद ? उसके बाद दिखाया 'भारत-भाग्यचक्र', उसके बाद 'शुभ-जागरण', और फिर क्रमशः 'नवोदय', 'संवाद-तरङ्ग-मङ्ग', 'अरुणालोक', 'आशा', 'आगमनी', 'जागरणी', 'उच्छ्वास', 'पुष्प-मञ्जरी', 'सहचरी', 'सीता-नजट', 'अहत्या-लाइब्रेरी-प्रकाशिका', 'ललित

‘समाचार’, ‘कोतवाल’, ‘विद्व-विचारक’, ‘लाक्षण्य-लतिका’ इत्यादि। हँसते-हँसते चृहिणीकि आनन्दाश्रु भरने लगे। आखिं पौछकर स्त्रीने फिर एक बार पतिके कीर्ति-रद्धिसे समुज्ज्वल मुखकी ओर देखा। पतिने कहा, “भर्नी और-भर्नी वहुतसे अखबार वाकी हैं।”

दाक्षायणीने कहा, “उन्हें शामको देखूंगी, अब और-और बातें सुनायो, कैसे क्या हुआ?”

ताराचन्द्र बोले, “अबकी बार कलकत्ता जाकर सुन आया हूँ कि लाट साहबकी भेमने एक क्रिताव निकाली हैं ; लेकिन उसमें ‘वेदान्त-प्रभाकर’ का कोइ उल्लेख नहीं किया।”

दाक्षायणीने कहा, “अरे, इन सब बातोंको जाने दो, और क्या लाये हो सो बताओ न।”

ताराचन्द्रने कहा, “शुद्ध चिट्ठियाँ भी हैं।”

अन्तमें उसे साफ-साफ कहना पड़ा, “स्पर्ये कितने लाये?”

ताराचन्द्रने उदास मुँहसे उत्तर दिया, “विधुभूषणसे पांच स्पर्ये उधार लेकर घर आया हूँ।”

अन्तमें दाक्षायणीने जब सारा हाल सुना तब दुनियाकी नचाईके बारेमें उसका तमाम विद्वास पलट गया। अबश्य ही दूङ्गानदारोंने उसके पतिको छन लिया है, और देश-भरके तमाम खरीदारोंने पङ्क्यन्त्र करके दूङ्गानदारोंपरो छकाया है।

अन्तमें, सहसा याद ठठ आई कि उसने जिसे अपना प्रतिनिधि दनावर पतिके साथ भेजा था उसी विधुभूषणने ही नीतर-ही-नीतर दूङ्गानदारोंमें मिलकर ऐसा किया है, और फिर जितना दिन चढ़ने लगा उनना ही सास समझमें आने लगा कि उस सुहृत्तेके विद्वन्नर छट्ठी उनके पतिके पूरे हुमन हैं, यह सब कार्रवाई उन्होंकी है। हाँ, जहर, जिस दिन उसके पति दहराया गये थे उसके दो ही दिन बाद विद्वन्नरजो उनने दहरे पति के नामे गोपन्नरों जगह पालसे बात करते देखा था ; और चूंकि कन्दाई पालके शाप बदलर उसी

नातचीत हुआ करती थी, इससे उस समय सन्देह नहीं हुआ, अब सब साफ़ समझमें आ रहा है।

दाक्षायणीको घर-गृहस्थीकी दुश्चिन्ता दिनों-दिन बढ़ने ही लगी। जब अर्थोपार्जनका ऐसा अच्छा और सुगम उपाय व्यर्थ हो गया तो अपना कन्याप्रसवका अपराध उसे चौगुना सताने लगा। फिर वह विश्वम्भर, विद्युभूषण-या देशके अधिवासियोंको इस अपराधके लिए जिम्मेदार न कर सकी,— सारा अपराध एक अपने ही सिरपर लाद लिया। सिर्फ जो लड़कियां पैदा हुई हैं और होंगी, उन्हें भी जरा-जरा वाँट दिया। दिन और रात, एक घड़ीके लिए भी उसके मनमें शान्ति न रही।

ज्यों-ज्यों प्रसवका समय नजदीक आने लगा त्यों-त्यों दाक्षायणीके शरीर की हालत बिगड़ने लगी। सबको विशेष चिन्ता हो गई।

निरुपाय ताराचन्द पागलकी तरह विश्वम्भरके पास दौड़े गये। बोले, “भाई साहब, मेरी इन पचास किताबोंको गिरीवी रखकर अगर कुछ रुपये दें दो, तो मैं शहरसे अच्छी दाई बुलाकर दिखा देखूँ।”

विश्वम्भरने कहा, “भाई, इसके लिए कोई फिकर नहीं, रुपया जो लगें सो मैं दे दूँगा, तुम ये किताबें ले जाओ।” इतना कहकर उसने कन्हाई पालसे, बहुत-कुछ कहा-सुनी करके, कुछ रुपये लाकर दिये, और विद्युभूषण स्वयं अपनी गाँठसे राहखर्च देकर कलकत्तेसे दाई ले आया।

दाक्षायणीने न-जाने क्या सोचकर पतिको कमरेमें बुलवा लिया; और अपने सरकी कसम देकर कहा, “जब कभी तुम्हें वह दर्द सतावे, तो साथुकी दी-हुई बो दवा खाना न भूलना, और इस तावीजको कभी न खोलना।” और भी बहुत-सी छोटी-छोटी बातें पतिको समझाईं, और उनका हाथ पकड़कर उनसे सब मंजूर करा लीं। फिर बोली, “विद्युभूषणका जरा भी विश्वास नहीं, उसीने हमारा सत्यानाश किया है।” नहीं तो वह औषधि तावीज और सरकी कसम-समेत अपने पतिको उसीके हाथ सौंप जाती।

इसके बाद उसने अपने भद्रादेवके समान विश्वासप्रबण भोलानाथ पतिको संसारके निर्मम कुटिलबुद्धि पड़यन्वकारियोंके विषयमें बार-बार सावधान कर

दिया। अन्तमें चुपकेसे घोली, “देखो, मेरे जो लड़की होगी वह अगर जिन्दा रहे, तो उसका नाम रखना ‘वेदान्तप्रभा’, वादमें फिर चाहे उसे ‘प्रभा’ कहकर ‘ही बुलाना, कोई हर्ज नहीं।’ इतना कहकर पतिके पांव छुए और पांवोंकी धूल भाथेसे लगाई। भन-ही-भन कहने लगी, ‘सिर्फ लड़कियों पैदा करने ही पतिके घर आई थी। अबकी शायद उससे पिण्ड छूट जाय।’

दाईने जब बोला, “माजी, देखना जरा, लड़की कैची सुन्दर हुई है।”

तब माने एक बार लड़कीको देखकर आँखें मीच लों, और वहे कोमल स्वरमें कहा, “वेदान्तप्रभा।”

इसके बाद फिर उसे इस लोकमें एक भी बात कहनेका अवसर न मिला।

---

# अधिनेता

ऊपर पहाड़की चोटीपर बैठा है भक्त, तुषार-शुभ्र नीरवतामें ;  
 आकाशमें सदाजाग्रत दृष्टि उसकी ढूँढ़ रही है प्रक्षाशका संकेत ।  
निशाय रात्रिका घोर अन्यकार है सामने, निशाचर पक्षी चीख रहे हैं ।  
 भक्त कहता है, “डरो मत, भाई, मानवको महान समझो ।”  
 कोई नहीं सुनता, सब कहते हैं, “पशुशक्ति ही आद्यशक्ति है, पशु ही शाश्वत है ।”  
 कहते हैं, “साधुता है कहाँ ? आत्म-प्रबन्धक है तुम्हारी यह साधुता !”  
 पर, चोट खानेपर विलाप करते हैं, कहते हैं, “भाई, तुम कहाँ हो ?”  
 जवाबमें सुनते हैं, “मैं तुम्हारे ही पास हूँ, भाई !”  
 अँधेरेमें सुझाइ नहीं देता कुछ ; वहस करते हैं, “भयार्तकी मायासृष्टि है यह,  
 अपनेको सातना देनेकी विडम्बना ।”  
 कहते हैं, “आदमी हमेशा संघर्ष करता रहेगा, लड़ता ही रहेगा,  
 मरीचिकाके हक्के लिए,  
 हिंसा-कण्टकित अन्तहीन मरुभूमिपर ।”

बादल हट गये । शुक्रतारा चमक उठा पूर्व-दिग्नन्तमें ।  
 पृथिवीकी छातीमेंसे आरामकी एक लम्बी सांस निकली ।  
 भक्तने कहा, “समय आ गया ।”

“काहेका समय ?”

“यात्राका, चलनेका ।”

सब सोचने लगे बैठे-बैठे ।

अर्थ नहीं समझ सके ; अपने-अपने भन माफिक अर्थ लगा लिया सवने ।  
 प्रभातका स्पर्श मिट्टीमें मिद गया गहराइ तक ;  
 विश्व-सत्ताकी जड़ोंमें कौप उठा जीवनका चाल्लत्य ।  
 मालूम नहीं कहाँसे एक अतिसूख्म स्वर  
 सर्वोंके कानोंमें बोल उठा, “चलो सार्यकताके तीर्थको ।”

प्रमातके प्रथम प्रकाशने भक्तके मालपर सुनहला चन्दन लेप दिया,  
सभी बोल उठे, “भाई, हम तुम्हारी बन्दना करते हैं।”

दियाहीन दुर्गम मार्ग है जबइखावड़ कप्टकार्कीर्ण ।

भक्त चला है ; उसके पीछे हैं बलिष्ठ और कमज़ोर,

जवान और वूड़े ; वे भी हैं जो दुनियापर हुक्मन करते हैं,  
और वे भी हैं जो अध-पेट खानेके बदले जमीन जोतते हैं ।

कोई थक गया है, किसीके पाँवोंमें छाले पड़ गये हैं ;

किसीके ननमें कोध है तो किसीके मनमें सन्देह ।

वे हर कदमको गिनते हैं और पूछते हैं, “किननी दूर है और?”

जवाबमें भक्त सिर्फ भजन गाता है ।

सुनकर सबकी मौंहें तन जाती हैं ; पर लौटते नहों बनता ।

चलते-हुए जन-पिण्डके तीव्र वेग और अनतिव्यक्त आशाकी मार  
उन्हें ढकेले लिये जा रही है ।

नींद घटी, आराम घटा ; ढर आया, आशंका होने लगी कि  
कहों पीछे न रह जायें, कहों विन न होना पड़े ।

आपसमें व्यग्रताकी होड़-सी चलने लगी पहले पहुंचनेकी ।

दिनपर दिन बीतते ही गये । दिग्न्तके बाद दिग्न्त आता ही रहा,  
अज्ञातका आमन्त्रण अद्दय संकेतका इशारा करने लगा ।

सबका चेहरा क्रमशः कठोर हो उठा, असन्तोषका भाव दिखाई दिया,  
अविज्ञास बढ़ने लगा, विरोध उपर्युक्त उपर्युक्त होने लगा ।

रात आई । यात्री बटवृक्षके नीचे आहन बिछाके बैठ गये ।

जोरका एक झोका आया, दिया दुक्क गया, घना दंधेरा छा गया ।

नींद, ही नींद आई गूदा बनकर, गदरी बेहेशोंका दुपट्टा ओढ़े :

जनतामेंसे न-जाने कौन सहसा उठ खड़ा हुआ,

अधिनेताकी ओर लंगरी उठाकर बोल उठा,

“मूठा कहोंका, दसें धोखा दिया तुमने !”

तिरस्कार एक कण्ठसे दूसरे कण्ठमें, क्रोध एक मनसे दूसरे मनमें  
फैलता ही चला गया ; धधक उठी हिंसा !

इतनेमें सहसा एक दुस्साहसी उठा, महामूर्खा थी उसकी सहचरी,  
उसने बार किया भक्तपर । मार डाला अधिनायकको ।  
अँधेरेमें उसका चेहरा नहीं दिखाइ दिया ।

एकके बाद एक उठते ही गये लोग, चोटपर चोट करते ही गये सब,  
नेताकी प्राणहीन देह जमीनसे जा लगी, मिट्टी मिट्टीसे जा मिली ।  
निशीथ रात है, चारों ओर गहरा सज्जाटा ।

झरनेका झरझर कलगान क्षीण हो आया ।

हवाके साथ चली आ रही थी जूहीकी भीठी गन्ध ।

यात्रियोंका मन आशंकाके पंजेमें सूर्यित-सा पड़ा है ।

ख्रियाँ रो रही हैं ; पुरुष मुँझलाकर ढाट रहे हैं, “चुप !”

कुत्ता भ्रंक उठता है ;

चावुक खाकर आर्तनादमें उसका कंठ रुक जाता है ।

रात बीतना ही नहीं चाहती ।

अपराधकी नालिश लिये-हुए ख्री-पुरुषोंका तर्क तीव्र होता जाता है ।

सभी चिलाते हैं, चीखते हैं, गरजने लगते हैं ;

अन्तमें मियानमेंसे कटार निकलना चाहती है ।

इतनेमें अँधेरा क्षीण हुआ, पौ फट्टी ।

प्रभातका प्रकाश पहाड़की चोटी तक फैल गया, आकाश चमक उठा ।

सहसा सबके सब स्तब्ध हो गये ।

सूर्य-किरणोंकी उंगलीने आकर

रक्ताक्त मृत महामानवके प्रशान्त ललाटका स्पर्श किया ।

ख्रियाँ फूट-फूटकर रोने लगीं, पुरुषोंने अपना मुँह ढक लिया दोनों हाथोंसे ;

कोई-कोई औख बचाकर भागना चाहता है, पर भागते नहीं बनता ;

अपराधकी जंजीरोंसे अपनी बलिके आगे वे बँधे खड़े हैं ।

आपसमें एक दूसरेसे पूछते हैं, “कौन हमें राह दिखायेगा ?”  
पूर्वदेशके धर्मवृद्धने कहा,

“हमने जिसे मारा है, वही दिखायेगा ।”

सबके सब निरुत्तर हैं, सिर झुकाये खड़े हैं ।

वृद्धने फिर कहा, “संशयसे उसे हमने अस्वीकार किया है,  
क्रोधसे हमने उसकी इत्या की है,

प्रेमसे अब हम उसे ग्रहण करेंगे ।

कारण, मृत्युसे वह हम-सबके जीवनमें संजीवित है,  
वही तो है महामृत्युजय ।”

सबके सब एकसाथ खड़े हो गये, कंठ मिलाकर एकसाथ गा उठे,  
“जय मृत्युजयकी जय ।”

मानवात्मा जाग उठी, हजारों-लाखों कण्ठोंकी निर्भरच्चनि बोल उठी,  
“चलो चलें, प्रेम-तीर्थकी यात्रा करें, शक्ति-तीर्थके दर्शन करें ।”

अब कोई रास्ता नहीं पूछता, किसीके मनमें न संशय है न वलान्ति ।

मृत अधिनेताकी महान आत्मा दरनके साथ है, भीतर-याहर सर्वत्र ।

कहती है, “स्त्रो नत, साधियो ।

अन्धी काली रातमेंसे ही हमें पहुंचना है मृत्युहीन ज्योतिलोकमें ।”

वैधेरेमें सब चलते हैं । मार्ग मानो अपने मानी आप ही जानता हो ।

पावके नीचेकी धूल भी मानो नीरष स्पर्शसे दिशा बताती चलती हो ।

स्वर्गपथके यात्री नस्त्रोंका दल नूक संगीतमें कदता है,

“साधियो, बढ़े चलो ।”

अधिनेताकी आकाशवाणी सुनाइ देती है,

“अब देर नहीं, या पहुंचे ।”



‘जय मृत्युञ्जयकी जय !’

## महात्मा गान्धी

भारतवर्षकी अपनी एक पूरी भौगोलिक सूति है। पुराने जमानेमें देश मनसे चाहता था कि उसमें पूर्व-ग्रान्तसे लेकर पश्चिम-प्रान्त तक, उत्तरमें हिमालयसे लेकर दक्षिणमें कन्याकुमारी तक जो एक सम्पूर्णता या पूरापन है उसकी तर्सीर, उसकी प्रतिमा हृदयमें धारण करे। 'महाभारत'में इस दृश्यम का स्पष्ट और जाग्रत परिचय निलंता है कि किसी सभय देशके मनमें, विभिन्न सभय और नाना स्थानोंमें, जो-कुछ विच्छिन्न या विखरा पड़ा है उसे वह इकट्ठा करके देखे, भारतके भौगोलिक स्वस्थानकी उपलब्धि करे। तब इसका एक तरीका था, एक अनुष्ठान चाल था, वह था तीर्थ-अभ्यास। देशमें पूरबी छोरसे लेकर पश्चिमी छोर तक और उत्तरकी चोरीसे लेकर दक्षिण-समुद्र तक सर्वत्र इसके पीठस्थान थे, वहाँ तीर्थ थे, और उन तीर्थोंने भक्तिकी एक धारा बढ़ाकर सारे भारतवर्षके मनके भीतर लानेका सद्गुण उपाय चाल कर रखा था।

भारत एक विशाल देश है। प्राचीन कालमें इसको समूर्ण-स्पसे ननके भीतर ग्रहण करना सुदिकल था। शाज जर्जर या सर्वे करके, नवशा बनाकर, भूगोलके वर्णनमें गृह्यकर भारतवर्षके रूपके विषयमें जिस धारणाको मनमें स्थान देना सद्गुण हो गया है, प्राचीन कालमें वैसा नहीं था। एक हिसाबसे अच्छा था वह। आसानीसे जो निलंता है, ननमें वह तद तक जाकर नदीं पैदा। यही वजह है कि छन्दो-साधन करके, काव्यकलेश और दुःख-कान्द अंगीकार करके जो भारतकी परिकल्पना की जाती थी और उससे जो लक्ष्य त्रास देता था वह बहुत ही गहरा होता था, और मनसे हटाये नहीं हटता था।

'महाभारत'के यीचने 'गीता' प्राचीनके उस समन्वय-तत्त्वको उज्ज्वल किये हुए है। कुरुक्षेत्रके केन्द्रस्थलमें यह जो धोई-ची दार्शनिक स्पसे धरता की गई है, उसे काव्यकी दृष्टिसे व्यसंगत कहा जा सकता है, और ऐसा भी कहा जा सकता है कि गूढ़ 'महाभारत'में यह नहीं थी। वादने जिन्होंने उसे विटाया है वे जानते थे कि उदार काव्य-परिपिळ गंतव्य, भारतकी चित्त-भूमिके पीछमें

इस सार-तत्त्वकी अवतारणा करना आवश्यक है। तब सारे भारतवर्षको भीतर और बाहरसे उपलब्धि करनेका प्रयास चालू था धर्मानुष्ठानके भीतर-ही-भीतर। 'महाभारत' पढ़ना जो हमारे देशमें धर्म-कर्ममें शामिल हुआ, सिर्फ तत्त्वकी दिशामें ही उसकी उपयोगिता हो सो बात नहीं, बल्कि देशकी उपलब्धि करानेके लिए भी उसकी कार्यकारिता काफी है। और तीर्थयात्रियोंने भी लगातार चारों तरफ धूम-फिरकर, देशका बार-बार स्पर्श करके अत्यन्त अन्तरङ्ग रूपसे क्रमशः इसकी एकरूपताको मनमें स्थान देनेकी कोशिश की है। यह हुई पुराने जमानेकी बात।

अब जमाना बिलकुल बदल गया है। आज देशके आदमी अपने प्रादेशिक कोनोंमें, संकीर्णताके कारागारमें केंद्र रहना चाहते हैं। संस्कार और लोकाचारके जालमें हम बुरी तरह फँस गये हैं। किन्तु 'महाभारत'के प्रशस्त क्षेत्रमें एक तरहकी मुक्तिकी हवा है। उस महाकाव्यके विशाल प्राञ्जणमें मनस्तत्त्वकी कितनी परीक्षाएँ हुई हैं, कोई ठीक है ! जिसे हम साधारणतः निन्दनीय कहते हैं उसे भी वहाँ जगह मिल गई है। अगर मन हमारे तैयार हों तो दोप-त्रुटि और अपराध सबको पार करके 'महाभारत' की वाणीको हम जहर समझ सकते हैं। 'महाभारत'में एक उदात्त शिक्षा है,—वह ना-अर्थक नहीं, सद्-अर्थक है, अर्थात् उसमें एक 'ही' है। वडे-वडे वीर-पुरुष जो अपने माहात्म्यके गौरवसे उत्तम-मत्तक हैं उनमें भी दोप-त्रुटियाँ हैं, किन्तु उन दोप-त्रुटियोंको खुद पीकर ही वे वडे हुए हैं। मनुष्यके विषयमें यथार्थ रूपसे विचार करनेकी महान शिक्षा हमें 'महाभारत' से ही मिलती है।

पादचात्य संस्कृतिके साथ हमारा सम्बन्ध होनेके बादसे और भी कुछ विचारणीय विषय आ गये हैं जो पहले नहीं थे। प्राचीन कालके भारतमें देखा जाता है कि स्वभावसे या कार्यसे जो अलग हैं उन्हें अलग श्रेणीमें बाँट दिया गया है। फिर भी, खंडित हो जानेके बाद भी, उनमें एकता-साधनकी प्रचेष्टा थी। सहसा पश्चिमके सिंहद्वारको भेदकर शत्रुका आगमन हुआ। आयोंने उसी मार्गसे आकर एक दिन पंचनदीके किनारे उपनिवेश कायम किया था ; और उसके बाद विन्व्याचल पार करके धीरे-धीरे वे सारे भारतवर्षमें

फैल गये थे। भारत तब गान्धार आदि आस-पासके प्रदेशों-सहित एक इसमग्र मंस्कृतिमें घिरा होनेसे उसपर बाहरकी चोट नहीं लगी। उसके बाद एक दिन आया जब कि बाहरके संघातसे हम न बच सके। वे संघात थे विदेशी, उनकी संस्कृति हमसे जुदा थी। जब वे यहाँ आये तब देखा गया कि हम 'एकसाथ' थे, किन्तु 'एक' नहीं हुए। इसीसे सारे भारतवर्षमें विदेशी आक्रमणकी एक बाढ़-सी वह गई।

उसके बादसे हमारे दिन कटने लगे दुःख और अपमानकी मानिसें। विदेशी आक्रमणमें, जिनको जैसा मौका मिला, कितने ही एक दूसरेके साथ मिलकर अपना-अपना प्रभाव फैलानेमें जुट गये तो कितने ही अलग-अलग जगहोंसे खण्ड-खण्ड और विश्वल-हप्ते विदेशियोंको वाधा देने लगे, अपनी स्वाधीनताकी रक्षाके लिए। पर किसीको भी किसी तरह सफलता नहीं मिली। राजपूताना, महाराष्ट्र और वंगालमें लड़ाई बहुत दिनों तक शान्त नहीं हुई। इसका कारण यह था कि जितना बड़ा देश था उनकी बड़ी एकता नहीं हुई, दुर्भाग्यके भीतरसे हमने जानकारी तो हासिल की, किन्तु सदियों बाद। विदेशी आक्रमणकारियोंके लिए रास्ता साक हो गया दमारी इस अनेकतासे। हमारे नजदीकी दुर्मनपर एकसाथ भड़भड़ाकर वा पड़े समुद्र-पारके विदेशी दुर्मन, वाणिज्य-जहाज लिये-नुए। पुर्तगीज आने, ओलान्दाज आने, अंगरेज आये। सबने आकर जोरके धक्के लगाये, और ऐस लिया कि 'इस देशमें ऐसी कोश्च चहारदीवारी नहीं जो लंघी न जा सके।' हम अपनी शक्ति-मम्पदा सद-हुळ देने लगे, हमारे अन्दर कमजोरी आई, मनोवलसी दिशामें भी दम पूँजी न्हो घैटे, बिलहुल रीते खोखले हो गये हम। बाहरकी दीनता ऐसी ही भीतर दीनता ला देती है।

ऐसे बुरे दिनोंमें हमारे साथक पुरुषोंके मनमें जिस चिन्ना-धाराका नित थह रहा था, उसमें थी 'परमार्थको और लक्ष्य रखकर भारतकी स्वाधीनताको उद्घोषित करनेकी आधात्मिक प्रचेष्टा।' नद्दसे हमारा मन चल दिया है पारमार्थिक पुष्प-उपार्जनकी ओर। वही तक हमारा पार्थिव वैभव पूँजा ही नहीं जहाँ परार्थ दीनता थी और लक्ष्यों दिशाकी लगी थी। पारमार्थिक

पूँजी पानेके लोभसे जिस पार्थिव पूँजीको हम खर्च करते हैं वह पड़ती है जाकर महन्त और पुजारी-पंडोंके गर्वसे फूले-हुए पेटमें। इससे, सिवा क्षयके, देशकी जरा भी बढ़वारी नहीं होती।

इस विशाल भारतवर्षके विराट जन-समाजमें और-भी एक श्रेणीके लोग हैं जो जप-तप और ध्यान-धारणा करनेके लिए मनुष्यको त्यागकर, घर-नगरस्थीको गरीबी और दुःखके हाथ सौंपकर, परमार्थ साधने चल देते हैं। इन असंख्य उदासीनोंके लिए, इन मोक्ष-कामियोंके जीनेके लिए अन्न वे ही जुटाते हैं जो उनके मतसे 'मोहग्रस्त और संसारासक्त हैं।' एक बार किसी गाँवमें ऐसे ही एक संन्यासीके साथ मेरी भेंट हो गई थी। मैंने कहा, 'गाँवमें जो दुराचारी दुःखी रोगी बगैरह हैं, उनके लिए आप कुछ करते क्यों नहीं?' मेरी बात सुनकर वे बोले, "क्या कहा! जो सांसारिक मोहग्रस्त प्राणी हैं उनके लिए सोचना होगा हमें! हम ठहरे साधक, विशुद्ध आनन्दके लिए घर-संसार छोड़कर दीक्षा ली है, अब फिरसे हम उसी जजालमें फँस जायें।" यह बात जिन्होंने कही थी उनसे, और उन-जैसे अन्य सभी संसारसे उदासीन संन्यासियोंको बुलाकर यह पूछनेकी हच्छा होती है कि 'महात्मन्, आपके इस पार्थिव शरीरको हृष्ट-पुष्ट और चिकना बनाये रखनेके लिए 'भोग' कौन जुटाता है?' जिन्हें वे पापी और हेय समझकर त्याग आये हैं, आखिर वही संसारी जीव ही तो उनके लिए भोजन-बख्त जुगते हैं। लगातार परलोककी ओर देखते-देखते हम अपनी शक्तिका कितना फजूल-खर्च करते हैं इसका कोई ठिकाना है! सदियोंसे भारतकी यह कमज़ोरी पनपती आ रही है। इसकी जो सजा है, इसी लोकके विधाताने वह सजा हमें दी है। उन्होंने हमें आदेश दिया है कि अपनी सेवासे, अपने त्यागसे हमें इस लोकके काविल बनना होगा। उस आदेशकी हमने अवमानना की है, लिहाजा उसकी सजा हमें भुगतनी ही पड़ेगी।

आजकल योरोप-भरमें स्वाधीनताकी प्रतिष्ठाके लिए उथम चल रहा है। इटलीने किसी समय विदेशियोंके पंजेमें फँसकर धिकृत जीवन विताया था। अन्तमें, इटलीके जो त्यागी थे, वीर थे, मैजिनी और गैरीवात्दीने विदेशियोंके

अधीनता-पाद से हुड़ाकर अपने देशको स्वाधीन बनाया। अमेरिकाके बुल्ले-राष्ट्रके लिए भी देखा गया है कि स्वाधीनताकी रक्षा करनेके लिए उन्हें कितना दुख, कितना उद्यम और कितना संत्रास करना पड़ा है! ननुपको ननुपके योग्य अधिकार देनेके लिए पाइचात्य देशोंमें कितनोंने अपनी वलि दी है, यह किपा नहीं है। भेद डालकर परस्परका जो अपमान किया जाना है उसके खिलाफ पद्धिमी देशोंमें आज भी विद्रोह चाल रहे हैं। उन देशोंमें जनसाधारण सर्वसाधारण मानवीय गौरवके अधिकारी हैं, और इसीलिए राष्ट्र-तंत्रका सारा अधिकार सर्वसाधारणमें व्याप है। वहाँ कानूनके बाने अमीर और नरीदमें, ग्राम्य और शहरमें कोई भेद नहीं। एकनामे गुप्तकर स्वाधीनता कायम करनेकी शिक्षा हमें पाइचात्यके इतिहाससे मिली है। और, 'उद्ध भारतवार्ता' निलक्षण अपने देशका शासन-तंत्र आप चलायें इन बातकी इच्छा भी हमें पाइचिनको देखकर पैदा हुई है। इनमें दिनोंसे हम अपने गांधी और पद्मेश्वरीको लेकर खण्ट-खण्ट हृषिके द्वीपी-छोटी परिधिके भीतर काम करते आये थे और उन्हें अनुहृष्ट हमारी विचारधारा भी थी। गांधीमिं कुए़, ताल और मन्दिर बनवा कर हमने अपनेको सार्वक समझा, और उन गांधीको ही जनभूमि बनानेका हमें कभी नौका हो नहीं भिला। प्रान्तव्यताके जालमें कैमकर और उपनी नानसिक कमजोरियोंसे देवता दोकर हम जब पड़े बैंध रहे थे तब राजदे, मुरेन्द्रनाथ, गोखले जैसे नदापुरव आये और उन्होंने जन-साधारणकी नीतिय देना शुरू कर दिया। उनके द्वारा शुरू की-गई साधनाओं का जो दोष व्यक्त ग्रबल शास्त्र-शक्तिसे शून्य तेजीके नाय लाइचर्स-बनक चिह्निकी और वहाँ ले जा रहे हैं, जाज हम यहाँ उसी दशालक्ष्मी दान मीचनेके लिए इकट्ठे हुए हैं, वे हैं नदाला गान्धी।

लोग पूछ सकते हैं, 'दहरे-दहरे बदा ने ही आये हैं? इनके पहले नदा कांग्रेसके भीतर रहकर और उन्हें बहुतसे जाम नहीं किये?' निम्नग्रेट घुम्रेसे बहुत-हुठ किपा है, पर उनके नाम हैते ही उस देवेंगी कि कितना भारत या उनका साहस, कितना शीघ्र या दबदा राष्ट्र। दहरेके कांग्रेस-जन लोकोंने यह कभी है जाते थे प्रार्थनाकी दाती और जनों दिलाने थे जनराजीज

मिथ्या भय । वे समझते थे कि कभी तीव्र और कभी मीठे-मधुर वाक्यवाण छोड़कर आसानीसे मैजिनी और गैरिवाल्डीके समग्रत्रीय बना जा सकता है । उस दिनकी द्वीण और अवास्तव शूर-वीरताको लेकर आज हम गौरव - गान करें तो उसमें क्या पड़ा है ! आज जो आये हैं वे राष्ट्रीय स्वार्थके कलुपसे मुक्त हैं, मानवमें वे महात्मा हैं ।

राष्ट्रतन्त्रके अनेक पाप और दोषोंमेंसे एक सबसे बड़ा पाप या दोष है उसमें स्वार्थ ढूँढ़ना, मतलब गौठनेकी फिराकमें रहना । राष्ट्रीय स्वार्थ बहुत बड़ा स्वार्थ है तो हुआ करे, फिर भी, स्वार्थकी जो गंदगी है वह उसमें आये बगेर रह ही नहीं सकती । असलमें 'पॉलिटिशैन' (राजनीति-जीवी) नामकी एक जात है, उनके आदर्शका महान आदर्शके साथ मेल नहीं बैठता । वे ज्यादासे ज्यादा मूठ बोल सकते हैं, और इतने ज्यादा ईर्षा और हिंसामय होते हैं कि अपने देशको स्वाधीनता देनेके बहाने दूसरे देशोंपर अधिकार जमानेका लोभ नहीं छोड़ सकते । पाइचात्य देशोंमें यही देखा गया है कि एक तरफ तो वे देशके लिए प्राण तक दे सकते हैं और दूसरी तरफ देशके नामपर अनाचारोंको बढ़ावा देनेमें भी कोई कसर नहीं रखती है ।

पाइचात्य देशोंने किसी दिन जिस मूसलको जना था, आज उसकी शक्ति यूरोपके सरपर पड़नेको तैयार खड़ी है । आज ऐसी हालत हो गई है कि सन्देह होता है, आजकी यूरोपीय सभ्यता कल तक टिकेगी या नहीं ! जिसे बहावाले पेट्रियोटिज्म (देशभक्ति) कहते हैं वही पेट्रियोटिज्म ही उन्हें मारकर खत्म कर देगा । वे जब मरेंगे, तो इसमें सन्देह नहीं कि हमारी तरह चुपचाप निर्जीवकी भाँति नहीं मरेंगे वल्कि भयङ्कर आग भड़काकर एक भीषण प्रलय लाकर उसमें मरेंगे ।

हमारे अन्दर भी असत्य आ गया है, मूठ समा गया है । दलवन्दीका जहर फैला दिया है उन लोगोंने जो पॉलिटिशैन - जातके हैं । आज उस पॉलिटिक्स (राजनीति) ने विद्यार्थियों तकमें दलवन्दीका जहर घुसा दिया है । ये राजनीति-जीवी 'कामके आदमी' ठहरे । वे समझते हैं कि 'काम हासिल करनेके लिए 'मूठ' की जहरत पड़ती है ।' लेकिन अफसोस सिर्फ इतना ही

है कि विधाताके विधानमें वह छल-चतुराइ पकड़ाइ देगी ही। राजनीति-जीवियोंकी, उनकी नाना छल-चतुराइयोंके लिए हम तारीफ कर सकते हैं, किन्तु भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति कर सकते हैं महात्माकी, जिनमें सत्यकी साधना है। असत्यके साथ मिलकर उन्होंने सत्यकी सार्वभौमिक धर्मनीतिको अस्वीकार नहीं किया। भारतकी युग-साधनामें यह एक परम सौभाग्यका विषय है। इस एक मानवने, जिसने सत्यको हर हालतमें माना है, भले ही उससे अभी कुछ फल या सहृदयित मिले चाहे न मिले, इसमें सन्देह नहीं कि इस एक महामानवने भनुष्यके आगे ऐसा एक दृष्टान्त रख दिया है जो महान् है, शाश्वत है।

विज्ञमें स्वाधीनता और स्वाधीनता प्राप्त करनेका इतिहास सर्वत्र ही खूनकी धारासे कल्पित और गन्दा है, अपहरण और दस्युतासे कलंकित है। महात्मा गान्धी ही एक ऐसे साहसी वीर पुरुष हैं जिन्होंने आदमीको ऐसा एक प्रशस्त और मानवी मार्ग दिखाया कि जिसमें वगैर खून-खराबीके, विना हत्याकांडके भी स्वाधीनता हासिल की जा सकती है। लोगोंने लोगोंको चूसा है, पीसा है, हड़पा है, और विज्ञानने की है देशके नामपर ढाकेजनी। देशके नामपर ऐसे कृत्योंके लिए आज जो उनमें गौरव है वह हरगिज ठिक नहीं सकता। हमारे अन्दर ऐसे आदमी बहुत ही कम हैं जो हिंसाको मनसे दूर करके कुछ देख सकते हैं। क्या हम इस वातको मनसे मानते हैं कि हिंसा-प्रवृत्तियोंको अंगीकार किये विना भी हम विजयी हो सकते हैं? महात्मा अगर वहुबली योद्धा होते या रणज्ञेवमें संग्राम करते, तो हम इस तरह आज उनका स्मरण नहीं करते। कारण, युद्ध जीतनेवाले वीर पुरुष और वडे-वडे सेनापति संसार में अनेक पैदा हुए हैं और होते रहेंगे। भनुष्यका युद्ध है नैतिक युद्ध, धर्म-युद्ध। धर्म-युद्धके भीतर भी निष्ठृता है, इस वातका परिचय हमें 'भीता' और 'महामारत'में मिलता है। उसमें वहुबलके लिए स्थान है या नहीं, इस विषयको लेकर मैं वहस नहीं हेड़ना चाहता। किन्तु, यह जो एक अनुशासन है कि भरेंगे, पर मारेंगे नहीं, और ऐसे ही विजयी होंगे, यह बड़ी-भारी वात है, एक महान् वाणी है। यह चतुराइ या मतलब हाचिल करनेका बड़ीली-

पैच-परामर्श नहीं है। धर्म-युद्ध वाहरी जीत जीतनेके लिए नहीं होता, वह तो हारकर भी जीतनेके लिए होता है। अधर्म-युद्धमें 'मरना' मरना कहलाता है। धर्म-युद्धमें मरनेके बाद भी बहुत-कुछ वाकी रह जाता है,—हारको पार करके मिलती है जीत, और मृत्युको पार करके मिलता है अमृत। जिन्होंने इस सारतत्त्वको अपने जीवनमें उतारकर उसे अन्तरात्मामें मिलाकर एक कर लिया है, उनकी वात सुननेको हम मजबूर हैं, उनका कहना हमें मानना ही पड़ेगा।

इसकी जड़में शिक्षाकी एक धारा है। यूरोपमें हमने स्वाधीनताका कल्प और देशप्रेमका विभक्त रूप देखा है; अवश्य ही शुरू-शुरूमें इससे बहुत-कुछ लाभ हुआ है उन्हें, ऐश्वर्य भी मिला है। उन पाश्चात्य देशोंने ईसाई-धर्मको केवल भौखिक-रूपसे ही ग्रहण किया है। ईसाई-धर्ममें मानव-प्रेमके बड़े-बड़े उदाहरण हैं। जैसे, 'भगवानने मनुष्य होकर मनुष्यके दुःख-ताप सब अपनी देहपर मोले हैं, और इस तरह मनुष्यकी उन्होंने रक्षा की है; इसी लोकमें, परलोकमें नहीं।' 'जो सबसे ज्यादा गरीब हैं, उन्हें कपड़ोंसे और जो भूखे हैं उन्हें अन्नसे सहायता करना ही चाहिए'—यह वात ईसाई-धर्ममें जितनी साफ-साफ कही गई है उतनी शायद ही कहीं कही गई हो।

महात्माजी ऐसे ही एक ईसाई साधकके साथ मिल सके थे, जो मनुष्यके न्यायपूर्ण अधिकारको सब तरहकी वाधाओंसे मुक्त करनेके लिए ही जिन्दा थे। सौभाग्यसे उस यूरोपीय क्रुषि टालस्टॉयके पास रहकर महात्मा गांधीने ईसाई धर्मकी अहिंसा-नीतिकी वाणीके यथार्थ भावको भी समझा था। और भी बढ़कर सौभाग्यकी वात यह है कि वाणी ऐसे महापुरुषकी थी जिन्होंने संसारके अनेक विचित्र अनुभवोंके परिणाम-स्वरूप इस अहिंसा-नीतिके तत्त्वको अपने चरित्रमें उतारा था। मिशनरी या व्यवसायी प्रचारकोंके मुहसे मानव-प्रेमके बँधे बोल उन्हें नहीं सुनने पड़े। ईसाकी वाणीका ऐसा एक महान दान हमें मिलना ही चाहिए था, और वह मिला। मध्ययुगके मुसलमानोंसे भी हमें एक दान मिला है। दादू, कबीर, रजब आदि सन्त-कवि प्रचार कर गये हैं कि 'जो निर्मल है, जो मुक्त है, जो आत्माकी सबसे अच्छी वस्तु है, वह दीवारोंसे

घरे-हुए मन्दिर या भस्त्रिदमें किसी खास बनावटी अविकारीके लिए पहरेमें बन्द नहीं है ; वह विना किसी भेद-भावके सभी आदमियोंके लिए खुली-हुई निजी सम्पदा है । युग-युगमें ऐसा ही होता आया है । जो महापुरुष हैं वे संसारके दानको अपने माहात्म्यसे ही ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करनेके बाद अपने जीवनमें उत्तारकर जगतमें उसकी सचाइका प्रकाश चमका देते हैं । अपने माहात्म्यके द्वारा ही पृथु राजाने पृथिवीका दोहन किया था, रत्नोंसे भण्डार भरनेके लिए । असलमें, जो श्रेष्ठ महापुरुष हैं वे सभी धर्म, सभी इतिहास और सभी नीतियोंसे संसारका श्रेष्ठ दान ग्रहण करते ही हैं ।

इसकी श्रेष्ठ नीति कहती है कि 'जो नम्र हैं वे ही विजय पाते हैं'; और इसाई राष्ट्र कहते हैं, 'निष्ठुर औद्धत्य और निर्दय वल-प्रयोग द्वारा ही विजय ग्रास की जाती है ।' - इनमेंसे किसकी जीत होगी, अभी तक ठीक ठीक भालूम नहीं हुआ ; किन्तु, मिसालके तौरपर देखनेमें यही आता है कि औद्धत्य और वल-प्रयोगके फल-स्वरूप यूरोपमें आज नयङ्कर महानारी फैली हुई है ।

महात्माने नम्र अहिंसा-नीति ग्रहण की है, और चारों तरफ उसकी विजय फैलती ही चली जा रही है । उन्होंने जिस मानवी नीतिको अपने सम्पूर्ण जीवनमें उत्तारकर, उसका जो सत्य-रूप हमारे सामने रख दिया है, उसे हम पूरी तरहसे पाल सकें या नहीं, पर उस नीतिको हर्म मानना जहर पढ़ेगा । हमारे मनमें और आचरणमें रिपु और पापका संत्राम चल रहा है, उसके बावजूद, हमें पुण्यकी तपस्याकी दीक्षा लेनी ही पढ़ेगी अपने सत्यवती महात्मासे । आजका दिन स्मरणीय दिन है, कारण सारे भारतमें राष्ट्रीय मुल्कीकी दीक्षा और सत्यकी दीक्षा आज एक हो गई है सर्वसाधारणके मनमें ।

# जन्म-दिन

आज महात्माका जन्म-दिन है। आज हम सब आश्रमवासी मिलके आनन्दोत्सव मनायेंगे। मैं शुरुकी धुन शुरू किये देता हूँ।

आजकल ऐसे उत्सव ज्यादातर बाहरी आदतकी चीज बन गये हैं। कुछ छुट्टी और वहुत-कुछ उत्तेजना इन दोनोंसे उनकी देह बनती है। ऐसे चाल्लत्य और ऊल-फूलमें इन-सब उपलक्ष्य-उत्सवोंके गहरे तात्पर्यको मनसे ग्रहण करने का भौका विखरकर छिन्न-भिन्न हो जाता है।

जो भाग्यवान शुभ-मुहूर्तमें जन्म लेते हैं वे केवल वर्तमान-कालके नहीं होते। उन्हें यदि संकीर्ण वर्तमानकी भूमिकामें रखनेकी कोशिश की जाय तो उसमें वे नहीं समा सकते, और ऐसे उन्हें छोटा करके ही रखना पड़ेगा। इस तरह विराट कालके विस्तीर्ण पटपर जो शाश्वत मूर्ति प्रकट होनेवाली है उसे हम खण्डित कर डालते हैं। हम अपनी वर्तमान-आवश्यकताके आदर्शके विचारमें उनके महत्वको खत्म कर देते हैं। महाकालके विशाल पटपर जो चिन्त्र अद्वित होता है, विधाता उसमेंसे रोजमर्राके जीवनके आत्म-विरोध और आत्म-खण्डनकी अनिवार्य कुटिल और छिन्न-भिन्न रेखाओंको मिटा देते हैं, जो कुछ आकस्मिक और क्षणभंगुर होता है उसे पॉच्कर साफ कर देते हैं। जो हमारे प्रणम्य हैं उनकी एक सुदृढ़ और सम्पूर्ण मूर्ति संसारमें चिरन्तन बनी रहती है। जो महापुरुष हमारे समयमें जीवित हैं उन्हें भी उस रूपमें देखनेके प्रयासमें ही ऐसे उत्सवोंकी सार्थकता है।

आजके दिन भारतमें जो राष्ट्रीय विरोध है, हो सकता है कि परसों वह रहे ही नहीं। सामयिक अभिप्राय समयके प्रवाहमें न-जाने कहाँ विला जायें, कोई ठीक नहीं। मान लो, हमारी राष्ट्रीय साधना सफल हुई है, बाहरकी दिशासे हमारी और-कोई माँग वाकी नहीं रही, भारत स्वतन्त्र हो गया है, और इतना सब-कुछ होते-हुए भी आजके इतिहासका कौन-सा आत्म-प्रकाश अपनेको धूल-मिट्टीके खिचावसे बचाकर सिर ऊँचा किये खड़ा रहेगा, यही

खास तौरसे देखने-लायक वात है। इस वृष्टिकोणसे जब हम देखते हैं तो उम्रका जाते हैं कि आजके उत्सवमें जिन्हें लेकर हम आनन्द मना रहे हैं उनका स्थान कहाँ है, उनकी विशेषता कहाँ है। केवल राष्ट्रनैतिक प्रयोजन-सिद्धिके मूल्यसे उनका मूल्य आँकना जबरदस्त भूल होगी। उन्हें देखनेकी यह वृष्टि ही गलत है। हम उन्हें देखेंगे उनकी उस शक्तिकी महिमाकी उपलब्धि करके जिस वृद्धशक्तिके बलपर उन्होंने आज सारे भारतवर्षको प्रबलहृपसे सचेतन कर दिया है, अचैतन्यकी नोंदसे जगाकर सीधा खड़ा कर दिया है। यह शक्ति प्रचंड है, सुदृढ़ है, स्वयंसिद्ध है। उसने आज सारे देशको, उसकी द्वातोपरसे जगहल पत्थर हटाकर, हिला दिया है, जिससे निर्जीव देश आज सर्वीष हो उठा है। ऐसा लगता है भानो कुछ ही वर्षोंमें भारतका हपान्तर या जन्मान्तर हो गया हो। इनके आनेके पहले देश भयसे सिकुड़ा-हुआ था और सङ्कोचसे मुँह ढिपाये पड़ा था। सिर्फ इतना ही था कि दूसरोंकी मेहरबानी पानेके लिए अरजियाँ पेश करना। और देशकी नस-नसमें समाई हुई थी अपने प्रनिश्चाहीन दीनता।

मला इससे बढ़कर दुर्गति और दुर्भाग्यकी वात और क्या हो सकती हैं कि भारतमें बाहरसे आये-हुए जो सिर्फ आगन्तुक-मात्र हैं उन्होंका प्रभाव हो बलशाली, और देशके इतिहासके साथ आई-हुई युग-प्रवाहित भारतकी अपनी प्राण-धारा, अपनी जीवन-धारा, वह हो जाय म्लान, बुम्ती-सी ! मानो वह अपनी चीज ही न हो, आकस्मिक और बाहरी चीज हो ! सेवाके द्वारा, ज्ञानके द्वारा, मैत्री और प्रेमके द्वारा घनिष्ठहृपसे देशकी उपलब्धि होने देनेमें सचमुच ही हम परदेशी बन गये हैं। मोहसे घिरे-हुए हमारे ननने लगभग नान ही लिया था कि हमारे शासनकर्तां जो हमें शिक्षा दे रहे हैं तलवार बन्दूक लिये हुए, वे ही राष्ट्रकी व्यवस्था कर रहे हैं। भारतमें वे ही मुल्य हैं और हम हैं गौण। मोहाविष ननकी इस तरहकी स्वीकृतिने, कुछ दिन पहले तक, हम सबको तामसिकतासे जड़बुद्धि कर रखा था। इतनेमें लोकमान्य तिलक जैसे कुछ साइसी पुरुषोंने प्राणोंको बाजी लगाकर इस जड़तापर चारों तरफसे बड़ी कड़ी चोट की, और आत्म-श्रद्धाके आदर्शको जगानेके काममें वे जी-जानसे जुट

पड़े । किन्तु कार्यक्रमें इस आदर्शका विशाल-रूपमें प्रबल प्रभावके साथ प्रयोग किया महात्मा गान्धीने । भारतवर्पकी प्रतिभाकी अपनी आन्तरात्मामें अनुभूति करनेके बाद अपनी असाधारण तपस्याका तेज लिये-हुए वे उत्तर पड़े नंबीन युगके गठन-कार्यमें । और हमारे देशमें आत्म-प्रकाशका भयहीन अभियान, सत्य-विजयकी निर्भीक युद्धयात्रा, इतने दिन बाद अपने स्वरूपमें ठीक तौरसे शुरू हुई ।

अब तक हमारी कायरताकी पृष्ठभूमिपर अपना दुर्ग खड़ा करके विदेशी वर्णिक हमपर साम्राज्यवाद या हुक्मतका कारोबार चलाते आये हैं । उनके अस्त्र-शस्त्र और सेना-सामान्तोंको यहाँ पांव धरनेकी जगह ही नहीं मिलती अगर हमारी नानाप्रकारकी कमज़ोरियाँ, ईर्पा-द्रेप, वदला लेनेकी भावना आदि उन्हें शरण न देती । अपने पराजयका सबसे बड़ा उपादान हम अपने ही भीतरसे उन्हें देते रहे हैं । हमारी इस अपनी पैदा की-हुई हारसे छुटकारा पानेका रास्ता दिखाया महात्माने । उन्होंने नये वीर्यकी अनुभूतिकी भारतमें एक बाढ़-सी ला दी । अब शासकवर्ग तैयारी कर रहा है हमसे समझौता करनेकी ; क्योंकि अहिंसा-सत्यके प्रभावसे आज शासनतंत्रकी गहरी नींव हिल उठी है, हमारी वीर्यहीनतामें जिसकी जड़ थी वह नींव ! आज हम आसानीसे विश्व-जगतमें अपने स्थानका दावा कर रहे हैं ।

इसीसे, आज हमें जानना चाहिए कि जो आदमी विलायत जाकर गोल टेबिल समाकी वहसमें शरीक हुआ है, जिसने खादी और चरखेका प्रचार किया है, जो प्रचलित चिकित्सा-शास्त्र और वैज्ञानिक यन्त्रोंमें विश्वास करता है या नहीं करता, उस महापुरुषको इन-सब छोटी-छोटी वातों और कामोंकी चहारदीवारीमें घेरकर हम न देखें । क्योंकि इतना ही उसका सब-कुछ नहीं है । ये सब वातें तो अत्यन्त तुच्छ और बाहरी चीज हैं । अपने समयकी जिन-सब सामयिक घटनाओंसे वे धिरे-हुए हैं, उन मामलोंमें त्रुटि-विच्युति भी हो सकती है ; उस विषयमें वहस भी की जा सकती है, किन्तु, 'एहवाह्य' । अपनी त्रुटि-विच्युतियोंको वे खुद ही समझते रहे हैं और सर्वसाधारणके सामने स्वीकार भी करते रहे हैं । किन्तु जिस अविचलित निष्ठा और

आत्म-विद्वासने उनके समूर्ज जीवनको सुमेल्सा निश्चल बना दिया है, विद्वार्थी संकल्प-शक्ति अपराजेय है, वह उनके साथ ही जन्म लेनेवाली उनकी निजी चीज है; कर्णके सहजात क्रचसे ही उसकी तुलना की जा सकती है। इस शक्तिका प्रकाश भलुष्यके इतिहासमें चिरस्थार्यी सम्पदाका प्रकाश है। जहरतोवाले संसारमें नित्य-परिवर्तनकी धारा वह रही है; किन्तु हमारे लिए चीखने-जाननेकी वात यह है कि हम उन सारी जहरतोंको पार करके, जिन भहाजीवनकी महिमा आज हमारे सामने उद्घाटित हुए हैं उसकी श्रद्धा करना चीखें, उनके स्वरूपको हम अपनी अन्तरालाके स्वरूपमें निलाकर एक कर लें, और उसीमें अपनी नुचिका दर्शन करें।

नहालाके जीवनका वह आत्म-तेज आज सारे देशमें व्याप हो गया है; और वह हमारी म्लानताका मार्जन कर रहा है, हमारी गन्दगीको धो-पोंछकर साफ कर रहा है। उनकी वह तेजोदीप साधक मूर्ति ही आज भहालालका आसन अधिकार कियेहुए है। वाधा-विज्ञ और वापत्ति-विपत्तियोंको वे मानते ही नहीं, उनके अपने भ्रमने उन्हें खण्डित नहीं किया, सामयिक उत्तेजनाके धेरमें रहते-हुए भी वे उचके लिए हैं, उनका उन अप्रभ्रत है, सुनातन सत्यपर सुदृढ़ और सदाज्ञात्रत है। ऐसी विद्वाल चरित्र-शक्तिके जो आधार हैं, उनको, उन्होंके जन्म-दिनमें आज हम नमस्कार करते हैं।

अन्तमें नेरा कहना ही है कि पूर्वपुरुषोंकी पुनरावृत्ति करना ही भलुष्य-धर्म नहीं। जीव-जन्म ही अपने अन्यास या आदतके दुष्ट-फूटे धोंसुलेको छातीसे चिपटाये पड़े रहते हैं; किन्तु भलुष्य दुग्ध-दुग्धमें नई-नई सूषिके साथ अपना विकाश और प्रकाश किया करता है; पुराने संस्कार कभी भी किसी कालमें उसे बांधकर नहीं रख सकते। नहाला गार्वाने मारतवर्यकी वहु-युगव्यापी अन्यता और नूड आचरणके विस्त्र जिस विद्रोहिको एक तरफसे जगाकर खड़ा कर दिया है उसमें हमारी चावना यही होनी चाहिए कि हम इब तरफसे उसे प्रबल और चिरस्थार्यी बनानेमें कोई चात उठा न रखें। जाति-भेद, धर्म-भेद, सन्प्रदाय-भेद और नूड संस्कारोंके भैंसरमें पड़कर जब उक हम उसके चक्रमें घूमते-भटकते रहेंगे, तब तक किसीकी ताक्षन है कि हमें

मुक्ति दे सके । सिर्फ बोटोंकी गिनती और परस्पर एक-दूसरेके अधिकारोंका वालकी-खाल-निकालनेवाला हिसाब जोड़कर कोई भी जाति या राष्ट्र दुर्गतिसे अपना उद्धार नहीं कर सकता । जिस जातिकी नींव विज्ञ-विरोधोंके आत्मघार्ता<sup>१</sup> आक्रमणोंसे जर्जरित हुई पड़ी है, जहाँके लोग पोथी-पत्राबोंकी टोकनियोंमें कूड़ा-करकट ढोनेमें अपना गौरव समझते हैं और विचार-विवेकहीन मूढ़ चित्तसे पुस्यानुक्रमिक पाप-क्षालनके लिए विशेष मुहूर्तके विशेष जलाशयकी ओर नहानेको दौड़ा करते हैं, और जो आस-वाक्यकी दुहाई देकर आत्मवृद्धि और आत्मशक्ति की अवमाननाको प्यारसे पालते-पोसते रहते हैं, वे कभी भी ऐसी साधनाओंको स्थायित्व और गाम्भीर्यके साथ आगे नहीं बढ़ा सकते जो साधना मनुष्यको भीतर और बाहरसे गुजारीसे छुड़ा सकती है और जिसके द्वारा स्वाधीनताके दुर्घट दायित्वको समस्त शत्रुओंके हाथसे दृढ़ शक्तिके साथ बचाया जा सकता है । हमें याद रखना चाहिए कि बाहरके दुःखनोंसे लड़नेमें उतनी शूर-बीरताकी जरूरत नहीं पड़ती जितनी कि अपने भीतरके दुःखनोंसे लड़नेमें जरूरत पड़ती है । अपने भीतरी शत्रुओंसे जूँकनेमें ही मनुष्यकी चरम परीक्षा है । आज जिनके प्रति हम अपनी श्रद्धा अर्पण कर रहे हैं वे ऐसी चरम परीक्षामें विजयी हुए हैं । देश अगर उनसे इस दुर्घट संग्राममें विजयी होनेकी साधना ब्रह्मन कर सका, तो आपके-हमारे ये प्रशंसाके वाक्य और उत्सवका आयोजन सब-कुछ व्यर्थ हैं । हमारी साधना आजसे शुरू होती है । दुर्गम मार्ग हमारे सामने पड़ा है ।

## पापके खिलाफ

सूर्यके पूर्णग्रास-लग्नमें अन्धकार जैसे क्रमशः धीरे-धीरे सम्पूर्ण दिनपर ढा लाता है, ठीक वैसे ही आज मृत्युकी ढायाने सारे देशको आच्छन्न कर रखा है। ऐसी सर्वदेशव्यापी उत्कंठा भारतके इतिहासमें पहले कभी नहीं देखनेमें आई, परम शोकमें यही हमारे लिए एक महान् सान्त्वना है। देशके छोटेसे लेकर घड़े तक साधारण और असाधारण सबके हृदयको आजकी इस बेदनाने स्पर्श किया है। जिन्होंने अपनी बहुत दिनोंकी दुःखकी तपत्यामें सारे देशको यथार्थ और गम्भीर-हृपमें अपना लिया है उन्होंने महात्माने आज हम सबकी तरफसे मरणव्रत ग्रहण किया है।

देशको अख-शस्त्र सेना-सामन्तों और बाहुदलसे जीतनेवालोंका प्रताप चाहे कितना ही जवरदस्त क्यों न हो, जहाँ देशकी प्राणवान सत्ता है वहाँ उनका प्रवेश हरगिज नहीं हो सकता। देशके हृदय-क्षेत्रमें सूर्यकी नोकके धराधर भी भूमि जीत चके, इतनी भी शक्ति नहीं है उनमें। भारतपर अत्यके जोरसे अधिकार बहुत बार बहुतेरे विदेशियोंने किया है। यहाँकी जमीनमें उन्होंने अपना झण्डा भी गाड़ा है; पर वादमें झंडा मिट्टीमें गिरकर मिट्टीमें ही भिल गया है। अख-शस्त्रका धेरा ढालकर विदेशमें लो अपने अधिकारको स्थायी करनेकी दुराशा भननें पोपण करते हैं, एक-न-एक दिन कालके आहान से जब उन्हें नेपथ्यमें छिपना पड़ता है, उसी धृण उनकी कीर्तिका कूड़ा इंट-पत्थरके भग्न-स्तूपमें दब जाता है। और, जो सत्यके बलपर विजयी होते हैं उनका आधिपत्य उनकी आयुको पार करके देशके मरम्त्यानमें सदा विराजा करता है।

देशके सम्पूर्ण चित्तपर जिनका ऐसा अधिकार है, उन्होंने सगव देशकी तरफसे आज और-एक जयवात्रा शुरू की है। उस यात्राका मार्ग है चरम आत्मोत्सर्गका मार्ग। आखिर किस दुर्घट आधाको वे दूर करना चाहते हैं जिसके लिए इन्हीं वड़ी कीमत देनेमें भी वे नहीं ज़कुच्चाये? तब्दी होकर आज हमें इसी चातपर विचार करना चाहिए।

हमारे देशमें डरका एक कारण है। जो चीज मानसिक है उसे हम वाहरी दक्षिणा देकर सस्ते सम्मानके साथ विदा कर देते हैं। चिह्नको खड़ा मानकर सत्यको छोटा किया करते हैं। आज देशके नेताओंने तथ किया है कि देशवासी उपवास करें। मैं कहूँगा कि इसमें कोई दोष नहीं, किन्तु डर है। डर इस बातका है कि महात्माजी अपने प्राणोंकी बाजी लगाकर उसके एवजमें जिस सत्यको प्राप्त करनेकी कोशिश कर रहे हैं उसकी तुलनामें हमारे काम बहुत ही हल्के और वाहरी होकर कहीं हमारी लज्जाको और-भी बढ़ा न दें। हमारा यह काम हृदयके आवेगको किसी एक अस्थायी दिनके साधारण दुखके लक्षणोंसे धीरे रेखामें चिह्नित करके 'कर्तव्य तुका डालने'-जैसी एक दुर्घटना बनकर ही न रह जाय। हम उपवासका अनुष्ठान करेंगे, क्योंकि महात्माजी उपवास कर रहे हैं; किन्तु इन दोनोंके किसी भी अंशको एकसाथ रखकर तुलना करनेकी मुद्दता भी हममेंसे किसीके मनमें नहीं आनी चाहिए। क्योंकि ये दोनों कर्तव्य एक चीज नहीं। उनका उपवास अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक वाणी है, एक सन्देश है, चरम भाषाका चरम सन्देश। मृत्यु उनके उस सन्देशको समग्र भारतमें, सम्पूर्ण विश्वमें, चिरकाल तक घोषित करती रहेगी। उस सन्देशको ग्रहण करना ही अगर हम अपना कर्तव्य समझते हों, तो उसे यथोचित-स्पसे सम्पन्न करना होगा। तपस्याके सत्यको तपस्याके द्वारा ही अन्तरात्मामें ग्रहण करना होगा।

आज हमें यह विचारकर देखना चाहिए कि 'वे क्या कहते हैं?' संसार भरमें, मानव-इतिहासके आरम्भसे ही हम देखते हैं कि एक दलके लोग दूसरे दलके लोगोंको अपने नीचे ढालकर, उनके ऊपर अपना ऊँचा महल बनाकर, उसकी छतसे अपनी उन्नतिका प्रचार किया करते हैं। अपने दलके प्रभावकी प्रतिष्ठा करते हैं दूसरे दलकी दासतापर। मनुष्य बहुत लम्बे अरसेसे यह काम करता आया है, किन्तु फिर भी हम कहेंगे कि यह अमानुषिक है। इसीसे दास-निर्भरताकी नींवपर खड़ा आदमीका यह ऐश्वर्य स्थायी नहीं हो सकता। इससे सिर्फ दासोंकी ही दुर्गति होती हो सो बात नहीं, प्रभुओंका भी विनाश होता है। जिन्हें हम अपमानित करके पांवोंके नीचे कुचलते रहते हैं वे ही

हमारे लिए आगे कदम रखने देनेमें सबसे बढ़कर वाधक होते हैं, वे अपने भारी 'वोझसे हमें पकड़के नीचेकी तरफ खोंचे रहते हैं। जिन्हें हम हीन या नीच बनाये रखते हैं वे भी क्रमशः हमें हेय और दीन बना देते हैं। आदम-खोर सभ्यता रोगोंसे जर्जरित होगी ही और मरेगी ही। मनुष्यके देवताका यही विधान है। भारतमें मनुष्योचित सम्मानसे जिन्हें हमने वंचित कर रखा है उनके अगौरव और अवमाननासे हमने सारे भारतका ही गौरव और सम्मान घटाया है।

भारतमें आज हजारों आदमी जेलमें बंद हैं। आदमी होकर जानवरकी तरह वे सताये और लांछित किये जाते हैं। मनुष्यकी यह पहाड़-सी इकट्ठी हुई अवमानना सारे शासनतंत्रको अपमानित कर रही है, अपने भारी वोझसे उसे अचल किये दे रही है। ठीक इसी तरह, हमने भी अपनान और घृणाके घेरेमें कैद कर रखा है समाजके एक बड़े हिस्सेको। उनकी हीनताका भारी वोझ लादे हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बन्दी-दशा तो सिर्फ जेलकी चहारदीवारीके अन्दर ही नहीं होती, मनुष्यके हड्कको हड्पना ही तो बन्धन है। वेइंजरीके बराबर कैद और क्या हो सकती है! भारतमें इस कारागार को हम एक-एक मंजिल करके बराबर बढ़ाते ही छले आ रहे हैं। ऐसे बन्दियोंके देशमें हन सुक होना भी चाहें तो कैसे हो सकते हैं! असलमें, जो सुक्ति देते हैं वे ही सुक होते हैं।

आज तक ऐसे ही चलता था रहा था, ठीकसे हम समझ ही न पाये थे कि कहीं हमारा पांच फैसा-हुआ है। सहसा भारत आज नुस्खिकी जाधनासे जाग उठा। हम प्रतिज्ञा कर देटे कि हमेशाके लिए बिंदेशी शासनके शिकंजेमें कसकर मनुष्यको पंगु बनाये रखनेको इस व्यवस्थाको हम नहीं मानेंगे। ठीक उसी समय विधाताने हमारी आंखोंमें उंगली दालकर दिखा दिया कि हमारे पराजयके अन्वकारपूर्ण गहरे गढ़टे कहाँ हैं। आज देशके नुस्ख-नाभक तापसोंको वहाँ जाकर स्कना पड़ा जहाँ हमने लंधेरा कर रखा था। उनकी

साधना उन्हींके द्वारा वाधा-प्राप्त हुई जिनको हमने नाचीज समझ रखा था । जो छोटे थे, उन्हींने आज बड़ोंको कर दिया अकृतार्थ । तुच्छ समझकर जिन्हें हमने मारा है, वे ही आज हमें सबसे बड़ी मार मार रहे हैं ।

एक आदमीके साथ दूसरे आदमीकी ताकतकी स्वाभाविक कमी-वेशी होती ही है । राष्ट्र या जातियोंके विषयमें भी ठीक यही बात है । उन्नतिके रास्तेमें सब-कोई एकसी दूरी तक आगे नहीं बढ़ पाये हैं, और उसीको उपलक्ष्य करके उन पीछे-पढ़े-हुओंको जब अवमाननाकी दुलंघ्य चढ़ारदीवारी खड़ी करके स्थायीहपसे पीछे डाल रखा जाता है, तभी पाप जमा हो उठता है, और तभी अवमाननाका जहर देशके एक अंगसे सारे अंगोंमें फैलता रहता है । इस तरह हमने मनुष्यके सम्मानसे जिन्हें देश-निकाला दे दिया उन्हें हमने हराया है । यहों हमारी कमजोरी जमकर बैठ गई, और यहों मिल गया शनिग्रहको घुसनेका चौड़ा सूराख । इसी सूराखसे पराजय घुसी । और बार-बार उसने हमें मुकाया । उसके भीतरकी चिनाई रह गई थी कच्ची, चोट पड़ते ही ढह गई दीवार । समय पाकर जो भेद दूर हो सकता था उसे हमने कोशिशके साथ, समाज-नीतिकी दुहाई देकर, चिरस्थायी बना दिया । इस भेद-नुद्विके अभिशापसे हमारी राष्ट्रीय मुक्ति-साधना बार-बार व्यर्थ हो रहीं हैं ।

जहाँ भी एक वर्गकी वेइज़तीके ऊपर दूसरे वर्गकी इज्जतकी नींव जमाई गई है, वहीं मार-सामंजस्य विगड़ जानेसे संकट आ खड़ा हुआ है । इसीसे समझमें आ सकता है कि साम्य-धर्म ही मनुष्यका मूल-धर्म है । यूरोपमें एक राष्ट्र-जातिके अन्दर और-कोई भेद अगर न भी हो, तो भी, श्रेणीभेद तो है ही । श्रेणीभेदमें सम्मान और सम्पदाका बँटवारा समान नहीं होता । इसीसे वही पूँजीपतियोंके साथ कर्मपतियोंकी (मजदूरोंकी) अवस्थाका जितना ही फर्क पड़ता जाता है उतनी ही उसकी नींव हिलने लगती है । इस असाम्यके भारसे वहाँकी समाज-व्यवस्था आये-दिन वीमार पड़ती ही रहती है । अगर आसानीसे साम्यकी रक्षा हुई तब तो खैर है, नहीं तो छुटकारेका कोई रास्ता ही नहीं । आदमी जहाँ कहीं भी आदमीको सतायेगा वहीं उसकी सारीकी सारी मनुष्यता घायल होगी, और वह घाव उसे मौतकी ओर घसीट ले जायगा ही ।

समाजके भीतरकी इस असमानताकी तरफ, इस घृणा और भेद-भावकी ओर, महात्माजी वहुत अरसेसे हमारा ध्यान आकर्पित करते आरहे हैं। फिर भी जितनी चाहिए उतनी लगन और कोशिशसे हमने इस दिशामें अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया है। चरखा और खादीकी तरफ हमने ध्यान दिया है, आर्थिक दुर्गतिकी ओर भी हमारी निगाह दौड़ी है; किन्तु समाजिक पाप मिटानेकी दिशामें हमारी आँखें नहीं खुलीं। इसीलिए आज ऐसे दुःखके दिन हमारे आगे आये। आर्थिक दुःख वहुत-कुछ बाहरसे आया है, उसका रोकना सम्भालना वहुत ज्यादा मुश्किल नहीं भी हो सकता है; लेकिन जिस पापके ऊपर हमारे सभी शत्रुओंका आध्रय है उसे जड़से उखाड़ फेंकना हमें अखरता है, क्योंकि उसपर हमारा भमत्व है। उस प्रध्रय-प्राप्त पापके खिलाफ़ आज महात्माजीने चरम युद्धकी धोषणा कर दी है। हमारे दुर्भाग्यसे इस रणझेत्रमें उनके शरीरका अन्त भी हो सकता है। किन्तु, इस युद्धकी जिम्मेदारी वे हममेंसे प्रत्येकपर सौंप जायेगे। यदि उनके हाधसे आज हम सर्वान्तःकरणसे उस भारको, उस दानको, ग्रहण कर लके, तभी आजका समय सार्थक होगा। इन्हें यहें आहानके बाद भी जो एक दिन उपचास करके उसके दूसरे दिनसे उदासीन हो जायेंगे, वे दुःखसे दुःखमें ही प्रवेश करेंगे, दुर्भिक्षसे निकलकर दुर्भिक्षमें ही कदम बढ़ायेंगे। इसलिए, हमारा कर्तव्य है कि निर्दे मानूर्णन्ता काय-कलेश करके सत्य-साधनाकी अवसानना हम हरगिज न करें, किन्तु उसके मूलतत्त्वको समझकर आज हम पाप दूर करनेका अन्तरात्मासे ब्रत ग्रहण करें।

## महात्माका पुण्यव्रत

युग-युगमें क्वचित् कभी इस संसारमें महापुरुषका आगमन होता है। हमेशा उनके दर्शन नहीं होते। जब होते हैं तब उसे अपना सौभाग्य ही समझना चाहिए। आज हमारे दुःखोंका अन्त नहीं। इतना पीड़िन, इतनी गरीबी, इतने रोग-शोक-दुःख-ताप हम नित्यप्रति भोग रहे हैं कि जिनकी हृद नहीं। हमारे आगे दुःखोंका पहाड़ जम गया है। फिर भी, सब दुःखोंको लाँघ गया है आजका हमारा यह आनन्द। जिस धरतीपर हम जिन्दा हैं, धूम-फिर रहे हैं, उसी धरतीपर एक महापुरुष, जिनकी तुलना नहीं, हमें मार्ग दिखाते फिर रहे हैं। उनका जन्म इसी भारतवर्षमें हुआ है जिसमें हम पैदा हुए हैं।

जो महापुरुष हैं वे जब आते हैं तब उन्हें हम अच्छी तरह पहचान नहीं पाते। क्योंकि हमारे मन डरपोक और मैले होते हैं, हमारा स्वभाव ढीला होता है, हमारे संस्कार-अभ्यासोंमें कमजोरियां भरी होती हैं। हमारे मनमें वह सहज-शक्ति नहीं है जिससे महानको पूरी तरह समझ सकें और ग्रहण कर सकें। बार-बार ऐसा होता रहा है कि जो सबसे बड़े हैं उन्होंको हमने सबसे अलग, सबसे दूर, डाल रखा है।

जो ज्ञानी हैं, गुणी हैं और कठोर तपस्वी हैं, उन्हें समझना आसान नहीं; क्योंकि हमारे ज्ञान बुद्धि और संस्कारोंका उनसे मेल नहीं चैतता। परन्तु एक चीजके समझनेमें दिक्षित नहीं होती, वह है प्रेम। जो महापुरुष प्रेमसे अपना परिचय देते हैं उन्हें हम अपने प्रेमसे किसी कदर समझ ही लेते हैं। इसीलिए भारतमें यह एक आश्चर्यकी बात हुई है कि अबकी बार हम समझ गये। ऐसा साधारणतः नहीं होता। जो हमारे बीच आये हैं वे अत्यन्त ऊँचे हैं, अत्यन्त महान् हैं। फिर भी हमने उन्हें स्वीकार किया है, उन्हें पहचान लिया है, सबने समझ लिया है कि 'वे हमारे हैं'। उनके प्रेममें ऊँच-नीचका भेद नहीं, विद्वान-मूर्खका भेद नहीं, अमीर-गरीबका फर्क नहीं।

अपना प्यार वे सबको एकसा बांट रहे हैं। वे कहते हैं, 'सबका कल्याण हो, सब सुखी हों।' उन्होंने जो-कुछ कहा है वह जवानी जमाखर्च नहीं, बल्कि दुःख और वेदनापूर्ण अन्तःकरणका शुभ-आशीर्वाद है। कितना दुःख, कितनी लांछना और कितना अपमान सहा है उन्होंने, जिसकी हद नहीं। उनके जीवनका इतिहास दुःखका इतिहास है। सिर्फ भारतमें ही दुःख भोगा हो और अपमान सहा हो, सो बात नहीं, दक्षिण-अफ्रिकामें भी इतनी मार सहनी पड़ी है कि जो उन्हें मौतके किनारे तक घसीट ले गई थी। उनकी यह तपस्या अपने विषय-मुखोंके लिए नहीं, बल्कि दूसरोंकी मलाईके लिए है। इतनी जो मार सही है वह हँसते-हँसते,—और उसके जवाबमें उन्होंने कभी जवान तक नहीं हिलाई, कभी गुस्सा तक नहीं हुए वे।

सब चोटें नतमस्तक होकर ग्रहण की हैं। शत्रु भी आश्चार्यसे दंग रह गये हैं उनका धीरज देखकर, महत्त्व देखकर। उनके सब सकल्य भिन्न हुए, किन्तु जोर-जवरदस्तीसे नहीं, बल्कि त्यागसे, तपस्यासे। और दुःख स्वीकार करके ही वे विजयी हुए हैं। वही महापुरुष आज भारतके दुःखका बोझ अपने दुःखके बलसे दूर करना चाहता है, आज उसका नया पुण्यव्रत शुरू हुआ है।

सबने उन्हें देखा है या नहीं, पता नहीं; लेकिन जानते उन्हें सभी हैं। सभी जानते हैं कि सारे भारतवर्षने उनकी कैसी भक्ति की है और नाम दिया है 'महात्मा'। आश्चर्य है, कैसे पहचाना सबने! महात्मा तो बहुतोंको कहा जाता है, पर उसके कोई मानी नहीं होते। किन्तु इस महापुरुषको जो महात्मा कहा गया है, उसके मानी हैं। जिसकी आत्मा यही है, जो मठान है, वही महात्मा है। जिनकी आत्मा छोटी है, संकुचित है, विषय-ओरोंमें लालद है, धन-दैलत और घर-गृहस्थीके चिन्नामें केंद्र है, वे दोनोंता हैं। महात्मा वही है जिसने सबके सुख-दुःखको अपना लिया है और जो सदकी भलाईको अपनी भलाई समनकरता है। कारण, सबके दृश्यमें उसके लिए जगद है और उसके लूद्यमें सबके लिए। हमारे शास्त्रोंमें ईश्वरको महात्मा दउ गया है। नर्त्यलोकमें कैसे दिव्य-प्रेमर्जी विभूति देवसे ही कवचित्-कट्टी देखनेहो; मिन्नी है। ऐसा प्रेम जिसने प्रकृट द्रोता है, उन्हें हम जिसे दूसी रूपमें जानते हैं

कि वे हृदयसे सबको प्यार करते हैं। सम्पूर्ण-रूपसे नहीं समझ सकते, क्योंकि उसमें कुछ बाधाएँ हैं। एक तो, हमारा ज्ञान मन्द है, और दूसरे, हमारा मन टेढ़ा हो गया है। सत्यको स्वीकार करनेमें कायरता दुष्कृति और संशय हमारे मनको ऐसे धेर लेते हैं कि उस व्यूहसे बाहर निकलना हमारे बूतेके बाहर हो जाता है। तीसरे, जो-कुछ विना कष्टके मान सकते हैं उतनेको ही मानते हैं हम, कठिनको सरकार रख देते हैं एक कोनेमें। यही वजह है कि महात्माजीके सबसे बड़े सत्यको हम नहीं अपना सके। यहीं हमने उन्हें मार दिया। वे आये और लौट गये,—अन्त तक उन्हें ग्रहण ही नहीं कर सके हम, अपना ही नहीं सके हम उन्हें।

इसाई-शास्त्रमें पढ़ा है कि आचारवान यहूदियोंने इसाको शत्रु समझकर मारा था। पर मार क्या सिर्फ देहकी ही होती है? जो प्राण देकर कल्याणका मार्ग खोलने आते हैं, उनके उस मार्गमें रोड़े अटकाना,—यह भी क्या मार नहीं है? सबसे बड़ी मार तो यही है। कितनी जबरदस्त पीड़ा और असृष्टि वेदनाका अनुभव करके आज उन्होंने मरणव्रत ग्रहण किया है! उस ब्रतको अगर हम स्वीकार नहीं कर लेते, तो क्या हम उन्हें मार नहीं देते? हमारे क्षेत्र मनका संकोच और कायरता क्या आज भी नहीं शरमायेगी? हम क्या उनकी वेदनाको अपने मर्मस्थलमें ठीक जगहपर अनुभव नहीं कर सकेंगे? नहीं ग्रहण कर सकेंगे उनके सौंपे-हुए भारको, उनके दिये-हुए दानको? आज अगर हम डरसे पीछे कदम रखेंगे तो मारे शरमके संसारमें मुँह दिखाने लायक भी न रहेंगे हम। उन्होंने महाब्रत-लिया है क्षेत्र-बड़े सबको एक करनेके लिए। अगर हम सच्चे हैं तो उनका वह साहस, उनकी वह शक्ति जखर आयेगी हमारे मनमें, हमारी दुष्कृतिमें, हमारे काममें।

हम अक्सर यह कहा करते हैं कि विदेशियोंने हमसे दुश्मनी निभाई है। किन्तु, उनसे भी वड़ा दुश्मन भौजूद है हमारी नसोंमें; वह है हमारी कायरता, हमारी भीरता। आज उस भीरतापर विजय पानेके लिए विवाताने हमारे लिए एक शक्ति भेजी है महात्माके जीवनके मारफत। वे अपने अभयसे हमारा

भय दूर करने आये हैं। इस कौपीनधारीने घर-घरका दरबाजा खटखटाया है। आज उन्होंने हमें सावधान कर दिया है कि कहीं हमारे लिए खतरा है। जहाँ आदमी आदमीका अपमान करता है, घृणा करता है, आदमीका भगवान् वही उससे मुँह मोड़ लेता है। सेंकड़ों बपौसे हम इस पापके विषसे भारतकी नाड़ी विपाक करते चले आ रहे हैं। इसीसे सारा देश आज कमज़ोर है, अस्वस्थ है। इसी पापसे आज हम सीधे होकर खड़े भी नहीं हो सकते। अपने चलनेके रास्तेमें हमने कदम-कदमपर दलदलके गड्ढे बना रखे हैं। हमारे सौभाग्यका बहुत-कुछ उन्हींमें हूवा जा रहा है। एक भाई दूसरे भाईके मायेपर अपने हाथोंसे कलङ्क लेय रहा है। महात्मासे उहा नहीं गया यह पाप।

सम्पूर्ण अन्तःकरणसे उनकी वाणी, और अपनेमें अनुभव करो कि कैसा प्रचण्ड है उनके सङ्कल्पका जोर ! आज उस तपत्वीने हमपास शुल्किया है। दिनपर दिन बीतते जाएंगे, किन्तु वे अज्ञ न खायेंगे। तो क्या हम नहीं देंगे उन्हें अन्न ? उनकी वाणीको ब्रह्मण करना ही, उनकी बात भानना ही, उन्हें अन्न देना है। उसीसे वे जीवेंगे, उसीसे हम जीवेंगे। अपराध हमने बहुत किये हैं, भाईके साथ दासों-जैसा बरताव किया है हमने। उसी स्थानिके कारण चारी दुनियाके आगे हमने अपनेको छोटा कर लिया है। संसारके अन्य भी समाजोंको लोग सम्मान देते हैं ; क्योंकि वे आपसमें एकताके बन्धनमें देखे हुए हैं। किन्तु हमारे हिन्दूसमाजके विषयमें बार-बार इस बातका प्रश्न मिल तूका है कि हमपर चोट करने और हमारा अपमान करनेमें किसीके भी मनमें डर नहों हैं। आखिर किस विरतेपर वे इन्होंनी हिम्मन करते हैं ?

महात्मा जो सम्मान सबको देना चाहते हैं वही सम्मान हम सबको देंगे। जो नहीं दे सकेगा, यिकू है उसको। भाईको भाई समक्ष अपनानेमें जो समाज बाधा देता है, यिकू है उस जीर्ण समाजको ! सभसे दर्शी कादरना तभी प्रकृट होती है जब सत्यको पहचाननेके बाद भी उसे बान नहीं पाते। ऐसी कायरताके लिए कहीं क्षमा नहीं है।

थ्राप इस देशपर वहुत दिनोंसे छाया-हुआ है। उसके लिए प्रायशिच्छत कर रहा है एक महात्मा। उस प्रायशिच्छतमें हम-सबको शरीक होना होगा, और इस मिलनसे ही हमारा चिर-मिलन शुरू होगा। अपने प्रायशिच्छतको उन्होंने मृत्युके विशाल पात्रमें रखकर हम सबके आगे बढ़ा दिया है। उसे अपनाओ, अपनाओ सब मिलकर। धोओ, धो डालो अपने सब पाप। डरो मत, मङ्गल होगा, कल्याण होगा, भला होगा। आज मैं महात्माकी अन्तिम वाणी सुनाना चाहता हूँ। वे दूर हैं हमसे, फिर भी पास हैं। वे हमारे भीतर हैं और सदा बने रहेंगे।

उन्होंने जो-कुछ चाहा है हमसे, माना कि वह दुर्घट दुःसाध्य व्रत है, किन्तु स्वयं उन्होंने उससे भी दुःसाध्य काम किया है, उससे भी कठिन व्रत धारण किया है। परमात्मासे यही कामना है कि उनके दिये-हुए व्रतको हम साहसके साथ ग्रहण कर सकें। जिससे हम उरते हैं वह कुछ भी नहीं,—माया है वह, मूँठ है, सच नहीं है वह, नहीं मानेंगे हम उसे। बोलो, आज सब मिलकर एककण्ठ होकर बोलो, 'हम हरगिज नहीं मानेंगे उस मूँठको।' बोलो, उन किस चातका? सबके उर-भयको तो वे स्वयं हरण कर वैठे हैं। मृत्यु-भयको जीत लिया है उन्होंने। लोक-भय, राज-भय, समाज-भय, कोई भी भय किसी भी हालतमें अब हमें संकुचित नहीं कर सकता। उनके मार्गपर उन्होंके अनुयायी बनकर चलेंगे हम,—उनका परामर्श, उनकी हार हम हरगिज न होने देंगे।

सारा संसार आज हमारी ओर देख रहा है कि हम क्या करते हैं। जिनके भनमें दया नहीं, दर्द नहीं, वे ही आज हमारा मखौल उड़ा सकते हैं। किन्तु याद रहे, इतनी बड़ी वात सचमुच ही मखौलकी वात हो जायगी अगर हमारे ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ा और नतीजा नहीं निकला। सारा संसार आज दंग रह जायगा अगर उनकी शक्तिकी आगमें पक्कर हमारा मन सौ-टंचका सोना बन जाय। उनकी आग हम सबके अंदर जल उठेगी अगर हम सब मिलकर एकसाथ बोल उठें, "जय हो तपस्वी तेरी! तपस्या तेरी सार्वक हो!"

हमारी यह जयधनि समुद्र पार करके वहाँ तक पहुंच जायगी जहाँके लोग हमारी दशापर निर्देशताकी मुसकान मुसका रहे हैं। फिर हमारे साथ वे भी मान लेंगे कि सत्यकी चाणी अमोघ है। तब धन्य होगा भरतवर्ष। तब संसार बोल उठेगा, 'हे महात्मा, हे महामानव, हम तुम्हें मानते हैं, तुम्हारे सत्यको मानते हैं।'

हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य तब आता है जब 'गैर' अपने हो जाते हैं, और सबसे बड़ा दुर्मिय या संकट तब आता है जब 'अपने' गैर हो जारे हैं। जान-चूम्कर जिन्हें हमने पराजित करा रखा है, आज हमें जान-चूम्कर ही उन्हें अपने पास बुलाना चाहिए। इससे हमारे अपराधोंका अन्त होगा, पाप धुल जायगा, अमंगल दूर हो जायगा। आओ, आज हम मनुष्यको गौरव देकर मनुष्यत्वका सगौरव अधिकार प्राप्त करें।

---

## ब्रत-उद्धापन

गहरी चिन्ता और उद्देशके साथ, मनमें आशा लिये-हुए पूना रवाना हुआ । लम्बा सफर था । जाते-जाते आशंका बढ़ उठी, ‘पहुंचकर न-जाने क्या देखना पड़े !’ बड़ा स्टेशन आते ही मेरे साथी अखबार खरीद लाते, वड़ी उत्कण्ठासे मैं उन्हें पढ़ने लगता, कोई अच्छी खबर नहीं पाता । डाक्टरोंका कहना था, ‘महात्माके शरीरकी हालत खतरनाक रास्तेसे गुजर रही है । देहमें मेद या मांसका वचा-खुचा हिस्सा इतना नहीं है कि जिसका क्षय और भी ज्यादा दिनों तक सहा जा सके, मांसपेशियों तकमें छीजन शुरू हो गई है । एपोल्यूक्सी (मूर्छा) होकर अचानक प्राणहानि हो सकती है ।’ इसके साथ यह भी पढ़ा कि ऐसी हालतमें भी उन्हें प्रतिदिन बहुत देर-देर तक जटिल समस्याओंके विषयमें स्वपक्ष और विपक्षके साथ गम्भीर आलोचना भी करनी पड़ रही है । आखिरमें जाकर उन्होंने भारतके अनुशत्-समाजको हिन्दू-समाजके अन्तर्गत रूपमें ही राष्ट्रनीतिक विशेष-अधिकार दिये जानेके विषयमें दोनों पक्षोंको राजी कर लिया । देहकी सारी कमजोरी और कष्टोंको जीतकर उन्होंने असाध्यको साध लिया । अब विलायतसे मंजूरी आने-भरकी देर है, उसीपर सब निर्भर करता है । मंजूर न होनेकी कोई वजह नहीं ; क्योंकि प्रधान मंत्रीने जवान दी थी कि अनुशत्-समाजके साथ एक होकर हिन्दू जो भी तथ करेंगे उसे वे भी मान लेंगे । आशा-निराशामें मूलता-हुआ मन लेकर छव्वीस सितम्बरको सवेरे हम कत्याण स्टेशन पहुंचे । वहाँ मिलीं श्रीमती वासन्ती और श्रीमती उर्मिला । जरा भी देर न करके उनकी मोटरमें बैठकर चल दिया पूना ।

पूनाका पहाड़ी रास्ता मनोरम है । शहरमें घुसते ही देखा कि फौजी दौड़-धूप चल रही है । बहुत-सी वालतरवन्द फौजी मोटरै, मशीनगनें और फौजके लोग इधरसे उधर सरगरमी फैला रहे हैं । अन्तमें श्री विट्ठल भाई ठाकरसी महाशयके घर जाकर उत्तरा । भीतर घुसते ही देखा कि गम्भीर आशंकासे हवा स्तब्ध हो रही है । सबके चेहरेपर दुश्चिन्ताकी छाया है । पूँछनेपर मालूम हुआ कि महात्माकी शरीरकी हालत संकटापन्न है । विलायतसे

अभी तक कोई खबर नहीं आई । प्रधानमंत्रीके नाम में सौ तुरत एक जहरी तार भेज दिया । इसकी कोई जहरत नहीं थी । तुरत ही कानोंमें भनक पड़ी कि विलायतसे मंजूरी था गई । पर इस अफवाहको सही सादित होनेमें कई घटे लग गये ।

महात्माजीका नौन-दिवस था आज । एक बजे बाद बात करेगी । उनकी इच्छा थी कि उस समय में उनके पास रहूँ । जाते-जाते यखदा-जेलसे कुछ दूर पहले ही हमारी नोटर रोक ली गई । अंगरेज सैनिकोंने कहा, “कोई भी गाड़ी आने नहीं जायेगी, हुक्म नहीं है ।” में तो यही समझता था कि कमसे कम आजके दिन तो जेलखानेका प्रवेशद्वार भारतके लिए खुला ही होगा । गाड़ीके चारों तरफ भीड़ इकट्ठी हो गई । हमारी तरफसे आदमी जेलके अधिकारियोंसे मंजूरी लेनेके लिए कुछ आगे बढ़ा ही पा कि इतनेमें चिरंजीव देवदास आ पहुंचे, जेलमें घुसनेका प्रवेशपत्र उनके हाथमें था । बादमें सुना कि नहात्माजीनं उन्हें भेजा था, कारण उन्हें अचानक ऐसा लगा कि शायद पुलिसने कहीं नेरी गाड़ी रोक ली है ।

लोहेके फाटक एकके बाद एक खुलते और बन्द होते गये । सामने दिखाई दे रही थी सेलकी कँची चहारदीवारीकी उड्ढण्डना, कँदी आकाश, भीथी लाल्हन-शुदा पक्षा रास्ता और दो-चार पेड़ ।

दो बातोंका अनुभव नेरे जीवनमें बहुत देरसे हुआ । एक तो विद्विद्यालय का फाटक पार किये मुझे ज्यादा दिन नहीं हुए । दूसरे, जेलखानेमें घुसनेकी छिप्पत न पड़नेपर भी, आखिर आज वा ही पहुंचा । कुछ सीढ़ियां तय करके दर्तारसे घिरे-हुए एक आंगनमें जा पहुंचा । दोनों ओर धलग-धलग करोंकी पंकिन्ती बर्ना थी । आंगनमें एक छोटेसे शामके पेड़की घनी ढायाके नीचे महात्माजी शश्याशायी थे ।

शुभ - संवादकी ज्ञानमें बदल आया हूँ, इसके लिए बप्पे भाग्यकी प्रसंसा की नीने उनसे । करीब नद टेझे दक्ष होगा । विद्यालयकी मृदर भारत-भरमें कैल गई थी ! और बादमें सुना कि राजनीतिक दल नद दूरील दस्तावेज लिये शिमलामें घैठे प्रकाश्य चलानें दृष्टि कर रहे, सत्रधारवालोंसे

भी मालूम हो गया था। किन्तु, जिनके प्राणोंकी धारा प्रतिक्षण क्षीण होकर मृत्यु-सीमासे लगना चाहती थी उन्हींका प्राण-संकट दूर करनेके लिए कोई खास जल्दी नहीं थी।

लम्बे लाल फीते और फाइलोंकी जटिल निर्ममता देखकर दुःख हुआ।

सबा-चार वजे तक उत्कण्ठा प्रतिक्षण बढ़ती ही गई। सुनते हैं, खबर दस ही वजे पूनामें आ गई थी।

चारों तरफ बन्धु-वान्धव और सहकर्मियोंकी भीड़ है। महादेव, बलभाई, राजगोपालाचारी, राजेन्द्रप्रसाद, सबोंको देखा। श्रीमती कस्तूरी वाई और सरोजिनीको भी देखा। जवाहरलालकी पत्नी कमला भी मौजूद थीं।

महात्माजीका स्वभावसे ही शीर्ण शरीर शीर्णतम हुआ पड़ा था। गलेकी आवाज लगभग सुनाई ही नहीं देती। पेटमें अम्ल-पित्त जम गया था, इससे बीच-बीचमें सोडा-गुदा पानी पिलाया जा रहा था। डाक्टरोंकी जिम्मेदारी चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी।

फिर भी आश्र्य है, उनकी चित्त-शक्तिका किञ्चिन्मात्र भी हास नहीं हुआ! विचारोंकी धारा ज्यों-की-त्यों वह रही है! चैतन्य रत्ती-भर भी नहीं थका! उपवासके पहलेसे ही कितनी दुर्घट दुश्चिन्तामें और कितनी जटिल आलोचनामें उन्हें अहोरात्र ढूवा रहना पड़ा होगा, जिसकी हद नहीं। समुद्र-पारके राजनीतिज्ञोंके साथ पत्र-व्यवहार करनेमें उनके मनपर कितना कठोर घात-प्रतिघात चला होगा! उपवासके समय नाना दलोंकी जबरदस्त मार्गोंने उनकी हालतपर रहम नहीं किया, यह सभी जानते हैं। इतना सब-कुछ होते हुए भी आश्र्य है कि उनमें मानसिक जीर्णता या थकानका कोई चिह्न ही नहीं दिखाई दिया! उनके विचारोंकी स्वाभाविक स्वच्छ प्रकाश-धारामें जरा भी कहीं कोई मैल-मिट्टी नहीं दिखाई दी! काय-ब्लेशकी साधनामेंसे भी उनकी आत्माके अपराजित उद्यमकी उस मूर्तिको देखकर मुझे दंग रह जाना पड़ा।

सचमुच, उनके पास विना गये मैं इस तरह उस स्वरूपकी उपलब्धि ही नहीं कर सकता था कि इतनी प्रचण्ड शक्ति है उस शीर्णशरीर महापुरुषमें।

बाज भारतवर्षके करोड़ों हृदयोंमें पहुंच गई। इस मृत्युवेदीके नीचे पड़े-हुए भद्रानहृदयकी वाणी। कोई भी वाधा उसे रोक नहीं सकी, दूरीकी वाधा, ईंट-पत्थरोंकी वाधा, विरुद्ध-राजनीतिकी वाधा, कोई भी नहीं। सदियोंकी जड़ताकी वाधा आज उस वाणीके सामने धूलमें भिल गई।

भ्रष्टवेने कहा कि मेरे लिए महात्माजी एकान्त मनसे प्रतीक्षा कर रहे थे। अपनी उपस्थितिसे मैं राज्यीय समस्याके समाधानमें छुट्ट उहायता कर सकता हूं, इतना अनुभव और ज्ञान मुक्तमें नहीं है। उन्हें जो मैं तुम्हि दे सका, वही मेरे लिए परम आनन्दकी बात है।

सब भीड़ करके खड़े रहेंगे तो उन्हें कष्ट होगा, यह भ्रमकर हम सब वहसि हटकर बहुत देर तक इधर-उधर इस प्रतीक्षामें बैठे रहे कि 'अब आती होगी खबर, अब आती होगी।' तीसरा पहर दीन चला, और धृष्ट ईंटकी चहार-दीवारीपर तिरछी पड़ रही। यहाँ-वहाँ दोन्हार शुभ्र-खादी पहने ग्रीष्मपुरुष शान्तभावसे बैठे बातें कर रहे थे।

ध्यान देनेकी बात है कि कारागारके भीतर हो रहा है यद्य सब-छुट। भीतरकी इस जनतामें, किसीके भी किसी वरतावर्में प्रश्न-जनित शिखिलता नहीं। चरित्र-शक्ति विक्षास ला देनी है इसीसे जेलके अधिकारी अदाके भाय ही इन सबको सम्पूर्ण स्वार्थीन-भावसे निरन्तर-खुलने दे रहे थे। इन कोरोंमें नद्रात्माजीके दिये-हुए वचनोंके लिङ्गाफ किसी तरहच्छा नाजायज फायदा नहीं ढाया। भालू-भयांदाकी दृढ़ता और अचलत्य इनमें परिस्फुट हो रहा है। देखते ही फौरन उन्हें आ जाता है कि भारतकी स्वराज्य-नामनामके दोन्हार साधक हैं ये।

अन्तमें जेलके अधिकारी उरकारी छाप-शुदा किसानों द्वारामें लिये घटा ला पड़ते। उनके चेहरेपर भी भानन्दका भानास देखा गया। भानन्दकी गम्भीरताके ज्ञाय धीरे-धीरे पड़ने लगे। मैंने भरोजनीसे कहा, "यद्य इनके दारों नरसे दृम दृद्धे दृष्ट जाना चाहिए।"

पढ़ चुकनेके बाद महात्माजीने साथियोंको बुलाया । सुना, उनसे उन्होंने ठोक-बजाकर देख लेनेके लिए कहा । और अपनी तरफसे जताया कि यह चिट्ठी डाक्टर अम्बेदकरको दिखाना जरूरी है । उनका समर्थन पानेके बाद वे निश्चिन्त हो सकेंगे ।

पास खड़े-खड़े सबोंने चिट्ठी पढ़ी । मुझे भी दिखाई । राष्ट्र-वुद्धिकी रचना थी, वड़ी सावधानीसे लिखी-हुई । सावधानीसे ही पढ़ी जाती हैं ऐसी रचनाएँ । समझा गया कि महात्माजीके अभिप्रायके विरुद्ध नहीं है चिट्ठी । पंडित हृदयनाथ कुंजरूपर भार दिया गया कि चिट्ठीके मूल वक्तव्यका विश्लेषण करके वे महात्माजीको सुनायें । उनकी प्रांजल व्याख्यासे महात्माजीके मनमें फिर कोई संशय नहीं रह गया ।

उपवास-त्रनका उद्यापन हुआ ।

दीवारके पास छायामें महात्माकी शश्या उठा लाई गई । चारों तरफ जेलके कम्बल विछाकर सब बैठ गये । कमलाका रस तैयार किया श्रीमती कमला नेहरूने । जेलखानोंके इन्स्पेक्टर-जनरलने, जो सरकारी पत्र लेकर आये थे, अनुरोध किया कि महात्माजीको रस पिलायें श्रीमती कस्तूरबाई खुद अपने हाथसे । महादेवने कहा, “जीवन जखन शुकाये जाय करुणा-धाराय एसो” गीताञ्जलीका यह गीत महात्माजीको बहुत प्यारा है । सुर भूल गया था मैं । तबके सुरमें सुर मिलाकर ही गाना पड़ा । पंडित श्याम शास्त्रीने वेद पाठ किया । उसके बाद महात्माजीने श्रीमती कस्तूर बाईके हाथसे धीरे-धीरे नीवूका रस पीया । अन्तमें सावरमतीके आश्रमवासियों और उपस्थित सबने मिलकर “वैष्णव जन तो तेने कहिये जो पीड़ पराई जाने रे” गाया । फिर फल और मिठाई बाटी गई । और हम सबोंने ग्रसाद समझूकर उसे ग्रहण किया ।

जेलकी चहारदीवारीके भीतर यह महोत्सव हो रहा था । ऐसी अनोखी बात और-कहाँ भी नहीं हुई । ग्राणोत्सर्गका यज्ञ हुआ जेलखानेमें, और उसकी सफलताने वहाँ अपना रूप धारण किया । मिलनकी यह अकस्मात्-आविर्भूत अपूर्व मूर्ति थी, इसे कहा जा सकता है ‘यज्ञसम्भवा’ ।

रातको पूनामें उपस्थित पं० हृदयनाथ कुंजरु प्रमुख विशिष्ट नेताओंने घेर लै आ मुक्ते, दूसरे दिन होनेवाली भट्ठात्ता गान्धीजी वापिक उत्सव-समारोह में सुन्में सभापति बनना पड़ेगा। बम्बईसे मालवीयजी भी आ रहे थे। मैंने प्रस्ताव किया कि मालवीयजीके सभापतित्वमें मैं दो-चार बातें लिखकर कहूँगा। शारीरिक कमजोरीको अस्वीकार करके शुभ-दिनकी इस विराट जनसभामें भाग लिये वर्गेर न रहा गया मुन्हते।

तीसरे पहर 'शिवाजी-मन्दिर' नामक विशाल मुक्त प्राङ्गणमें विराट जनसभा हुई। बड़ी मुझिक्लसे मैं भीतर घुसा। सोचने लगा, अभिभन्नुकी तरह श्रवेश तो हो गया, पर निकलनेका क्या उपाय होगा? मालवीयजीने अपनी उपकरणिकामें बड़ी खूबीके साथ सबको चमकाया कि अस्मृद्धता हिन्दू-शास्त्रके अनुकूल नहीं। बहुतसे संस्कृत श्लोकोंके प्रमाण देकर उन्होंने अपना वक्तव्य प्रमाणित किया। मेरा कठ धीर था, उसमें इतना दम कहा कि इतनी दी चमामें अपना वक्तव्य सबके कानों तक पहुँचा सके? मुंहजवानी दोन्हार शब्द कहे, फिर अपनी रचना मुनानेश्वर मार सौंप दिया श्री गोविन्द मालवीय पर। मुक्त बाशबर्य हुआ जब वे नेरी विन-तुनी रचनाको धाराप्रवाह स्पष्ट कर्णके पट्टे चढ़े गये।

इसके बाद, पहिले मोर्निंगल नेहरुकी परीने, अपने भाई-बहनोंको लख फरके कहा कि सामाजिक साम्य-वनकी रक्षा करनेमें वे छुट भी उठा न रखें। फिर उव्वश्री राजगोपालाचारी, राजन्यप्रसाद भादि अन्यान्य नेताओंने भारिक शब्दोंमें सामाजिक अशुद्धि दूर करनेके लिए देशवाचियोंका आकाशन किया। सभामें उपस्थित विगाह जनसम्मने हाथ उठाकर लस्तूदत्ता निवारणके लिए प्रतिशो अधिष्ठ थी। मैं समझ गया कि सक्षके मनमें भट्ठात्ताकी जाजकी वार्ता गई है। छुट दिन पट्टे तक ऐसे दुष्ट शंकर्यमें इतने हजार लोगोंका सोलत पाना सम्भव नहीं था।

इसरे दिन उड्डेरे बहुत देर तक मैं भट्ठात्ताजीक पास रहा। उनके सभ और मालवीयजीके साथ बहुत देर तक अनेक विषयोंमें नेरी बातें पूछे। एक दो दिनमें भट्ठात्ताजीको असारीत घूँ मिल गया। उनका एक्सेसर दृष्टि

और खूनका दवाव लगभग स्वाभाविक हो गया। अतिथि-अभ्यागते तौता-सा बँध गया,— सभी प्रणाम करके हँसते-हुए अपना आनन्द प्रफुट कर लगे। वच्चे भी आये और फूल चढ़ाकर अपने मनकी फूल जाहिर करने लगे। वच्चोंको पाकर महात्माजी इतने खुश थे कि कहते नहीं बनता। वन्धु-वाद और साधियोंके साथ सामाजिक सम्बन्धके विषयमें तरह-तरहकी चरचा चलगी। अब उनकी चिन्ताका प्रधान विषय था ‘हिन्दू-सुसलमानका विभंजन’।

आज जो महात्माजीका जीवन हमारे आगे विराट भूमिकामें उज्ज होकर दिखाई दिया है, उसमें सर्वमानवके भीतर ‘महामानव’ के प्रत्यक्ष दर्शन करनेकी प्रेरणा है। वह प्रेरणा सार्थक हो भारतमें सर्वत्र, सबकी यही एक कामना है। मुक्ति-साधनाका सच्चा मार्ग भनुष्यकी एकताकी साधनामें राष्ट्रीय पराधीनता हमारे हजारों सामाजिक भेद-विच्छेदोंके सहारे ही पर्न है। आज वह दिन आ गया जब कि जड़-प्रथाओंके समस्त बन्धनोंको कर उदार-एकताके मार्गपर मानव-सम्यता आगे बढ़ेगी।

---

